



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 1—अक्टूबर 7, 2011 (आश्विन 9, 1933)

No. 40]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1—OCTOBER 7, 2011 (ASVINA 9, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

सं. 420, दिनांक 23 अगस्त 2011—महामहिम राष्ट्रपति, एयर मार्शल एन ए के ब्राउन पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी (13129) उड़न (पायलट) को एयर चीफ मार्शल के मूल रूप में 31 जुलाई 2011 (अपराह) से वायु सेनाध्यक्ष नियुक्त करते हैं

शशि कान्त शर्मा  
रक्षा सचिव

वित्त प्रभाग

सं. 421, दिनांक 23 अगस्त 2011—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी मारग्रेट गांगे को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 13 जुलाई 2011 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं

टी हेनरी फ्रैंकलिन  
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना/मु.का.)

थल सेना विभाग

सं. 422, दिनांक 24 अगस्त 2011—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेवा

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

दीपक चौहान (डीएस-12317एफ), 01 जनवरी 2009

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

तनुज मेंदीरत्ता (डीएस-12360एच), 24 अगस्त 2009

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 24 फरवरी 2009 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

महेश चन्द्र  
मेजर जनरल  
एडीजीडीएस

## सेना शाखा

सं. 423, दिनांक 24 अगस्त 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले बनाया जाता है

मुकेश कुमार यादव (टीए-42779), (इन्फैंट्री), 01 सितम्बर 2010 (अप)

शमशेर सिंह (टीए-42780), (इन्फैंट्री), 03 सितम्बर 2010 (पूर्वा)

जय सिंह (टीए-42781), (इन्फैंट्री), 10 सितम्बर 2010 (पूर्वा)

एस पी सिंह शेखावत (टीए-42782), (इन्फैंट्री), 16 सितम्बर 2010 (पूर्वा)

अभिनव सिंह रावत (टीए-42783), (इन्फैंट्री), 18 सितम्बर 2010 (पूर्वा)

कृष्ण लाल आर (टीए-42784), (इन्फैंट्री), 20 सितम्बर 2010 (पूर्वा)

गोपालन विनोद (टीए-42785), (इन्फैंट्री), 04 अक्टूबर 2010 (पूर्वा)

अश्विन पोगुला (टीए-42786), (इन्फैंट्री), 06 सितम्बर 2010 (पूर्वा)

परमवीर सिंह कोचर (टीए-42787), (इन्फैंट्री), 22 अक्टूबर 2010 (पूर्वा)

मोहन पेरीनचेरी (टीए-42788), (इन्फैंट्री), 23 अक्टूबर 2010 (पूर्वा)

हरप्रीत सिंह (टीए-42789), (इन्फैंट्री), 02 नवम्बर 2010 (पूर्वा)

नवीन कुमार झा (टीए-42791), (इन्फैंट्री), 16 नवम्बर 2010 (अप)

संजय कुमार कलसी (टीए-42795), (इंजीनियर टीए), 24 फरवरी 2010 (अप)

किशोर कुमार (टीए-42796), (इंजीनियर टीए), 26 नवम्बर 2010 (अप)

वी राजाराम  
अवर सचिव

-----  
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 424, दिनांक 25 अगस्त 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

ए. के. सिंह को वरिष्ठ लेखा अधिकारी ग्रेड-II, ग्रुप 'ए' के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 04 मार्च 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

वी पी सिंह  
उपनिदेशक (कार्मिक एए2)

## वायु शाखा

सं. 425, दिनांक 25 अगस्त 2011--माननीय राष्ट्रपति महोदया, स्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) प्राप्त निम्नलिखित अफसरों की सेवा को स्थायी करते हैं, जो 02 जुलाई 2010 से प्रभावी होगा। यह स्थायीकरण 02 जुलाई, 2008 की पूर्व-तिथि से प्रदान किया जाता है :--

## भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी/इलैक्ट्रानिकी) शाखा

फ्ला अफ रौनक शर्मा (30573), आई(एल)

फ्ला अफ ए रघुरमन (30549), आई(एम)

फ्ला अफ योगेश कुमार यादव (30575), आई(एल)

फ्ला अफ तुरिन घोष (30592), आई(एल)

फ्ला अफ ए किरन कुमार (30589), आई(एल)

फ्ला अफ सौरभ मित्तल (30606), आई(एल)

फ्ला अफ मधुसूदन कुमार (30557), आई(एम)

फ्ला अफ एम ऋपाकुमार (30579), आई(एल)

फ्ला अफ मनीष शर्मा (30601), आई(एल)

फ्ला अफ मानस एम गुट्टल (30559), आई(एल)

फ्ला अफ जितेश कुमार (30611), आई(एल)

फ्ला अफ विकास कुमार (30564), आई(एल)

फ्ला अफ अमन जैन (30580), आई(एल)

फ्ला अफ भारत बजाज (30588), आई(एल)

फ्ला अफ जितेन्द्र (30610), आई(एल)

फ्ला अफ जनमीत सिंह मलही (30595), आई(एल)

फ्ला अफ रोहित बाली (30554), आई(एल)

फ्ला अफ अभिषेक पुजारी (30605), आई(एल)

फ्ला अफ प्रतीक गंगवाल (30684), आई(एल)

फ्ला अफ रवि कुमार अहलावत (30586), आई(एल)

फ्ला अफ प्रशांत गर्ग (30594), आई(एल)

फ्ला अफ जितेन्द्र जामवाल (30585), आई(एल)

फ्ला अफ अंकित शर्मा (30584), आई(एल)

फ्ला अफ वरुण पारीक (30604), आई(एल)

फ्ला अफ नरिन्दरजीत सिंह (30550), आई(एल)

फ्ला अफ गौरव (30582), आई(एल)

फ्ला अफ करन बधावन (30562), आई(एल)

फला अफ सानिल पी थॉमस (30553), आई(एम)  
 फला अफ रवि एचके (30599), आई(एल)  
 फला अफ अभिमन्यु त्यागी (30600), आई(एल)  
 फला अफ शरद समर्थ (30593), आई(एल)  
 फला अफ संदीप कुमार सिंह (30589), आई(एल)  
 फला अफ विशाल चौहान (30603), आई(एल)  
 फला अफ प्रदीप आर जे (30551), आई(एम)  
 फला अफ रंजन कुमार (30591), आई(एल)  
 फला अफ आशिष चन्दन (30607), आई(एल)  
 फला अफ पंकज शर्मा (30581), आई(एल)  
 फला अफ राहुल खंडेलवाल (30560), आई(एल)  
 फला अफ सौविक हुई (30616), आई(एल)  
 फला अफ राहुल चक्रवर्ती (30596), आई(एल)  
 फला अफ रीजू चक्रवर्ती (30615), आई(एल)  
 फला अफ अंकित मूले (30571), आई(एल)  
 फला अफ सौरभ तोमर (30552), आई(एम)  
 फला अफ गौतम श्रीवास्तव (30613), आई(एल)  
 फला अफ विशाल शर्मा (30574), आई(एल)  
 फला अफ राहुल मान (30556), आई(एम)  
 फला अफ डी के दूबे (30548), आई(एम)  
 फला अफ शिव कृष्ण डीडला (30568), आई(एल)  
 फला अफ रविकांत (30577), आई(एल)  
 फला अफ चेतन वी आचार(30563), आई(एल)  
 फला अफ प्रदीप कुमार राठी (30609), आई(एल)  
 फला अफ सौरभ यादव (30598), आई(एल)  
 फला अफ मानवेन्द्र सिंह (30569), आई(एल)  
 फला अफ विनीत कुमार शर्मा (30583), आई(एल)  
 फला अफ सुदीप कुमार दत्ता (30561), आई(एल)  
 फला अफ बी एस जसवाल (30587), आई(एल)  
 फला अफ अमित कुमार (30566), आई(एल)  
 फला अफ पंकज सिंह मलिक (30608), आई(एल)  
 फला अफ अभिषेक कुमार (30612), आई(एल)  
 फला अफ जतिन सिंह (30602), आई(एल)  
 फला अफ सौरभ कुमार (30565), आई(एल)

फला अफ सिबिन डी फिलीपोज (30614), आई(एल)  
 फला अफ अजिल सक्सेना (30634), आई(एल)  
 फला अफ गोपालकृष्णन आर (30617), आई(एल)  
 फला अफ ए पद्मनाभन एल (30578), आई(एल)  
 फला अफ प्रणव सेठ (30590), आई(एल)  
 फला अफ वी अरूणाचलम (30567), आई(एल)  
 फला अफ विनीत कुमार दीक्षित (30558), आई(एल)  
 फला अफ दीप भूषण वर्मा (30576), आई(एल)

माननीय राष्ट्रपति महोदय स्थायी कमीशन प्रदान किए गए निम्नलिखित अफसरों की सेवा की पुष्टि करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगा :--

#### भारतीय वायुसेना

पूर्व फला कौडेटों से फला अफ के रैंक में

#### प्रशासन शाखा

फला अफ अरूण प्रकाश मिथिलेश (30465), विजय कुमार (30466), मनीष कुमार राय (30467), अभिमन्यु चन्देल (30468), आनंद सिंह शेखावत (30469), शीतल शर्मा (30470), सुधा भट्टाचार्य (30471)--27 जून 2009 से प्रभावी

#### संभारिकी शाखा

फला अफ मनमोहन महंत (30472), विवेक शर्मा (30473), मनीष कुमार सिंह (30474)--27 जून 2009 से प्रभावी

#### लेखा शाखा

फला अफ पीयूष अग्रवाल (30475), शशिरंजन सिंह (30476), संजय प्रसाद जुगरान (30477), लाइजू ऑगस्टीन कण्डोथ (30478), रवि शंकर सिंह (30479), राजविन्दर सिंह सिद्धू (30480), साईप्रसाद तुमुलु (30481), गौरव त्यागी (30482)--27 जून 2009 से प्रभावी

#### शिक्षा शाखा

फला अफ रोशन लाल यादव (30483), अर्धनारी वैद्यनाथ (30484), तम्पेल्ला रमेश कुमार (30485)--27 जून 2009 से प्रभावी

#### मौसम विज्ञान शाखा

फला अफ अशोक (30134)--27 जून 2009 से प्रभावी

#### उड़ान (पायलट) शाखा

पूर्व-फ्लाइंट कौडेटों से फ्लाइंग अफसर के रैंक में

फला अफ हिमांशु गुप्ता (30382), नीरज शर्मा (30383), प्रकाश ओमनाकुट्टम (30384), कृष्ण कुमार शर्मा (30386), अल्ला वेंकट नवीन कुमार (30387), प्रशांत शर्मा (30388), वी लोगेश (30389), भरत सिंह (30390), निखिल पाण्डेय (30392), अर्पित ढाका (30393), प्रवीण कृष्णमूर्ति (30394), सिद्धार्थ नेगी (30395), आलोक चौधरी (30396), मृत्युंजय धर (30397), जॉय चन्द्रा (30398),

हनुमंतराव सारथी (30399), फैज़ रफिउद्दीन शेख (30400), हर्षित त्यागी (30401), सौरभ कुमार सिंह (30402), गौरव कुमार पालीवाल (30403), सूर्यकांत थलयारी (30404), विभु माहेस्वरी (30405), ज्ञानेन्द्र पाण्डेय (30406), राजा जी सिंह (30407), दीपक सान्सनवाल (30408), विवेक कुमार (30409), मुकुल महाजन (30410), जनमीत शर्मा (30411), अमोल अशोक दीक्षित (30412), तुहिन मुखर्जी (30413), आशुतोष सेखरी (30414), राहुल तिवारी (30415), प्रशांत द्विवेदी (30416), राजकुमार ललित (30417), नितेश कुमार धोमान (30418), चक्रपाणि काजला (30419), शोभन त्यागी (30421), सार्थक बुधिया (30422), पुनीत अवतार मिसकीन (30423), किंजल डी दीक्षित (30424), प्रेम प्रतीक (30425), मनु विद्याधरन (30428), राजेन्द्र कुमार साहू (30429), सोनल बढियार (30430), विजयेन्द्र गंगोपाध्याय (30431), रत्नदीप भऊसाहेब जगादले (30432), तपन कुमार राय (30433), जोसफ साईमन (30434), प्रियांक भारद्वाज (30435), चमन प्रकाश (30436), मनिंदर सिंह (30437), करन सिंह राठौड़ (30438), प्रतीक गुप्ता (30439), उदय शंकर तिवारी (30440), सुशील कुमार सिरौही (30441), पुष्पहास सिन्हा (30442), नीरज यादव (30443), चन्दन पट्टनायक (30444), विकास राज सिंह (30445), अवधेश त्रिपाठी (30446), शैकी जैन (30448), कुलदीप सिंह (30449), पंकज पाण्डेय (30450), श्रीधर विरूपक्सप्पा बसती (30451), विकास चौहान (30452), मयंक मिश्रा (30454), नटराज डागर (30455), दीपू महेश (30457), पंकज विजय बोरकर (30458), अजय कुमार (30459), नवीन परमेश्वरन मेनन (30460), अंशुल जैन (30461), सचिन शिवाजीराव गाडगे (30462), गोकुल कृष्णन सुतसत्वाचारियार (30463), मान प्रताप सिंह गोदरा (30464)--27 जून 2009 से प्रभावी

माननीय राष्ट्रपति महोदया, अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान किए गए निम्नलिखित अफसरों की सेवा की पुष्टि करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखित तारीख से प्रभावी होगा :--

#### भारतीय वायुसेना

##### वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी/इलैक्ट्रिकी)

फ्ला अफ संजीवनी मोहिते (30662), आई(एल)  
 फ्ला अफ जी शारदा (30657), आई(एल)  
 फ्ला अफ अनुभव सिन्हा (30635), आई(एल)  
 फ्ला अफ शिवांगी (30668), आई(एल)  
 फ्ला अफ तरनजौत कौर (30669), आई(एल)  
 फ्ला अफ नचिकेता भोरनिया (30636), आई(एल)  
 फ्ला अफ राहुल वीरावल्ल्ही (30633), आई(एल)  
 फ्ला अफ मोहित कुमार बहल (30631), आई(एल)  
 फ्ला अफ प्रियंका जोशी (30656), आई(एल)  
 फ्ला अफ आरती सिंह (30654), आई(एल)  
 फ्ला अफ सुविधा गुप्ता (30661), आई(एल)  
 फ्ला अफ सोनिका तंवर (30653), आई(एल)

फ्ला अफ हिमांशु हेमराजनी (30624), आई(एल)  
 फ्ला अफ जितिन खुराना (30637), आई(एल)  
 फ्ला अफ सुमेधा चोपड़ा (30678), आई(एल)  
 फ्ला अफ रोहित चौहान (30638), आई(एल)  
 फ्ला अफ मीनाक्षी श्रीवास्तव (30667), आई(एल)  
 फ्ला अफ ज्योति चौहान (30647), आई(एल)  
 फ्ला अफ अनिल शर्मा (30628), आई(एल)  
 फ्ला अफ ओमकार प्रवीण देसाई (30620), आई(एल)  
 फ्ला अफ मेहा गौतम (30672), आई(एल)  
 फ्ला अफ अंकित गुप्ता (30627), आई(एल)  
 फ्ला अफ ध्रुविका राज (30664), आई(एल)  
 फ्ला अफ तरंग आर्या (30643), आई(एल)  
 फ्ला अफ गुरजीत सिंह (30619), आई(एल)  
 फ्ला अफ निलोफर खान (30642), आई(एल)  
 फ्ला अफ अनुज चौपड़ा (30618), आई(एल)  
 फ्ला अफ पी जसवन्त कुमार (30626), आई(एल)  
 फ्ला अफ रोजलिन के एम जोसफ (30659), आई(एल)  
 फ्ला अफ किशोर ठकराल (30629), आई(एल)  
 फ्ला अफ मीनाक्षी कुमारी (30650), आई(एल)  
 फ्ला अफ गौरव चौधरी (30625), आई(एल)  
 फ्ला अफ रमेश कुमार कृष्णसामी (30630), आई(एल)  
 फ्ला अफ ममता डी (30675), आई(एल)  
 फ्ला अफ बीना पाण्डेय (30645), आई(एल)  
 फ्ला अफ तृप्ति वर्मा (30670), आई(एल)  
 फ्ला अफ कृति दीक्षित (30676), आई(एल)  
 फ्ला अफ कृष्ण नंबूदिरी (30570), आई(एल)  
 फ्ला अफ अंकुर यादव (30622), आई(एल)  
 फ्ला अफ राजश्री अभिरमन (30646), आई(एल)  
 फ्ला अफ दीप्ति काला (30660), आई(एल)  
 फ्ला अफ जेमिनी (30674), आई(एल)  
 फ्ला अफ अनुप्रिया निगम (30673), आई(एल)  
 फ्ला अफ किशोर कुमार हिरवानी (30621), आई(एल)  
 फ्ला अफ अभिषेक कुमार सिंह (30623), आई(एल)  
 फ्ला अफ नेहा गौतम (30665), आई(एल)

फ्ला अफ उपासना सोहलोत (30652), आई(एल)

फ्ला अफ सुरूचि गोयल (30663), आई(एल)

फ्ला अफ सोनिका कुमारी (30640), आई(एम)

फ्ला अफ प्रणीता रैना (30655), आई(एल)

फ्ला अफ मनीष त्यागी (30658), आई(एल)

फ्ला अफ मेघा गुप्ता (30651), आई(एल)

फ्ला अफ सौभद्र कुमार गुप्ता (30686), आई(एल)

फ्ला अफ संगीता नायर (30685), आई(एल)

फ्ला अफ प्रियंका करवासरा (30649), आई(एल)

फ्ला अफ अदीति सिसोदिया (30666), आई(एल)

फ्ला अफ गायत्री वी (30677), आई(एल)

फ्ला अफ स्वाति हतवाल (30639), आई(एम)

फ्ला अफ रैनी शर्मा (30679), आई(एल)

फ्ला अफ अमनप्रीत कौर सहगल (30644), आई(एल)--02 जुलाई 2010 से प्रभावी

भारतीय वायु सेना

पूर्व-फ्लाईट कैंडिडेटों से फ्लाईंग अफ के रैंक पर

प्रशासन शाखा

फ्ला अफ मोनिका रांगी (30523), तृष्णा भट्ट (30524), प्रियंका ठाकुर (30525), रश्मि (30526), खुम्बोंगमयुम प्रिया चानू (30527), शायना कदयान (30528), ऋचा पाण्डेय (30529), कनुप्रिया कर्की (30530), अनुभुति नौटियाल (30531), नेहा बिष्ट (30532), नेहा साहू (30533)--27 जून 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

फ्ला अफ रेखा यादव (30534), स्वामीनारायणी सुन्दरम (30535), शुभि शर्मा (30536), अदीती गुप्ता (30537), प्रियंका हुड्डा (30538), नूपुर सिंह (30539), सुनयना (30540), मृणालिनी बालेकुन्दरी (30441)--27 जून 2009 से प्रभावी

लेखा शाखा

फ्ला अफ नीरू कुमारी राय (30542), सपना पाण्डेय (30543), पल्लवी (30544), पप्पी शुक्ला (30545), अर्पिता मुखर्जी (30546)--27 जून 2009 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

फ्ला अफ भवानी बी (30547)--27 जून 2009 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

फ्ला अफ पूजा बाजपेई (30135), रीतु कुण्डु (30136), शालिनी सिंह (30137), प्रिया ठाकुर (30138), सोनाली शर्मा (30139)--27 जून 2009 से प्रभावी

उड़ान (पायलट) शाखा

पूर्व-फ्लाईट कैंडिडेटों से फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

फ्ला अफ योगेश मेहता (30489), आदित्य विक्रम सिंह (30490), राहुल पी वेंरेकार (30491), सुनील सांगवान (30492), अजय चन्द्रा (30493), दुष्यंत सिंह राठौड़ (30494), प्रियव्रत सिंह (30495), अर्चित अग्निहोत्री (30496), ऋषि पाल (30497), आलोक कुमार गोअकर (30498), प्रशांत कोण्डल (30499), चन्द्रजीत शेखावत (30500), मीत कुमार (30501), चौहान आसिफ इकबाल मोहम्मद अशरफ (30502), प्रोतिम दास (30503), हिमांशु (30504), संदीप कुमार (30505), वीर कुमार (30506), रोहित तिवारी (30507), अभिषेक वशिष्ठ (30510), अनरिद्ध पठानिया (30511), मलय कुमार सिंह (30513), अमन सिंह चंदेल (30514), अमित सिंह (30516)--27 जून 2009 से प्रभावी

तरूण खरे

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3(डी)

धल सेना शाखा

सं. 426, दिनांक 26 अगस्त 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

सर्जन कमांडर से सर्जन कैंप्टन (व समकक्ष) के पद पर

ए ए करमाकर (एमआर-05736डब्ल्यू) 04 मार्च 2011 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2010 से दी जाती है।

जी वी वेंकट (एमआर-06173एन) 04 मार्च 2011 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है।

यश पांडे

ब्रिगे

उपमहानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

सेना शाखा

सं. 427, दिनांक 26 अगस्त 2011--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आई सी सं., नाम, आर्म, ले. कर्नल दिनांक से

(आईसी-56931) नितिन कुमार, इंजीनियर्स, 07 जून 2010

(आईसी-56933) उदयबीर सिंह ढिल्लन, ए सी, 07 जून 2010  
 (आईसी-56937) नवीन एन डी, इंजीनियर्स, 07 जून 2010  
 (आईसी-56942) परेश चन्द्र गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 07 जून 2010  
 (आईसी-57118) सुधीर नोहवार, ए ए डी, 07 जून 2010  
 (आईसी-57236) सिद्धार्थ खत्री, इंजीनियर्स, 07 जून 2010  
 (आईसी-57365) विभोर पंत, इंजीनियर्स, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57376) अजय कुमार यादव, आर्टी, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57385) हितेश कुमार धनखर, इन्फैन्ट्री, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57396) अंजन कुमार सिन्हा, ई एम ई, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57397) अभिषेक खत्री, इंजीनियर्स, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57419) एस विजय कुमार, इन्फैन्ट्री, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57464) राजीव अहलावत, इंजीनियर्स, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57485) मंगल खन्ना, ई एम ई, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57502) शारावत दीपांकर कपूर सिंह, इन्फैन्ट्री, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57520) निसे मोन कुरियाकोस, ई एम ई, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57538) जी करपागा विनायागम, इंजीनियर्स, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57539) जी अरविन्धन, इंजीनियर्स, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57549) मोहित कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57574) राकेश कुमार भारद्वाज, इन्फैन्ट्री, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57601) मनीष गुलिया, ई एम ई, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57640) पुनीत कुमार भारद्वाज, इंजीनियर्स, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57648) विरेन्द्र पंत, इन्फैन्ट्री, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-57685) के एल राय, इन्फैन्ट्री, 06 दिसम्बर 2010  
 (आईसी-58941) अनुराग भारद्वाज, ई एम ई, 12 जून 2010  
 (आईसी-59041) अजय सिंह बरगोटी, इंजीनियर्स, 12 जून 2010  
 (एसएल-04532) जगदीश सिंह, एस एल टी ओ टी, 26 जनवरी 2011

प्रभात रॉस  
 उप निदेशक  
 एम एस 8 सी

सं. 428, दिनांक 26 अगस्त 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना  
 प्रादेशिक कमीशन

लै. कर्नल बनाया जाता है

मेजर पंकज कुमार (टीए-42313), (इंजीनियर टीए), 26 जून 2011

मेजर दस्तागिरसाहिव एम दाफेदार (टीए-42263), (इन्फैन्ट्री), 01 मई 2010

मेजर जे आर प्रभु (टीए-42413), (इन्फैन्ट्री), 01 फरवरी 2011

मेजर ए साम जॉर्ज (टीए-42273), (इन्फैन्ट्री), 25 मई 2010

मेजर के रैंक में

कैप्टन डी वाई सेमा (टीए-42416), (इन्फैन्ट्री), 02 जुलाई 2007

कैप्टन रोहित कोचर (टीए-42549), (इन्फैन्ट्री), 10 दिसम्बर 2010

कैप्टन अजय कुमार सांगवान (टीए-42550), (इन्फैन्ट्री), 14 दिसम्बर 2010

वी राजाराम  
 अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 429, दिनांक 26 अगस्त 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना  
 स्थायी कमीशन  
 कप्तान से मेजर

(आईसी-62874) विकास धनकर, ए ओ सी, 10 दिसम्बर 2008

प्रभात रॉस  
 उप निदेशक  
 एम एस-8सी

थल सेना विभाग

सं. 430, दिनांक 29 अगस्त 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं :--

नियमित सेना  
 पायनियर कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी/आर टी)

रैंक, नाम, जेसी नम्बर, पदोन्नति दिनांक

सूबेदार (जी डी) मोहम्मद अकतरुद्दीन मजूमदार (जेसी-829341पी), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार (आर टी) राम उजागिर त्रिपाठी (जेसी-144224पी),  
01 मई 2011

सूबेदार (आर टी) गोवर्धन प्रसाद चमोली (जेसी-144225एक्स),  
02 मई 2011\*

सूबेदार (आर टी) यदुवंश प्रसाद (जेसी-146619), 18 मई 2011\*

\*वरिष्ठता 01 मई 2011 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना।

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 431, दिनांक 29 अगस्त 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ  
करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजीमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सर्वेश सिंह (जेसी-419425एफ), 02 जून 2011\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गोविंद सिंह (जेसी-420760एक्स), 21 अप्रैल 2011\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अवधेश कुमार त्रिपाठी (जेसी-421212एम), 31 मई  
2011\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार टी गुरु स्वामी (जेसी-421343एक्स) 01 मई 2011

नायब सूबेदार महेंद्र सिंह (जेसी-420884एम), 18 मई 2011\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 17 मई 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-420377वाई), 10 जून 2011\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

जे राव चौधरी  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 432, दिनांक 30 अगस्त 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ  
करते हैं :--

नियमित सेवा

नाम, सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर और पदोन्नति दिनांक

सूबेदार पी आनंदन (जेसी-826187डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

सूबेदार कुंदन सिंह (जेसी-826189एफ), 01 फरवरी 2011

सूबेदार सिराज खान (जेसी-826190डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

सूबेदार यश पाल (जेसी-826191वाई), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार विवेकानंद रावलो (जेसी-826192एफ), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-826193के), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-826195पी), 04 अप्रैल 2011/01 अप्रैल  
2011\*

सूबेदार प्रेमराम (जेसी-826196एक्स), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार पुरन सिंह रावल (जेसी-826197ए), 02 मई 2011/01 मई  
2011\*

सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-826198एच), 04 मई 2011/01 मई  
2011\*

\*वरिष्ठता दिनांक

प्रेम प्रकाश  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 433, दिनांक 30 अगस्त 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार (क्लर्क एस डी) एम मुरुगवेल (सं. 6926049पी अब  
जेसी-729212ए) 01 मार्च 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) मुनु स्वामी एस (सं. 6926072एच अब  
जेसी-729213एच) 01 मार्च 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) केसवन आर (जेसी-6926074एन अब  
जेसी-729214एल), 01 मार्च 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) जी पी मोहन कुमार (सं. 6926078के  
अब जेसी-729215एन), 01 मार्च 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) पी ए अहमद खान (सं. 6926107एन  
अब जेसी-729216डब्ल्यू), 01 मार्च 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) स्वरन सिंह (सं. 6926115एम अब  
जेसी-729217वाई), 01 मार्च 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) एन एस मील (सं. 6926131के अब जेसी-729218एफ), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी एम टी) एन के एम राव (सं. 6926811के अब जेसी-729219के), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी एम टी) के पी आर व्यंकट (सं. 6926814एक्स अब जेसी-729220वाई), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी एम टी) एस एस कौदीबा (सं. 6926815ए अब जेसी-729221एफ), 05 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (एस के टी सिग्नल) कुलदीप सिंह (सं. 6922325पी अब जेसी-729222के), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी एम टी) डब्ल्यू पी यू राव (सं. 6926820एल अब जेसी-729223एम), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी एम टी) डब्ल्यू ए भिवा (सं. 6926862एक्स अब जेसी-729224पी), 01 मार्च 2011

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी एच सी त्रिपाठी (सं. 6926581एफ अब जेसी-729225एक्स), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी वेपन) बी ए सोनबा (सं. 6926894ए अब जेसी 729226ए), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी वेपन) एस एस बाबु (सं. 6926897एन अब जेसी-729227एच), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी वेपन) आर बी एस महादेव (सं. 6926898डब्ल्यू अब जेसी-729228एल), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी वेपन) डी वी दत्तत्रय (सं. 6926899वाई अब जेसी-729229एन), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी वेपन) जे पी श्रीमंत (सं. 6926902एन अब जेसी-729230एच), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी वेपन) जे जे आशाराम (सं. 6926903डब्ल्यू अब जेसी-729231एल), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी वेपन) बी आर एस मारुति (सं. 6926907एम अब जेसी-729232एन), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी सिग्नल) बी बी शुक्ला (सं. 6933725एफ अब जेसी-729233डब्ल्यू), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) एन बी दत्तत्रय (सं. 6926934डब्ल्यू अब जेसी-729234वाई), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) बी आर विष्णु (सं. 6926938एम अब जेसी-729235एफ), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) आर जी एस एम सिंह (सं. 6926946एल अब जेसी-729236के), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) पी पी के ए खान (सं. 6926948डब्ल्यू अब जेसी-729237एम), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) जे टी द्यनेश्वर (सं. 6926966वाई अब जेसी-729238पी), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) के पी बाबु (सं. 6926936एफ अब जेसी-729239एक्स), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) पी एन आर साहेब (सं. 6926971के अब जेसी-729240एम), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) के आर बाबु (सं. 6926974एक्स अब जेसी-729241पी), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) टी एम सी भान (सं. 6926979डब्ल्यू अब जेसी-729242एक्स), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस एच टी) के पी सिंह (सं. 6922957ए अब जेसी-729243ए), 01 फरवरी 2011

हवलदार (एस एच टी) एस एन गुप्ता (सं. 6923067एम अब जेसी-729244एच), 11 मार्च 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार (एस एच टी) सुशील ठाकुर (सं. 6923393पी अब जेसी-729245एल), 01 मार्च 2011

हवलदार (एस एच टी) आर बी कुंड्री (सं. 6923394एक्स अब जेसी-729246एन), 01 मार्च 2011

हवलदार ((एस एच जी डी)) परम हानस (सं. 6922942एक्स अब जेसी-729247डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2010

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार (एस एच जी डी) रिटु गोगोई (सं. 6924617डब्ल्यू अब जेसी-729248वाई), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (एस एच जी डी) के के मुकटि (सं. 6924697वाई अब जेसी-729249एफ), 01 फरवरी 2011

हवलदार (अम्युनीशन तकनीशियन) एम ए खान (सं. 6932857एच अब जेसी-729250डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) ए एस राय (सं. 6926156डब्ल्यू अब जेसी-729251वाई), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) जे डी पाल (सं. 6926159के अब जेसी-729252एफ), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) एच साहु (सं. 6926161एफ अब जेसी-729253के), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) एम के एस राय (सं. 6926162के अब जेसी-729254एम), 01 अप्रैल 2011



हवलदार (क्लर्क आई एम) एम ए अहमेद (सं. 6926164पी अब जेसी-729255पी), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) के एस टोमर (सं. 6926178पी अब जेसी-729256एक्स), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) ए डी विटल (सं. 6926237डब्ल्यू अब जेसी-729257ए), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) जे पी विष्णु (सं. 6926169वाई अब जेसी-729258एच), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) क्रिशन कुमार (सं. 6926307के अब जेसी-729259एल), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एस के टी वेपन) नारायण पांडी (सं. 6926647एम अब जेसी-729260ए), 26 मार्च 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) पी एस एस राव (सं. 6926982डब्ल्यू अब जेसी-729261एच), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) एच एस एच राया (सं. 6926985के अब जेसी-729262एल), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) जे डी टी राव (सं. 6927001एन अब जेसी-729263एन), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) एस सी एम राव (सं. 6927004एफ अब जेसी-729264डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) पी ए पांडुरंग (सं. 6927010पी अब जेसी-729265वाई), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) जे यु के पुरुशोतम (सं. 6927018एफ अब जेसी-729266एफ), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) दौलत राम (सं. 6927022के अब जेसी-729267के), 05 अप्रैल 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

हवलदार (एस के टी जी एस एंड सी) माम राज (सं. 6927024पी अब जेसी-729268एम), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एस के टी सिग्नल) हरकेश सिंह (सं. 6927025एक्स अब जेसी-729269पी), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एस के टी इंजीनियर) गेन चंद (सं. 6927029एन अब जेसी-729270के), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एस के टी इंजीनियर) करन सिंह (सं. 6927031एल अब जेसी-729271एम), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एस के टी इंजीनियर) सुरेश कुमार (सं. 6927034वाई अब जेसी-729272पी), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसकेटीएमटी) डी बी सिंह (सं. 6927037एम अब जेसी-729273के) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसकेटी इंजीनियर) कमल सिंह (सं. 6927038पी अब जेसी-729274ए) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसकेटी इंजीनियर) सुरेंद्र सिंह (सं. 6927039एक्स अब जेसी-729275एच) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसकेटी सिग्नल) बसवा राज (सं. 6927046एन अब जेसी-729276एल) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसकेटी इंजीनियर) देवेंद्र कुमार (सं. 6927049एफ अब जेसी-729277एन) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (डाइवर एमटी) रामानंद सिंह (सं. 6924816के अब जेसी-729278डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (डाइवर एमटी) सुख राम (सं. 6925107एफ अब जेसी-729279वाई) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसएचजीडी) जी जी विश्वनाथ (सं. 6924137एम अब जेसी-729280एन) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसएचजीडी) रमेश (सं. 6924653एफ अब जेसी-729281डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसएचजीडी) हरीपाल सिंह (सं. 6924986एन अब जेसी-729282वाई) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) पी सी साहु (सं. 6926168एल अब जेसी-729283एफ) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) बी एन जगनाथ (सं. 6926279एच अब जेसी-729284के) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) एस एस कार्भहरी (सं. 6926996डब्ल्यू अब जेसी-729285एम) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) जी ए अप्पा (सं. 6926997वाई अब जेसी-729286पी) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एम्युनिशन तकनीशियन) हरी कुमार जी (सं. 6932404एक्स अब जेसी-729287एक्स) 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसएचटी) देवेंद्र कुमार (सं. 6923704एक्स अब जेसी-729288ए) 01 मई 2011

हवलदार (एसएचटी) बलराम सिंह (सं. 6923725एन अब जेसी-729289एच) 01 मई 2011

हवलदार (एसकेटी सिग्नल) मोहन श्याम (सं. 6924089एक्स अब जेसी-729290एक्स) 01 मई 2011

हवलदार (एसएचजीडी) भरत सिंह (सं. 6924993के अब जेसी-729291ए) 01 मई 2011

हवलदार (डाइवर एमटी) रतन सिंह (सं. 6925111के अब जेसी-729292एच) 03 मई 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (डाइवर एमटी) एसएस प्रसाद (सं. 6925545के अब जेसी-729293एल) 01 मई 2011

हवलदार (डाइवर एमटी) पी के साहू (सं. 6925628पी अब जेसी-729294एम) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) एस चक्रवर्थी (सं. 6926053एक्स अब जेसी-729295डब्ल्यू) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) विजय कुमार (सं. 6926325एम अब जेसी-729296वाई) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) जसवीर सिंह (सं. 6926326पी अब जेसी-729297एफ) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) बलदेव सिंह (सं. 6926328ए अब जेसी-729298के) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) राकेश चंद्र (सं. 6926337एफ अब जेसी-729299एम) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) महिपाल सिंह (सं. 6926343पी अब जेसी-729300पी) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क एसडी) एन आर चौहान (सं. 6926351एन अब जेसी-729301वाई) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) राम निवास (सं. 6926367वाई अब जेसी-729302एफ) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क एसडी) हरीश सिंह (सं. 6926368एफ अब जेसी-729303के) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क एसडी) सी कुमार (सं. 6926369के अब जेसी-729304एम) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क एसडी) होरि लाल (सं. 6926381एल अब जेसी-729305पी) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क एसडी) जी डी महतो (सं. 6926394एच अब जेसी-729306एक्स) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) हरी किशन (सं. 6926397डब्ल्यू अब जेसी-729307ए) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) मनोज कुमार पी के (सं. 6926481डब्ल्यू अब जेसी-729308एच) 04 मई 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क आईएम) ए एडवर्ड राज (सं. 6926485एम अब जेसी-729309एल) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) पी के द्विवेदी (सं. 6926552एम अब जेसी-729310ए) 09 मई 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क आईएम) प्रमोद कुमार (सं. 6926555ए अब जेसी-729311एच) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) जे एस उपाध्यय (सं. 6926559डब्ल्यू अब जेसी-729312एल) 01 मई 2011

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) आर मोरिया (सं. 6926561एन अब जेसी-729313एन) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) गुरु प्रसाद (सं. 6926575एन अब जेसी-729314डब्ल्यू) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) एस के एस राठौर (सं. 6926580वाई अब जेसी-729315वाई) 01 मई 2011

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) एच के माझी (सं. 6926636ए अब जेसी-729316एफ) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क एसडी) एस सी बैद्य (सं. 6926671एच अब जेसी-729317के) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क एसडी) दिनेश कुमार (सं. 6926788एफ अब जेसी-729318एम) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) एन जी हरी राम (सं. 6926852एन अब जेसी-729319पी) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) एन एस नामदेव (सं. 6926900एच अब जेसी-729320के) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) धरमवीर (सं. 6927032एन अब जेसी-729321एम) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आईएम) परश राम (सं. 6927036के अब जेसी-729322पी) 01 मई 2011

हवलदार (एसकेटी इंजीनियर) कुलदीप (सं. 6927052एफ अब जेसी-729323एक्स) 01 मई 2011

हवलदार (एसकेटी इंजीनियर) दीप चंद (सं. 6927057ए अब जेसी-729324ए) 01 मई 2011

हवलदार (एसकेटी इंजीनियर) एम जी बाबा साहेब (सं. 6927070के अब जेसी-729325एच) 01 मई 2011

हवलदार (एसकेटी वेपन) जे एस सदाशिव (सं. 6927087एक्स अब जेसी-729326एफ) 01 मई 2011

हवलदार (एसकेटी सिग्नल) जस राम (सं. 6927133एफ अब जेसी-729327एन) 01 मई 2011

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) के एस रामदास (सं. 6927174एल अब जेसी-729328डब्ल्यू) 01 मई 2011

- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) जया कुमार के (सं. 6931246एफ अब जेसी-729329वाई) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) जे जे मधुकर (सं. 6932092एम अब जेसी-729330एन) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) एस बी नारके (सं. 6932339एच अब जेसी-729331डब्ल्यू) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) जगदीश चंद्र (सं. 6932351के अब जेसी-729332वाई) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) दलजीत सिंह (सं. 6932752वाई अब जेसी-729333एफ) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) जसविंदर चंद (सं. 6932755एम अब जेसी-729334के) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) राकेश सिंह (सं. 6932757एक्स अब जेसी-729335एम) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) के बी साहू (सं. 6932866के अब जेसी-729336पी) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) के एस गोविंद (सं. 6933081एम अब जेसी-729337एक्स) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) के एच विठोब (सं. 6933098ए अब जेसी-729338ए) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) जी सरवनन (सं. 6933111वाई अब जेसी-729339एच) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) के ए दिनकर (सं. 6933113के अब जेसी-729340एक्स) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) दर्वान सिंह (सं. 6933249एन अब जेसी-729341ए) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) आर प्रसाद जोसी (सं. 6933267डब्ल्यू अब जेसी-729342एच) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) शाजी जे एम (सं. 6933332एल अब जेसी-729343एल) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) आर यादव (सं. 6933475एल अब जेसी-729344एन) 09 मई 2011
- \*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) आर कुमार (सं. 6933492एल अब जेसी-729345डब्ल्यू) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) बी आर बर्मन (सं. 6932860एच अब जेसी-729347एफ) 19 मई 2011
- \*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) के एस सिद्धु (सं. 6933114एम अब जेसी-729348के) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) मनोज कुमार (सं. 6933165ए अब जेसी-729349एम) 16 मई 2011
- \*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) एस सिंह (सं. 6933272एफ अब जेसी-729350एफ) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) एन के रावत (सं. 6933284डब्ल्यू अब जेसी-729351के) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) आर एन एस पी सिंह (सं. 6933085एच अब जेसी-729352एम) 21 मई 2011
- \*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) वी कुमरेसन (सं. 6933103ए अब जेसी-729353पी) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) जी एन लिंगो (सं. 6932334के अब जेसी-729354एक्स) 23 मई 2011
- \*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) पी आर कसम (सं. 6932356एच अब जेसी-729355ए) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) बी एस पांडुरंग (सं. 6933086एल अब जेसी-729356एच) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) जे किशोर (सं. 6933234एल अब जेसी-729357एल) 19 मई 2011
- \*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) डी सी सिंघा (सं. 6932845एन अब जेसी-729358एन) 27 मई 2011
- \*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) डी एस बलिराम (सं. 6933255एफ अब जेसी-729359डब्ल्यू) 29 मई 2011
- \*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) अनिल कुमार (सं. 6933483के अब जेसी-729360एल) 01 मई 2011
- हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) आर के झा (सं. 6933486एक्स अब जेसी-729361एन) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) नारायण दत्त (सं. 6926047के अब जेसी-729362डब्ल्यू) 18 मार्च 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क आई एम) एन सुब्रमनि (सं. 6925077पी अब जेसी-729363वाई) 28 अप्रैल 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क आई एम) विजय कुमारन टी (सं. 6926482वाई अब जेसी-729364एफ) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) एस सी सेकर (सं. 6926489एच अब जेसी-729365के) 09 मई 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क आई एम) पी के सिंह (सं. 6926572ए अब जेसी-729366एम) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) आर आर बी सिंह (सं. 6926849एन अब जेसी-729367पी) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम)एस वी धर्मा (सं. 6926858पी अब जेसी-729368एक्स) 29 मई 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क आई एम) बी के राव (सं. 6926165एक्स अब जेसी-729369ए) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) एम एस यादव (सं. 6926308एम अब जेसी-729370पी) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) जी टी सेल्वन (सं. 6926460ए अब जेसी-729371एक्स) 12 मई 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क एस डी) टीएच मनि बाबु सिंघा (सं. 6926713के अब जेसी-729372ए) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) बी एल लुहर (सं. 6926955एम अब जेसी-729373एच) 01 मई 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) जे बी शर्मा (सं. 6927050डब्ल्यू अब जेसी-729374एल) 01 जून 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) के श्रीनिवासुलु (सं. 6927199एक्स अब जेसी-729375एन) 01 जून 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) सुसैनथन ए (सं. 6927203पी अब जेसी-729376डब्ल्यू) 01 जून 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) रामचंद्रन पी (सं. 6925205ए अब जेसी-729377एन) 01 जून 2011

हवलदार (स के टी आम्पुनेशन) वी सत्यनारयण (सं. 6925104एन अब जेसी-729378एफ) 01 जून 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (स के टी आम्पुनेशन) रंजन कुमार (सं. 6924389वाई अब जेसी-729379के) 01 मई 2011

हवलदार (स के टीजीएस एंड सी) सी एस सिंह (सं. 6922655एन अब जेसी-729380वाई) 01 मई 2011

हवलदार (एस के टी सिग्नल) एस एम राव (सं. 6924940एल अब जेसी-729381एफ) 01 मई 2011

हवलदार (एस के टी वेपन) वाई बी जयसिंह (सं. 6927081डब्ल्यू अब जेसी-729382के) 01 मई 2011

हवलदार (एस के टी वेपन) डब्ल्यू आर वसंत (सं. 6927088ए अब जेसी-729383एम) 17 मई 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (एस के टी वेपन) पी एच आर पांडुरंग (सं. 6927098के अब जेसी-729384पी) 15 मई 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (एस के टी सिग्नल) एम ए आर राव (सं. 6927100डब्ल्यू अब जेसी-729385एक्स) 19 मई 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (एस के टी इंजीनियर) एस आर सुगंधा (सं. 6927101वाई अब जेसी-729386ए) 18 मई 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (एस के टी सिग्नल) डी एस हरिबा (सं. 6927104एम अब जेसी-729387एच) 01 मई 2011

हवलदार (एस के टी सिग्नल) एन टी भिकु (सं. 6927112एल अब जेसी-729388एल) 01 मई 2011

हवलदार (एस के टी इंजीनियर) एल एन वासुदेव (सं. 6927179के अब जेसी-729389एन) 18 मई 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (एस के टी इंजीनियर) जी एच नगनाथ (सं. 6927180वाई  
अब जेसी-729390एच) 10 मई 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (एस के टी जीएस एंड सी) बी डी यशवंत (सं. 6927116एफ  
अब जेसी-729391एल) 01 मई 2011

हवलदार (एस के टी जीएस एंड सी) विनोद कुमार (सं. 6927134के  
अब जेसी-729392एन) 01 मई 2011

हवलदार (एसकेटी सिग्नल) टी ए एस एम सिंह (सं. 6927137एक्स  
अब जेसी-729393डब्ल्यू) 01 मई 2011

हवलदार (एस के टी जीएस एंड सी) शिव पाल (सं. 6927145डब्ल्यू  
अब जेसी-729394वाई) 01 मई 2011

हवलदार (एस के टी जीएस एंड सी) एल सहरन (सं. 6927147एफ  
अब जेसी-729395एफ) 01 मई 2011

हवलदार (एस के टी एमटी) एम एस गुर्जर (सं. 6927150एफ अब  
जेसी-729396के) 01 जून 2011

हवलदार (ड्राइवर एमटी) रागव ठाकुर (सं. 6925510एन अब  
जेसी-729397एम) 13 मई 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (ड्राइवर स्पेशल व्हीकल) डी के पांडे (सं. 6925767वाई  
अब जेसी-729398पी) 01 जून 2011

हवलदार (ड्राइवर एमटी) पूरन सिंह (सं. 6924851एम अब  
जेसी-729399एक्स) 01 जून 2011

हवलदार (एसएचटी) एम के खान (सं. 6923705ए अब  
जेसी-729400एफ) 16 मई 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार (एसएच जीडी) आर बी सिंह चौहान (सं. 6924997ए अब  
जेसी-729401के) 01 जून 2011

हवलदार (एसएच जीडी) बी पुल्लय्या (सं. 6925012एफ अब  
जेसी-729402एम) 01 जून 2011

हवलदार (एसएच जीडी) बी दास (सं. 6925066एच अब  
जेसी-729403पी) 01 जून 2011

हवलदार (एसएच जीडी) मौजी राम (सं. 6925149एन अब  
जेसी-729404एक्स) 01 जून 2011

थल सेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

अवधेश दूबे (जेसी-759623एन) 01 जनवरी 2011

सूबेदार टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

रोशन लाल (जेसी-763879एन) 01 दिसम्बर 2010

रमेश्वर चौरशिया (जेसी-763900एन) 14 जून 2011/01 जनवरी  
2011\*

सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

रुद्र बसुमतरी (जेसी-762593एम) 07 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011\*

टी एम महिंद्रा सिंघा (जेसी-763451एफ) 01 मई 2011/07 दिसम्बर  
2010\*

सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

शिवजी यादव (जेसी-759648ए) 02 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011\*

सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

अरूण वीथल गोरे (जेसी-759602एक्स) 07 दिसम्बर 2010/01 नवम्बर  
2010\*

सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलेक्ट के रैंक में

नारायण सिंह धाम (जेसी-759970एम) 01 अप्रैल 2011

सूबेदार ऑटो टेक इंजीनियर इक्युपमेंट के रैंक में

श्री राम गुर्जर (जेसी-762824एक्स) 12 फरवरी 2011/07 दिसम्बर  
2010\*

सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में

लाल बहादुर पटेल (जेसी-763178एक्स) 01 जुलाई 2011

सूबेदार वेल्डर के रैंक में

बिरेंद्र सिंह (जेसी-763261पी) 01 जुलाई 2011

धर्मा देव राय (जेसी-763325पी) 01 जुलाई 2011

सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में

बालाजी वी के (जेसी-759968पी) 01 मई 2011

सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

श्याम सिंह (जेसी-758361डब्ल्यू) 14 जून 2011/01 मई 2011\*

अन्ना दुराई एस एस (जेसी-759939ए) 01 जून 2011

हयात सिंह (जेसी-759953एम) 01 जुलाई 2011

नरेंद्र सिंह (जेसी-759947वाई) 29 जून 2011/01 जून 2011\*

रंजन टी सी (जेसी-759955के) 01 जुलाई 2011

शिव दर्शन त्रिपाठी (जेसी-759966ए) 01 जुलाई 2011

एम डी रफिकुल ईसलाम (जेसी-759969एन) 01 जुलाई 2011

जय नारायण मिश्रा (जेसी-759946डब्ल्यू) 01 जून 2011

सूबेदार ऑटो टेक इलेक्ट बी व्हीकल के रैंक में ललन प्रसाद (जेसी-763864एल) 01 जून 2011/01 सितम्बर 2010*	गोर्धन राम डूडी (सं. 14591747एच अब जेसी-765974वाई) 01 जून 2011 हवलदार से नायब सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में
सूबेदार आर्टीजन लुड वर्क्स के रैंक में नमो कुमार चौधरी (जेसी-762808ए) 20 जून 2011/01 जून 2011*	योगेंद्र नाथ (सं. 14589625ए अब जेसी-766203डब्ल्यू) 01 जुलाई 2011
सूबेदार अर्माइन्ट टेक फिटर (एफवी/एडी) के रैंक में नंकु प्रसाद (जेसी-763735एल) 01 जून 2011/01 सितम्बर 2010*	पारस नाथ प्रसाद (सं. 14587772के अब जेसी-766120एल) 17 जून 2011/01 जून 2011*
हवलदार से नायब सूबेदार टेक एसए के रैंक में जोहन मौय्यु (सं. 14604217पी अब जेसी-766102एच) 14 मई 2011/01 अप्रैल 2011*	विनोद कुमार राउत (सं. 14587950एफ अब जेसी-766201एल) 01 जुलाई 2011
राम सखा पटेल (सं. 14604294के अब जेसी-766103एल) 03 जून 2011/01 अप्रैल 2011*	भिखारी महतो (सं. 14587955ए अब जेसी-766200एच) 13 जून 2011/01 जून 2011*
महेश पाल (सं. 14603503के अब जेसी-766097एच) 18 मई 2011/01 अप्रैल 2011*	अनील कुमार केशरी (सं. 14587781एल अब जेसी-766191एच) 11 जून 2011/01 जून 2011*
बूटा सिंह (सं. 14602625एफ अब जेसी-766129ए) 13 मई 2011/01 अप्रैल 2011*	श्री प्रवेश (सं. 14589804ए अब जेसी-766199वाई) 08 जून 2011/01 जून 2011*
हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में प्रताप सिंह (सं. 14596842वाई अब जेसी-766182एल) 01 जून 2011	संग्राम लाल (सं. 14588034एम अब जेसी-766118एन) 01 जून 2011
महेश कुमार गौर (सं. 14596855डब्ल्यू अब जेसी-766183एन) 01 जून 2011	सुरेश चंद्र (सं. 14588625एन अब जेसी-766192पी) 27 जून 2011/01 जून 2011*
अजय कुमार (सं. 14597120वाई अब जेसी-766186एफ) 01 जून 2011	सूबेदार मेजर मास्टर सुपोर्त स्तफक के रैंक में सूबेदार याकुबा अली खान (जेसी-756217एच) 28 जून 2011/ 01 मई 2011*
रंजीत सिंह (सं. 14596907एफ अब जेसी-766185वाई) 01 जून 2011	सूबेदार मेजर आर्टीजन मेटॉलर्जी के रैंक में सूबेदार गोविन्द प्रसाद घोष (जेसी-756952वाई) 07 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011*
योगेंद्र पाल (सं. 14596862एम अब जेसी-766184डब्ल्यू) 01 जून 2011	सूबेदार आर टी पंडित के रैंक में नित्या नंद मिश्रा (जेसी-754517एल) 01 जुलाई 2011 *(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)
हवलदार से नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में दलीप कुमार सिंह (सं. 14614039एल अब जेसी-766124एफ) 08 जून 2011/01 अप्रैल 2011*	एन के कश्मीरा अवर सचिव ----- वायु शाखा
एम वीजयन (सं. 14614213एम अब जेसी-766125के) 01 जून 2011	सं. 434, दिनांक 1 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--
प्रवीर कुमार मंडल (सं. 14613921एम अब जेसी-766126एम) 01 जून 2011	जूवाअ से मूल वाअ सेवा सं., रैंक, नाम, ट्रेड एवं मूल रैंक 613923 वाअ राम कुमार, एसीएच जीडी, 01 मई 2009 614355 वाअ राजेन्द्र प्रसाद सिंह एसीएच जीडी, 15 अगस्त 2009
हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में राम प्रवेश शर्मा (सं. 14591813ए अब जेसी-765976के) 01 जून 2011	

- 614404 वाअ डानियल राजन, एसीएच जीडी, 01 मई 2009
- 614438 वाअ दारोगा साहु, एसीएच जीडी, 31 अगस्त 2009
- 614809 वाअ रमेश प्रसाद, एसीएच जीडी, 15 अगस्त 2009
- 618042 वाअ शंकर चौधरी, एसीएच जीडी, 01 मई 2009
- 619429 वाअ कुमार कपिल देव नारायण सिंह, एसीएच जीडी, 19 अगस्त 2009
- 620496 वाअ नंद किशोर प्रसाद, एसीएच जीडी, 09 दिसम्बर 2007
- 620829 वाअ विजय किशनराव जाधव, एसीएच जीडी, 02 सितम्बर 2009
- 622100 वाअ बाबू वलाईपरमपिल जोसेफ, एसीएच जीडी, 31 अगस्त 2009
- 622933 वाअ पुरुषोत्तम राय, एसीएच जीडी, 21 दिसम्बर 2008
- 627367 वाअ मनोज कुमार श्रीवास्तव, एसीएच जीडी, 23 दिसम्बर 2008
- 628428 वाअ अवदेश कुमार पांडे, एसीएच जीडी, 23 दिसम्बर 2008
- 632791 वाअ बिनोद प्रसाद, एसीएच जीडी, 19 अगस्त 2009
- 642115 वाअ इन्द्र देव प्रसाद यादव, एसीएच जीडी, 21 अगस्त 2009
- 644661 वाअ लक्ष्मण भगत, एसीएच जीडी, 19 अगस्त 2009
- 645077 वाअ सुरेश चंद्र, एसीएच जीडी, 01 मई 2009
- 645241 वाअ भीम सेन सिंह, एसीएच जीडी, 15 अगस्त 2009
- 645325 वाअ शिवे नारायण, एसीएच जीडी, 15 अगस्त 2009
- 645889 वाअ कुंज बिहारी साहु, एसीएच जीडी, 21 दिसम्बर 2008
- 646919 वाअ श्री नारायण सिंह, एसीएच जीडी, 19 अगस्त 2009
- 646947 वाअ राम जन्म सिंह, एसीएच जीडी, 02 सितम्बर 2009
- 646968 वाअ सचिदा नंद सिंह, एसीएच जीडी, 31 अगस्त 2009
- 647596 वाअ अमरेश प्रधान, एसीएच जीडी, 07 दिसम्बर 2007
- 647725 वाअ मृत्युंजय तिवारी, एसीएच जीडी, 07 दिसम्बर 2007
- 647837 वाअ राम शिरोमणी सिंह भदोरिया, एसीएच जीडी, 07 दिसम्बर 2007
- 647841 वाअ महेन्द्र स्वरूप दीक्षित, एसीएच जीडी, 31 अगस्त 2009
- 648722 वाअ प्रदीप कुमार पुरी, एसीएच जीडी, 02 सितम्बर 2009
- 648794 वाअ वेकुले बाबासाहेब विठोबा, एसीएच जीडी, 15 दिसम्बर 2008
- 649268 वाअ पन्ने लाल, एसीएच जीडी, 15 दिसम्बर 2008
- 649367 वाअ एस जी खाजा, एसीएच जीडी, 15 दिसम्बर 2008
- 649531 वाअ सुनील कुमार दत्त, एसीएच जीडी, 15 दिसम्बर 2008
- 649751 वाअ सुरिन्द्र कुमार, एसीएच जीडी, 15 दिसम्बर 2008
- 649754 वाअ विकास चन्द्र त्रिपाठी, एसीएच जीडी, 06 सितम्बर 2009
- 659678 वाअ वी कुट्टन नायर, एसीएच जीडी, 07 दिसम्बर 2007
- 670172 वाअ निर्मल चन्द्र दास, एसीएच जीडी, 15 दिसम्बर 2008
- 670197 वाअ दिबेन्द्र कुमार महाराना, एसीएच जीडी, 06 सितम्बर 2009
- 672110 वाअ माया शंकर सिंह, एसीएच जीडी, 23 दिसम्बर 2008
- 672119 वाअ विनोद कुमार सिंह, एसीएच जीडी, 19 दिसम्बर 2008
- 672274 वाअ नीलमणि पुहान, एसीएच जीडी, 17 दिसम्बर 2008
- 676103 वाअ कंवलजीत सिंह भसीन, एसीएच जीडी, 19 दिसम्बर 2008
- 683206 वाअ बीर सिंह झाजरिया, एसीएच जीडी, 23 दिसम्बर 2008
- 659797 वाअ पबित्र सरकार, एएफ फिटर, 24 जनवरी 2009
- 659855 वाअ विजय कुमार गुप्ता, एएफ फिटर, 22 जनवरी 2009
- 659963 वाअ रतन सिंह, एएफ फिटर, 24 जनवरी 2009
- 659987 वाअ गदाधर प्रधान, एएफ फिटर, 20 जनवरी 2009
- 660722 वाअ श्री निवास, एएफ फिटर, 18 जनवरी 2009
- 661240 वाअ दियो निरंजन, एएफ फिटर, 18 जनवरी 2009
- 661452 वाअ परशुराम प्रसाद यादवा, एएफ फिटर, 07 फरवरी 2009
- 661464 वाअ सुरेश प्रसाद, एएफ फिटर, 07 फरवरी 2009
- 661476 वाअ शिव चन्द्र पीडी सिंह, एएफ फिटर, 07 फरवरी 2009
- 661561 वाअ उदय नारायण तिवारी, एएफ फिटर, 07 फरवरी 2009
- 661708 वाअ रामानंद सैनी, एएफ फिटर, 11 फरवरी 2009
- 662028 वाअ अरविंद कुमार, एएफ फिटर, 16 जनवरी 2009
- 662115 वाअ अरूण कुमार मुखोपध्याय, एएफ फिटर, 09 फरवरी 2009
- 665107 वाअ शिवजे गुप्ता, एएफ फिटर, 11 फरवरी 2009
- 665221 वाअ प्रताप सिंह, एएफ फिटर, 03 फरवरी 2009
- 666174 वाअ बाबू लाल सूडान, एएफ फिटर, 03 फरवरी 2009
- 666662 वाअ मोहर सिंह करवासरा, एएफ फिटर, 24 जनवरी 2009

- 666706 वाअ ध्रुव कुमार सिंह, एएफ फिटर, 02 नवम्बर 2006
- 667010 वाअ सिंह हिम्मत, एएफ फिटर, 02 नवम्बर 2006
- 667424 वाअ अशोक कुमार शर्मा, एएफ फिटर, 02 नवम्बर 2006
- 667427 वाअ कल्लू राम वर्मा, एएफ फिटर, 02 नवम्बर 2006
- 667473 वाअ मनमोहन माहन्ता, एएफ फिटर, 02 दिसम्बर 2006
- 668022 वाअ पृथ्वी पाल सिंह सभरवाल, एएफ फिटर, 05 फरवरी 2009
- 668024 वाअ नरेन्द्र कुमार गोस्वामी एएफ फिटर, 02 दिसम्बर 2006
- 668311 वाअ अजय कुमार, एएफ फिटर, 02 दिसम्बर 2006
- 668725 वाअ संजय कुमार सिंह, एएफ फिटर, 02 दिसम्बर 2006
- 668955 वाअ सुरेश कुमार, एएफ फिटर, 26 जनवरी 2009
- 668969 वाअ राजेन्द्रा सिंह मलिक, एएफ फिटर, 02 दिसम्बर 2006
- 668988 वाअ अतुल कुमार एएफ फिटर, 02 दिसम्बर 2006
- 669208 वाअ राज पाल सिंह, एएफ फिटर, 22 सितम्बर 2007
- 669257 वाअ भोसले सुरेश विनायकराव, एएफ फिटर, 02 जनवरी 2007
- 669269 वाअ मुल्ला सिकंदर बाबालाल, एएफ फिटर, 02 जनवरी 2007
- 669387 वाअ राजीव कुमार सक्सेना, एएफ फिटर, 22 सितम्बर 2007
- 669686 वाअ बैज नाथ शर्मा, एएफ फिटर, 26 जनवरी 2009
- 675214 वाअ चौधरी रामा कांत, एएफ फिटर, 28 जनवरी 2009
- 676243 वाअ गणेश छेत्री, एएफ फिटर, 22 सितम्बर 2007
- 676500 वाअ मान सिंह, एएफ फिटर, 14 जनवरी 2009
- 676819 वाअ अशोक कुमार सिंह, एएफ फिटर, 30 जनवरी 2009
- 676985 वाअ नरेश कुमार एएफ फिटर, 22 सितम्बर 2007
- 677265 वाअ नीर सिंह अहरोदिया, एएफ फिटर, 24 सितम्बर 2007
- 677293 वाअ ब्रिजेश विक्रम सिंह, एएफ फिटर, 14 जनवरी 2009
- 677420 वाअ उदय नारायण शर्मा, एएफ फिटर, 14 जनवरी 2009
- 677544 वाअ अशोक कुमार, एएफ फिटर, 30 जनवरी 2009
- 677623 वाअ अनिल कुमार शर्मा, एएफ फिटर, 05 फरवरी 2009
- 678168 वाअ मोहिन्द्र सिंह, एएफ फिटर, 01 फरवरी 2009
- 621208 वाअ अमरजीत सिंह घोतरा, एएफएसओ, 03 अगस्त 2008
- 621590 वाअ रघुपतरूपी रामा राव, एएफएसओ, 07 मार्च 2009
- 633540 वाअ सुरेश प्रसाद, एएफएसओ, 01 अगस्त 2009
- 633660 वाअ लाल सिंह पनवर, एएफएसओ, 01 नवम्बर 2007
- 633694 वाअ राम प्रवेश त्रिवेदी, एएफएसओ, 01 नवम्बर 2007
- 633802 वाअ करम जीत कुमार, एएफएसओ, 01 अगस्त 2009
- 633823 वाअ नित्या नंद पांडे, एएफएसओ, 03 मई 2007
- 633832 वाअ शरणजीत सिंह, एएफएसओ, 03 मई 2007
- 633979 वाअ श्री कांत शाह, एएफएसओ, 01 अगस्त 2008
- 633980 वाअ प्रह्लाद पांडे, एएफएसओ, 01 अगस्त 2008
- 634152 वाअ प्रभात कुमार शर्मा, एएफएसओ, 05 मई 2007
- 634375 वाअ दीपक पॉल, एएफएसओ, 01 अगस्त 2009
- 634421 वाअ विद्या शंकर तिवारी, एएफएसओ, 01 अगस्त 2009
- 634676 वाअ राम जन्म सिंह, एएफएसओ, 01 फरवरी 2009
- 634785 वाअ कामता प्रसाद, एएफएसओ, 01 अगस्त 2009
- 635442 वाअ प्रवीन कुमार सेकिया, एएफएसओ, 05 मार्च 2009
- 635506 वाअ रविन्द्रा सिंह, एएफएसओ, 01 मार्च 2009
- 635591 वाअ कृष्ण चंद सेनापति, एएफएसओ, 03 मार्च 2009
- 636371 वाअ जितेन्द्र सिंह, एएफएसओ, 01 अगस्त 2009
- 636662 वाअ चंद्र शेखर दुबे, एएफएसओ, 01 नवम्बर 2009
- 637295 वाअ अरूण दास, एएफएसओ, 03 नवम्बर 2007
- 637935 वाअ सुरेन्द्र सिंह, एएफएसओ, 01 नवम्बर 2009
- 667112 वाअ शंकर शरण, एएफएसओ, 05 नवम्बर 2007
- 667910 वाअ सज्जन सिंह यादव, एएफएसओ, 01 जून 2008
- 668967 वाअ कृष्ण चंद राणा, एएफएसओ, 01 जनवरी 2010
- 669480 वाअ श्रीनिवास दास, एएफएसओ, 01 फरवरी 2009
- 669997 वाअ ओंकार सिंह, एएफएसओ, 05 मार्च 2009
- 675004 वाअ सुरिन्द्र मोहन मेहता, एएफएसओ, 01 जनवरी 2010
- 614328 वाअ सुदीप रंजन देबराय, कैट असिस्टेंट, 14 अक्टूबर 2007
- 614598 वाअ मौ कमालुद्दीन खान, कैट असिस्टेंट, 16 अक्टूबर 2007
- 623715 वाअ पंकी पिल्लै सुकुमारन, कैट असिस्टेंट, 08 अक्टूबर 2007
- 634024 वाअ अजयपाल सिंह, कैट असिस्टेंट, 01 नवम्बर 2008
- 645718 वाअ वीणूगोपालन मूनू स्वामी, कैट असिस्टेंट, 10 अक्टूबर 2007
- 646546 वाअ गणेश बिश्वास, कैट असिस्टेंट, 01 नवम्बर 2008



- 647089 वाअ राम अशीरे, कैट असिस्टेंट, 01 नवम्बर 2008
- 647216 वाअ मोहन लाल रनवान, कैट असिस्टेंट, 12 अक्टूबर 2007
- 647546 वाअ कुमेर धन चरण, कैट असिस्टेंट, 01 नवम्बर 2008
- 647839 वाअ धूरा चौहान, कैट असिस्टेंट, 03 जून 2007
- 648359 वाअ सत्यबीर सिंह यादव, कैट असिस्टेंट, 02 दिसम्बर 2008
- 670210 वाअ कपिल देव प्रसाद, कैट असिस्टेंट, 13 अक्टूबर 2009
- 670786 वाअ श्रीमान नारायण राय, कैट असिस्टेंट, 13 अक्टूबर 2009
- 671792 वाअ शिवशंकर प्रसाद सुधांशु, कैट असिस्टेंट, 13 अक्टूबर 2009
- 612841 वाअ तैली राम, एकाउंट क्लर्क, 12 जून 2009
- 614645 वाअ सुरेन्द्र कुमार एकाउंट क्लर्क, 12 जून 2009
- 614937 वाअ भारत सिंह यादव, एकाउंट क्लर्क, 12 जून 2009
- 645761 वाअ सी के केशवा दास, एकाउंट क्लर्क, 12 जून 2009
- 645769 वाअ राम प्रकाश, एकाउंट क्लर्क, 12 जून 2009
- 646235 वाअ रुशी केश बेहेरा, एकाउंट क्लर्क, 12 जून 2009
- 646922 वाअ हृदय राम यादव, एकाउंट क्लर्क, 12 जून 2009
- 647565 वाअ व्यास मिश्रा, एकाउंट क्लर्क, 14 जून 2009
- 647792 वाअ उमाकांत पाती, एकाउंट क्लर्क, 14 जून 2009
- 648089 वाअ अन्जनी कुमार सिंह, एकाउंट क्लर्क, 14 जून 2009
- 648491 वाअ गोविन्द राम चौधरी, एकाउंट क्लर्क, 14 जून 2009
- 648647 वाअ बरूण बिकास धर, एकाउंट क्लर्क, 16 जून 2009
- 648747 वाअ कंवर सिंह, एकाउंट क्लर्क, 16 जून 2009
- 648991 वाअ दिनेश कुमार एकाउंट क्लर्क, 16 जून 2009
- 649017 वाअ मांगे राम वर्मा, एकाउंट क्लर्क, 16 जून 2009
- 672001 वाअ अनिल कुमार शर्मा, एकाउंट क्लर्क, 16 जून 2009
- 672149 वाअ पाटिल सुरेश मंशाराम, एकाउंट क्लर्क, 16 जून 2009
- 672331 वाअ अशोक नाथ झा, एकाउंट क्लर्क, 01 जुलाई 2009
- 672520 वाअ राम प्रसाद मौर्या, एकाउंट क्लर्क, 01 जुलाई 2009
- 672815 वाअ सुरेश पाल, एकाउंट क्लर्क, 01 अक्टूबर 2009
- 672938 वाअ चन्द्र शेखर लोहानी, एकाउंट क्लर्क, 01 अक्टूबर 2009
- 673934 वाअ हरीश चन्द्र रिखारी, एकाउंट क्लर्क, 01 अक्टूबर 2009
- 674378 वाअ जगत नारायण, एकाउंट क्लर्क, 01 अक्टूबर 2009
- 674510 वाअ विशम्बर दास, एकाउंट क्लर्क, 01 अक्टूबर 2009
- 612428 वाअ सतपाल सिंह शरावत, क्लर्क जीडी, 01 जनवरी 2009
- 612933 वाअ सरदार माल, क्लर्क जीडी, 05 मई 2009
- 613941 वाअ प्रकाश चन्द्र, क्लर्क जीडी, 13 अप्रैल 2009
- 613947 वाअ जय नारायण सिंह भदूरिया, क्लर्क जीडी, 13 अप्रैल 2009
- 614186 वाअ जय सिंह, क्लर्क जीडी, 13 अप्रैल 2009
- 614326 वाअ प्रफुल दास, क्लर्क जीडी, 13 अप्रैल 2009
- 614511 वाअ रमेश चन्द्र मिश्रा, क्लर्क जीडी, 01 जनवरी 2009
- 614710 वाअ कृष्णाप्रभा पदमनभान, क्लर्क जीडी, 13 अप्रैल 2009
- 628443 वाअ मरकंडे सिंह, क्लर्क जीडी, 01 दिसम्बर 2008
- 642767 वाअ श्री राम सिंह, क्लर्क जीडी, 13 अप्रैल 2009
- 645216 वाअ सिया राम शर्मा, क्लर्क जीडी, 13 अप्रैल 2009
- 645488 वाअ पोटशेंग बाम बिनोद सिंह, क्लर्क जीडी, 01 जनवरी 2009
- 645711 वाअ भीरथ मल, क्लर्क जीडी, 13 अप्रैल 2009
- 646363 वाअ दिनेश कुमार दीक्षित, क्लर्क जीडी, 13 अप्रैल 2009
- 646418 वाअ सोहनाराम, क्लर्क जीडी, 13 अप्रैल 2009
- 646525 वाअ शिओ शरण प्रसाद, क्लर्क जीडी, 13 अप्रैल 2009
- 646963 वाअ अचूटा नंद मालाकार, क्लर्क जीडी, 29 अप्रैल 2009
- 647281 वाअ मो अलाउद्दीन अंसारी, क्लर्क जीडी, 01 जनवरी 2009
- 647467 वाअ अवदेश प्रसाद, क्लर्क जीडी, 29 अप्रैल 2009
- 647470 वाअ रामा कांत सिंह, क्लर्क जीडी, 29 अप्रैल 2009
- 647945 वाअ देबेन देका, क्लर्क जीडी, 29 अप्रैल 2009
- 648093 वाअ तारकेश्वर प्रसाद सिंह क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 648098 वाअ रामा शंकर मिश्रा, क्लर्क जीडी, 03 मई 2009
- 648127 वाअ अंगद तिवारी, क्लर्क जीडी, 29 अप्रैल 2009
- 648216 वाअ राकेश बाबू चतुर्वेदी क्लर्क जीडी, 03 मई 2009
- 648223 वाअ जय नेन्द्रा कुमार वर्मा, क्लर्क जीडी, 29 अप्रैल 2009
- 648252 वाअ संतोष कुमार शर्मा, क्लर्क जीडी, 29 अप्रैल 2009
- 648278 वाअ नंदन चक्रबोर्ती, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 648315 वाअ महेन्द्र प्रसाद, क्लर्क जीडी, 29 अप्रैल 2009
- 648317 वाअ अजय कुमार क्लर्क जीडी, 29 अप्रैल 2009
- 648355 वाअ राकेश बाबू पांडे, क्लर्क जीडी, 29 अप्रैल 2009
- 648375 वाअ पोटनूरू अन्नाजी राव, क्लर्क जीडी, 29 अप्रैल 2009

- 648428 वाअ इन्नामूल हक, क्लर्क जीडी, 03 मई 2009
- 648495 वाअ चंद्र शेखर द्विवेदी मुन्ना, क्लर्क जीडी, 03 मई 2009
- 648526 वाअ बलदेव राज शर्मा, क्लर्क जीडी, 01 मार्च 2009
- 648527 वाअ जयप्रकाश कटीरा, क्लर्क जीडी, 05 मई 2009
- 648607 वाअ बिश्वजीत सिंह, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 648612 वाअ प्रणय कुमार दास, क्लर्क जीडी, 11 मई 2009
- 648613 वाअ शंभु भूषण उपाध्याय, क्लर्क जीडी, 05 मई 2009
- 648765 वाअ सुभाष चक्रबोर्ती, क्लर्क जीडी, 11 मई 2009
- 648771 वाअ उत्तम कुमार गुप्ता, क्लर्क जीडी, 11 मई 2009
- 648779 वाअ पुराणिक शशिकांत सदाशिव, क्लर्क जीडी, 11 मई 2009
- 648842 वाअ अरूण कुमार, क्लर्क जीडी, 11 मई 2009
- 649015 वाअ अरविंद कुमार प्रसाद, क्लर्क जीडी, 11 मई 2009
- 649100 वाअ राज किशोर ठाकुर, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 649349 वाअ शुदांशु रूद्र पाल, क्लर्क जीडी, 13 मई 2009
- 649366 वाअ एन एच चंद्रन, क्लर्क जीडी, 13 मई 2009
- 649555 वाअ कमलेश कुमार राय, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 649722 वाअ सुर्या नारायण पांडे, क्लर्क जीडी, 13 मई 2009
- 649753 वाअ शिव शंकर वर्मा, क्लर्क जीडी, 13 मई 2009
- 649924 वाअ मोहर सिंह, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 649935 वाअ सुदीप्ता सेनगुप्ता, क्लर्क जीडी, 13 मई 2009
- 670035 वाअ राजेन्द्रा प्रसाद तिवारी, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 670372 वाअ मुरलीधर सुथार, क्लर्क जीडी, 13 मई 2009
- 670451 वाअ थिंगोम नाबाकुमार सिंह, क्लर्क जीडी, 13 मई 2009
- 670453 वाअ तार्इबुद्दीन अहमद, क्लर्क जीडी, 13 मई 2009
- 670462 वाअ पुरन सिंह रावत, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 670472 वाअ राम मूर्ति प्रसाद, क्लर्क जीडी, 15 मई 2009
- 670547 वाअ जोशी महेश पुरुषोत्तम, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 670567 वाअ सतेन्द्र नारायण त्रिपाठी, क्लर्क जीडी, 15 मई 2009
- 670665 वाअ हरबंश सिंह चौहान, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 670680 वाअ तारानिसेन साहु, क्लर्क जीडी, 15 मई 2009
- 670893 वाअ हंस राज, क्लर्क जीडी, 15 मई 2009
- 670907 वाअ राज कुमार, क्लर्क जीडी, 15 मई 2009
- 670945 वाअ बिरेन्द्र पांडे, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 671148 वाअ राम नारायण सिंह, क्लर्क जीडी, 01 जून 2009
- 671269 वाअ हीरालाल क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2009
- 671270 वाअ रघु राज सिंह यादव, क्लर्क जीडी, 01 जून 2008
- 671299 वाअ रामबीर सिंह, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2009
- 671406 वाअ लम्बोदर मेघि, क्लर्क जीडी, 01 जून 2008
- 671407 वाअ निरंजन अधिकारी, क्लर्क जीडी, 01 जून 2009
- 671464 वाअ जगदीश सिंह राणा, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2009
- 671773 वाअ बृज लाल, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 671892 वाअ अरविंद कुमार मिश्रा, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 671895 वाअ अशोक कुमार श्रीवास्तव क्लर्क जीडी, 01 जून 2009
- 671897 वाअ राम स्वरूप, क्लर्क जीडी, 04 अप्रैल 2008
- 671949 वाअ राम कृष्ण शर्मा, क्लर्क जीडी, 01 जून 2009
- 671957 वाअ केदार नाथ, क्लर्क जीडी, 01 जून 2009
- 671967 वाअ अशोक कुमार, क्लर्क जीडी, 06 अप्रैल 2008
- 671977 वाअ बालकृष्ण, क्लर्क जीडी, 06 अप्रैल 2008
- 672028 वाअ उधो नारायण शुक्ला, क्लर्क जीडी, 06 अप्रैल 2008
- 672047 वाअ चंद्र प्रकाश शर्मा, क्लर्क जीडी, 06 अप्रैल 2008
- 672187 वाअ ब्रजेश कुमार, क्लर्क जीडी, 01 दिसम्बर 2008
- 672188 वाअ विश्राम बाली, क्लर्क जीडी, 06 अप्रैल 2008
- 672189 वाअ अशोक कुमार सिंह, क्लर्क जीडी, 06 अप्रैल 2008
- 672212 वाअ विश्वकुमारन के वी, क्लर्क जीडी, 06 अप्रैल 2008
- 672693 वाअ चंद्र शेखर, क्लर्क जीडी, 01 दिसम्बर 2008
- 672694 वाअ सुजेन्द्र सिंह हुडा, क्लर्क जीडी, 01 दिसम्बर 2008
- 672704 वाअ हमेन्द्र कुमार गुप्ता, क्लर्क जीडी, 01 दिसम्बर 2008
- 672759 वाअ अनिरुद्धन एस एम, क्लर्क जीडी, 01 दिसम्बर 2008
- 676195 वाअ वेंकट शुब्बा राव चिरकाला, क्लर्क जीडी, 01 दिसम्बर 2008
- 639803 वाअ यश पॉल, क्रिप्टे, 01 जून 2009
- 639804 वाअ सुखविंद सिंह, क्रिप्टे, 01 जून 2009
- 639807 वाअ श्याम प्रसन्ना मिश्रा, क्रिप्टे, 01 जून 2009
- 639829 वाअ जोगिन्द्र सिंह दहिया, क्रिप्टे, 01 जून 2009
- 639848 वाअ सिंह श्रवण, क्रिप्टे, 01 जून 2009
- 674678 वाअ बीर सिंह, क्रिप्टे, 03 सितम्बर 2008
- 675972 वाअ दिलीप कुमार ठाकुर, क्रिप्टे 01 जून 2009

- 737993 वाअ वीरेन्द्र भूसाल, एजूकेशन इंस्ट्रक्टर, 04 जुलाई 2009
- 770141 वाअ जॉन्सन कुञ्जिकान्दाथिल जॉसेफ, एजूकेशन इंस्ट्रक्टर, 04 जुलाई 2009
- 771084 वाअ बीरेश चौबे, एजूकेशन इंस्ट्रक्टर, 04 जुलाई 2009
- 771091 वाअ वाथ किशोर बाजीराव, एजूकेशन इंस्ट्रक्टर, 04 जुलाई 2009
- 772319 वाअ मुक्ति कांता दास, एजूकेशन इंस्ट्रक्टर, 04 जुलाई 2009
- 772326 वाअ मनोज कुमार बारिक, एजूकेशन इंस्ट्रक्टर, 04 जुलाई 2009
- 773607 वाअ यागीयादीप शर्मा, एजूकेशन इंस्ट्रक्टर, 04 जुलाई 2009
- 774884 वाअ आर प्रसान्त, एजूकेशन इंस्ट्रक्टर, 04 जुलाई 2009
- 796424 वाअ चिंतामणी पलाई, एजूकेशन इंस्ट्रक्टर, 04 जुलाई 2009
- 796902 वाअ अश्वनी कुमार सिंह राजपूत, एजूकेशन इंस्ट्रक्टर, 04 जुलाई 2009
- 797409 वाअ श्री कृष्ण बिरहमन, एजूकेशन इंस्ट्रक्टर, 04 जुलाई 2009
- 680336 वाअ ज्ञान सिंह यादव, इलैक्ट फिटर, 01 अक्टूबर 2008
- 680452 वाअ कर्दम जसवंत सिंह, इलैक्ट फिटर, 02 सितम्बर 2007
- 681797 वाअ प्रसिद्धा नारायण राय, इलैक्ट फिटर, 24 दिसम्बर 2008
- 682595 वाअ जीवन चन्द्र सरकार, इलैक्ट फिटर, 26 दिसम्बर 2008
- 682775 वाअ कमल लोचन नायक, इलैक्ट फिटर, 26 दिसम्बर 2008
- 682833 वाअ शुभरेन्दू शेखर दास, इलैक्ट फिटर, 26 दिसम्बर 2008
- 660002 वाअ नंद किशोर चतुर्वेदी, इंजन फिटर, 02 जुलाई 2007
- 660020 वाअ रविंद्र कुमार शर्मा, इंजन फिटर, 02 जुलाई 2007
- 660191 वाअ ओम प्रकाश प्रसाद, इंजन फिटर, 02 जुलाई 2007
- 660338 वाअ पारस नाथ पांडे, इंजन फिटर, 02 जुलाई 2007
- 660384 वाअ कृष्ण चंद्र, इंजन फिटर, 02 अगस्त 2007
- 660536 वाअ रविंद्र प्रताप सिंह, इंजन फिटर, 02 अगस्त 2007
- 661820 वाअ राजबीर सिंह बंसल, इंजन फिटर, 02 जून 2007
- 662711 वाअ लाल चंद्र, इंजन फिटर, 02 जून 2007
- 665163 वाअ राजेश पाल, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2007
- 667922 वाअ रवि कांत गुप्ता, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2007
- 668534 वाअ विधु दत्ता मिश्रा, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2007
- 668770 वाअ एम रहीम, इंजन फिटर, 02 फरवरी 2007
- 668886 वाअ मनमोहन चौधरी, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2007
- 669098 वाअ उपेन्द्र नारायण सिंह, इंजन फिटर, 02 अप्रैल 2007
- 669108 वाअ अशोक कुमार बेहरा, इंजन फिटर, 02 फरवरी 2007
- 669372 वाअ कमल किशोर अग्निहोत्री, इंजन फिटर, 02 जून 2007
- 676355 वाअ बाबू सी पी एन, इंजन फिटर, 02 मई 2007
- 676723 वाअ नटराजन आर, इंजन फिटर, 02 जून 2007
- 677657 वाअ हरे किशन, इंजन फिटर, 02 मई 2007
- 611359 वाअ बादर सिंह मल्लिक, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 19 सितम्बर 2005
- 612474 वाअ रंजन लाल चाकी, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 25 जून 2008
- 613115 वाअ सुदामा प्रसाद, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 25 जून 2008
- 613614 वाअ कृपाल सिंह रैपियाल, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 05 जुलाई 2008
- 613835 वाअ गणपत सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 25 जून 2008
- 613879 वाअ जुगराज सिंह सिंधु, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 01 जुलाई 2008
- 613964 वाअ इशितयाक रसूल, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 25 जून 2008
- 614138 वाअ प्रकाश सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 05 जुलाई 2008
- 614356 वाअ संजया कुमार रे, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 25 जून 2008
- 614381 वाअ गंगा राम शर्मा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 25 जून 2008
- 614526 वाअ प्रतोष भट्टाचार्जी, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 27 जून 2008
- 614576 वाअ बिजयकुमार समन्ते, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 25 जून 2008
- 614796 वाअ सुरेश चन्द्र श्रीचना, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 25 जून 2008
- 636372 वाअ राम नारायण प्रसाद, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 11 जुलाई 2008
- 644938 वाअ जितेन्द्र कुमार शर्मा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 05 जुलाई 2008
- 645276 वाअ कुंवर पाल, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 25 जून 2008
- 645907 वाअ इकबाल सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 01 जुलाई 2008
- 645951 वाअ रबिन्द्रनाथ मल्लिक, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 01 जुलाई 2008
- 645976 वाअ ओम प्रकाश वर्मा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 01 जुलाई 2008

- 646284 वाअ दशरथ प्रसाद सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 01 जुलाई 2008
- 646376 वाअ रामप्रकाश त्रिपाठी, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 01 जुलाई 2008
- 646456 वाअ सुरेश चन्द्र अत्रि, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 01 जुलाई 2008
- 646885 वाअ तुंग नाथ तिवारी, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 01 जुलाई 2008
- 646936 वाअ ललिता प्रसाद यादव, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 01 जुलाई 2008
- 646972 वाअ भोला सिंह प्रियादर्शी, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 03 जुलाई 2008
- 647024 वाअ चंद्र कांत पांडे, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 03 जुलाई 2008
- 647173 वाअ रामफल सरोहा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 03 जुलाई 2008
- 647341 वाअ राज मोहन, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 03 जुलाई 2008
- 647480 वाअ विद्या नंद सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 03 जुलाई 2008
- 647507 वाअ के कालीमूठू, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 23 जून 2008
- 647543 वाअ हेमा राम चौधरी, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 03 जुलाई 2008
- 647701 वाअ मन्ना विजय सारथी, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 09 जुलाई 2008
- 647742 वाअ अम्बिका प्रसाद, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 03 जुलाई 2008
- 647826 वाअ प्रभाष नारायण उपाध्याय, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 05 जुलाई 2008
- 647827 वाअ गंगा राम, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 05 जुलाई 2008
- 648108 वाअ बिशेश्वर प्रसाद सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 648139 वाअ रमेश चंद शर्मा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 05 जुलाई 2008
- 648221 वाअ ललित कुमार कुलवे, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 09 जुलाई 2008
- 648240 वाअ गुरचरन सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 09 जुलाई 2008
- 648256 वाअ स्वपन कुमार चक्रबेर्ती, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 05 जुलाई 2008
- 648325 वाअ शशी भूषण, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 05 जुलाई 2008
- 648326 वाअ मुखदेव सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 648327 वाअ शंभु नाथ दुबे, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 648368 वाअ गोपी कृष्ण, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 05 जुलाई 2008
- 648382 वाअ संतोष कुमार साहू, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 648405 वाअ विपिन कुमार भनोट, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 07 जुलाई 2008
- 648408 वाअ हरी केश, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 05 जुलाई 2008
- 648503 वाअ बिजोय कुमार दलाई, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 05 जुलाई 2008
- 648614 वाअ राम कुमार यादव, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 648910 वाअ मंदेर सिंह सिंधू, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 07 जुलाई 2008
- 648911 वाअ बलविंदर सिंह बगेल, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 07 जुलाई 2008
- 648916 वाअ जसविंदर सिंह चलोत्रा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जून 2008
- 648985 वाअ बिनोद कुमार, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 07 जुलाई 2008
- 649033 वाअ रूपा राम चौधरी, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 09 जुलाई 2008
- 649046 वाअ अनदी चरण साहू, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 09 जुलाई 2008
- 649302 वाअ सियाराम शुक्ला, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 09 जुलाई 2008
- 649303 वाअ संजीत दुबे, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 649307 वाअ लाल जी यादव, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 09 जुलाई 2008
- 649368 वाअ राम प्रसाद, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 09 जुलाई 2008
- 649369 वाअ चंद्र पाल सबिता, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 09 जुलाई 2008
- 649371 वाअ महेश कुमार गुप्ता, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 09 जुलाई 2008
- 649402 वाअ रविन्द्र कुमार तिओतिया, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 11 जुलाई 2008
- 649575 वाअ सुकेंसा बारिक, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 649580 वाअ संतोष कुमार मिश्रा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 11 जुलाई 2008
- 649585 वाअ गोपाल कृष्ण जयसवाल, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 649740 वाअ शक्ति पादा कर्माकर, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 13 जुलाई 2008

- 649774 वाअ शर्मा वेद प्रकाश, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 23 जून 2008
- 649789 वाअ सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 11 जुलाई 2008
- 649865 वाअ बाल बच्चन प्रसाद, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 649867 वाअ नागेन्द्र पांडे, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 649916 वाअ मूल सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 11 जुलाई 2008
- 660892 वाअ उमेश चंद्र साहू, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 07 जुलाई 2008
- 670050 वाअ कपिल देव शुक्ला, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 11 जुलाई 2008
- 670057 वाअ पृथ्वी राज, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 11 जुलाई 2008
- 670111 वाअ बीरेन्द्र नाथ पाठक, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 670131 वाअ योगेन्द्र नाथ मिश्रा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 11 जुलाई 2008
- 670135 वाअ शिओनाथ सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 18 अप्रैल 2007
- 670141 वाअ राज नाथ मिश्रा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 16 अप्रैल 2007
- 670302 वाअ शेख इस्माइल, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 13 जुलाई 2008
- 670353 वाअ राम किशन, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जून 2008
- 670360 वाअ लोकेश चन्द गोयल, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 18 अप्रैल 2007
- 670440 वाअ प्रेम सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 18 अप्रैल 2007
- 670493 वाअ अरविंद कुमार सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जून 2008
- 670832 वाअ स्मरुति रंजन उपाध्याय, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 13 जुलाई 2008
- 670948 वाअ चितरंजन कुमार, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 18 अप्रैल 2007
- 670981 वाअ राम नारायण, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 13 जुलाई 2008
- 670982 वाअ विश्वनाथ, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 13 जुलाई 2008
- 670987 वाअ ब्रिज भूषण सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 13 जुलाई 2008
- 671014 वाअ विलास राव साहेब जगडेल, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 13 जुलाई 2008
- 671069 वाअ फूल सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जुलाई 2008
- 671368 वाअ चंद्र पाल सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जुलाई 2008
- 671458 वाअ नागर मल कटोत्रा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जुलाई 2008
- 671667 वाअ दुर्योधन दास, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जुलाई 2008
- 671871 वाअ प्रदीप राय, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 23 जून 2008
- 671904 वाअ रमेश चंद्र अरोरा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जून 2008
- 671908 वाअ राजीव लोचन तिवारी, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जुलाई 2008
- 672018 वाअ राजेन्द्र सिंह रावत, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जुलाई 2008
- 672019 वाअ रविन्द्र सिंह यादव, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जून 2008
- 672296 वाअ अजय कुमार प्रसाद, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 23 जून 2008
- 672318 वाअ शिव प्रसाद, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जून 2008
- 672327 वाअ चरण जीत लाल, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जून 2008
- 672500 वाअ राकेश कुमार द्विवेदी, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जुलाई 2008
- 672659 वाअ कमलेश कुमार जगीरा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 15 जून 2008
- 676727 वाअ कपिल देव सिंह, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 23 जून 2008
- 692425 वाअ सिबी जॉसेफ अनपाथिनचिरा, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 31 अक्टूबर 2008
- 692609 वाअ सुशील कुमार शुक्ला, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 31 अक्टूबर 2008
- 692616 वाअ जिया उद्दीन, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 31 अक्टूबर 2008
- 692760 वाअ सुरेश चंद्र, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 31 अक्टूबर 2008
- 693053 वाअ रबीन्द्र कुमार मोहन्ती, इक्विपमेंट असिस्टेंट, 31 अक्टूबर 2008
- 676937 वाअ मनोज कुमार सिन्हा, फ्लाइंट इंजीनियर, 14 सितम्बर 2008
- 677442 वाअ उतला पदमानाभा राव, फ्लाइंट इंजीनियर, 14 सितम्बर 2008
- 677564 वाअ माधो सिंह रावत, फ्लाइंट इंजीनियर, 14 सितम्बर 2008
- 677841 वाअ गोपाल सिंह रावत, फ्लाइंट इंजीनियर, 14 सितम्बर 2008
- 678241 वाअ राजन चिन्तामन पोतवार, फ्लाइंट इंजीनियर, 14 सितम्बर 2008
- 678616 वाअ अमित सिंह यादव, फ्लाइंट इंजीनियर, 14 सितम्बर 2008
- 696834 वाअ अखिलेश कुमार झा, फ्लाइंट इंजीनियर, 14 सितम्बर 2008

- 696891 वाअ चोनाटे हाउस ससीकुमार, फ्लाइंट इंजीनियर, 14 सितम्बर 2008
- 696905 वाअ देविश मैथ्यू टी, फ्लाइंट इंजीनियर, 14 सितम्बर 2008
- 697479 वाअ उत्तम कुमार मोन्डल, फ्लाइंट इंजीनियर, 14 सितम्बर 2008
- 698500 वाअ मदन कुमार पांडे, फ्लाइंट इंजीनियर, 16 सितम्बर 2008
- 698568 वाअ अनिल कुमार परमपुकाट्टिल, फ्लाइंट इंजीनियर, 14 सितम्बर 2008
- 707356 वाअ पारस कुमार झा, फ्लाइंट सिग्नलर, 02 जुलाई 2008
- 707682 वाअ संजय कुमार गुप्ता, फ्लाइंट सिग्नलर, 02 जुलाई 2008
- 648618 वाअ बिजोय कुमार पांडे, जीटीआई, 25 अगस्त 2009
- 648648 वाअ शुभराज्योति कायल, जीटीआई, 25 अक्टूबर 2009
- 770022 वाअ श्री कुमार श्री कंदन, जीटीआई (एस), 01 अगस्त 2009
- 287955 वाअ कमला शंकर उपाध्याय, आईएएफ (पी), 23 सितम्बर 2008
- 617290 वाअ दिनेश कुमार द्विवेदी, आईएएफ (पी), 25 सितम्बर 2008
- 617292 वाअ छोटे लाल यादव, आईएएफ (पी), 25 सितम्बर 2008
- 618643 वाअ ललित कुमार वर्मा, आईएएफ (पी), 25 सितम्बर 2008
- 618678 वाअ कुंचम वेंकट रामा राव, आईएएफ (पी), 25 सितम्बर 2008
- 618744 वाअ राकेश कुमार गुप्ता, आईएएफ (पी), 25 सितम्बर 2008
- 618943 वाअ उदय कुमार, आईएएफ (पी), 25 सितम्बर 2008
- 619134 वाअ शेख खाजामियान, आईएएफ (पी), 27 सितम्बर 2008
- 620978 वाअ वीरेन्द्र कुमार शर्मा, आईएएफ (पी), 03 नवम्बर 2010
- 621666 वाअ महेन्द्र पाल सिंह, आईएएफ (पी), 27 सितम्बर 2008
- 621717 वाअ संतोष कुमार बाजपई, आईएएफ (पी), 13 सितम्बर 2008
- 621941 वाअ अमर नाथ पांडे, आईएएफ (पी), 03 अक्टूबर 2008
- 621942 वाअ इन्दल सिंह, आईएएफ (पी), 29 सितम्बर 2008
- 622201 वाअ राबीका रण सिंह, आईएएफ (पी), 03 अक्टूबर 2008
- 622306 वाअ अजय वीर सिंह, आईएएफ (पी), 03 नवम्बर 2010
- 622387 वाअ विजय शेखर, आईएएफ (पी), 01 अक्टूबर 2008
- 622479 वाअ मंगल सिंह सैनी, आईएएफ (पी), 01 अक्टूबर 2008
- 622486 वाअ शेखर बैनर्जी, आईएएफ (पी), 19 सितम्बर 2008
- 623336 वाअ भंवर लाल चौधरी, आईएएफ (पी), 13 सितम्बर 2008
- 623711 वाअ दरबारी लाल कुशवाहा, आईएएफ (पी), 13 सितम्बर 2008
- 624343 वाअ जेरोद लोहोरा, आईएएफ (पी), 13 सितम्बर 2008
- 624723 वाअ शाह अलोम सारकर, आईएएफ (पी), 13 सितम्बर 2008
- 624726 वाअ अजय कुमार त्रिपाठी, आईएएफ (पी), 13 सितम्बर 2008
- 624791 वाअ दीबाकारा बेजा, आईएएफ (पी), 03 नवम्बर 2010
- 625140 वाअ अरविंद कुमार मिश्रा, आईएएफ (पी), 15 सितम्बर 2008
- 625311 वाअ राजेश कुमार बाली, आईएएफ (पी), 17 सितम्बर 2008
- 625441 वाअ सतीश चन्द त्यागी, आईएएफ (पी), 03 नवम्बर 2010
- 625684 वाअ अनंत कुमार मुदगल, आईएएफ (पी), 05 नवम्बर 2010
- 625830 वाअ भोसले सुरेश कुबेर, आईएएफ (पी), 13 सितम्बर 2008
- 626797 वाअ जयनारायण, आईएएफ (पी), 19 सितम्बर 2008
- 626906 वाअ ठाकुर तेजसिंह रामदास सिंह, आईएएफ (पी), 05 नवम्बर 2010
- 627169 वाअ सरपन हांडा, आईएएफ (पी), 21 सितम्बर 2008
- 627695 वाअ जगदीश सिंह चौहान, आईएएफ (पी), 21 सितम्बर 2008
- 627869 वाअ अदित्या प्रकाश द्विवेदी, आईएएफ (पी), 21 सितम्बर 2008
- 621954 वाअ राम प्रकाश शर्मा, इंस्ट फिटर, 25 अक्टूबर 2009
- 622297 वाअ भंवर सिंह शेखावत, इंस्ट फिटर, 29 अक्टूबर 2009
- 622559 वाअ राम कमल प्रसाद, इंस्ट फिटर, 29 अक्टूबर 2009
- 623164 वाअ शशी भूषण सिन्हा, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 623928 वाअ लाल मोहर प्रसाद, इंस्ट फिटर, 02 नवम्बर 2009
- 624651 वाअ के संतोष कुमार, इंस्ट फिटर, 04 नवम्बर 2009
- 625248 वाअ उमेश प्रसाद, इंस्ट फिटर, 04 नवम्बर 2009

- 625765 वाअ त्रिवेणी सहाय, इंस्ट फिटर, 01 फरवरी 2010
- 626294 वाअ राजेश्वर प्रसाद द्विवेदी, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 626311 वाअ सच्चिदानंद शर्मा, इंस्ट फिटर, 01 दिसम्बर 2009
- 626479 वाअ ब्रह्म प्रकाश, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 626781 वाअ रामहर, इंस्ट फिटर, 01 दिसम्बर 2009
- 635322 वाअ प्रेम कुमार दहिया, इंस्ट फिटर, 31 अक्टूबर 2009
- 635417 वाअ सुखवंत सिंह रन्धावा, इंस्ट फिटर, 23 अक्टूबर 2009
- 635428 वाअ नित्या रंजन कुमार, इंस्ट फिटर, 29 अक्टूबर 2009
- 635436 वाअ अशोक कुमार सिंह, इंस्ट फिटर, 27 अक्टूबर 2009
- 635482 वाअ सम्पत राज शर्मा, इंस्ट फिटर, 27 अक्टूबर 2009
- 635568 वाअ सतीश चन्द्र, इंस्ट फिटर, 23 अक्टूबर 2009
- 635627 वाअ राम लखन यादव, इंस्ट फिटर, 31 अक्टूबर 2009
- 635678 वाअ हरी दयाल सिंह, इंस्ट फिटर, 27 अक्टूबर 2009
- 635679 वाअ ओम प्रकाश, इंस्ट फिटर, 29 अक्टूबर 2009
- 635686 वाअ जयशंकर प्रसाद सिंह, इंस्ट फिटर, 31 अक्टूबर 2009
- 635842 वाअ भगवान मंडल, इंस्ट फिटर, 29 अक्टूबर 2009
- 635845 वाअ नित्यानंद झा, इंस्ट फिटर, 27 अक्टूबर 2009
- 635928 वाअ तरूण कुमार ककाटी, इंस्ट फिटर, 31 अक्टूबर 2009
- 637064 वाअ सुशील कुमार, इंस्ट फिटर, 31 अक्टूबर 2009
- 638040 वाअ राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 639024 वाअ संतोष कुमार श्रीवास्तव, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 639086 वाअ माने शशीकांत जयसिंहराव, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 639571 वाअ सत्यावान भारद्वाज, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 639588 वाअ ईश्वर सिंह मासन्द, इंस्ट फिटर, 01 दिसम्बर 2009
- 651228 वाअ शनबेगाम मणिकावासगम, इंस्ट फिटर, 23 अक्टूबर 2009
- 651382 वाअ तेजा राम सरन, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 651433 वाअ नणगनुरे आनंद शंकर, इंस्ट फिटर, 31 अक्टूबर 2009
- 651495 वाअ हरी किशोर झा, इंस्ट फिटर, 27 अक्टूबर 2009
- 651595 वाअ सुरेन्द्र कुमार साह, इंस्ट फिटर, 27 अक्टूबर 2009
- 653901 वाअ कृष्ण कुमार सिंह, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 654106 वाअ शिशिर कुमार नायक, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 654132 वाअ एकनाथ भीका भोले, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 680378 वाअ सतवीर सिंह राठौर, इंस्ट फिटर, 01 फरवरी 2010
- 680382 वाअ सोहनबीर सिंह बालयान, इंस्ट फिटर, 01 फरवरी 2010
- 680629 वाअ राजबीर सिंह दलाल, इंस्ट फिटर, 04 नवम्बर 2009
- 681469 वाअ जयदेव भौमिक, इंस्ट फिटर, 01 फरवरी 2010
- 682015 वाअ के एस अय्यापन, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 683351 वाअ हरमीत सिंह, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 683595 वाअ जयपाल सिंह, इंस्ट फिटर, 21 अक्टूबर 2009
- 621240 वाअ वीरेन्द्र सिंह, मेडिकल असिस्टेंट, 15 जुलाई 2010
- 654562 वाअ कुलदीप सिंह तंवर, मेडिकल असिस्टेंट, 02 अप्रैल 2007
- 655294 वाअ जगदीश चंद्र सोनी, मेडिकल असिस्टेंट, 13 जुलाई 2010
- 655486 वाअ हरभजन गुलशन, मेडिकल असिस्टेंट, 15 जुलाई 2010
- 655510 वाअ राम अकबल पांडे, मेडिकल असिस्टेंट, 17 जुलाई 2010
- 655538 वाअ बाबू लाल दर्जी, मेडिकल असिस्टेंट, 17 जुलाई 2010
- 655572 वाअ रानेन्द्र नाथ सेन, मेडिकल असिस्टेंट, 17 जुलाई 2010
- 655575 वाअ प्रभाकरण माधवन, मेडिकल असिस्टेंट, 19 जुलाई 2010
- 655596 वाअ आर रामनाथ अरूनाथायन, मेडिकल असिस्टेंट, 21 जुलाई 2010
- 655598 वाअ सूर्यानारायण महतो, मेडिकल असिस्टेंट, 19 जुलाई 2010
- 655836 वाअ मनोहरन थेरामल रमन, मेडिकल असिस्टेंट, 23 जुलाई 2010
- 656077 वाअ राजकुमार शाह, मेडिकल असिस्टेंट, 07 जुलाई 2010
- 656100 वाअ नागेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मेडिकल असिस्टेंट, 11 जुलाई 2010
- 656144 वाअ जोधा जब्बर सिंह, मेडिकल असिस्टेंट, 23 जुलाई 2010
- 656215 वाअ मोहन मिश्रा, मेडिकल असिस्टेंट, 25 जुलाई 2010
- 656252 वाअ शिम्पी मधुसूदन काशीनाथ, मेडिकल असिस्टेंट, 27 जुलाई 2010
- 656463 वाअ आनन्दकृष्णन मेले चिराविकल, मेडिकल असिस्टेंट, 11 जुलाई 2010
- 656480 वाअ श्याम सुन्दर शर्मा, मेडिकल असिस्टेंट, 11 जुलाई 2010

- 623189 वाअ जयराम, मेट सहायक, 01 जून 2009
- 623191 वाअ अशोक कुमार मिश्रा, मेट सहायक, 01 जून 2009
- 627261 वाअ अशीश कुमार साहा, मेट सहायक, 02 नवम्बर 2008
- 627414 वाअ हरीदास टी के, मेट सहायक, 02 नवम्बर 2008
- 628238 वाअ अजय कुमार वर्मा, मेट सहायक, 04 नवम्बर 2008
- 635412 वाअ ओमपाल सिंह, मेट सहायक, 04 अप्रैल 2008
- 635880 वाअ राजीव कुमार शुक्ला, मेट सहायक, 04 अप्रैल 2008
- 636661 वाअ श्यामल कांति डे, मेट सहायक, 01 दिसम्बर 2008
- 636844 वाअ धरानी धर तालुकदार, मेट सहायक, 01 जून 2009
- 637422 वाअ राजेन्द्र प्रसाद पांडे, मेट सहायक, 02 सितम्बर 2008
- 637423 वाअ मुकट सिंह, मेट सहायक, 02 जून 2008
- 637623 वाअ सुभाष चन्द्र रैना, मेट सहायक, 01 जून 2009
- 666909 वाअ जकाटे चंद अब्दुल, मेट सहायक, 01 जून 2009
- 669078 वाअ अनिल कुमार शर्मा, मेट सहायक, 03 जून 2009
- 669147 वाअ आकाश दीप प्रसाद, मेडिकल असिस्टेंट, 04 सितम्बर 2008
- 705835 वाअ माम राज जांगीड़, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 705885 वाअ सुधाकर राउते, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 705934 वाअ विष्णु दयाल मल, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 705940 वाअ करूणाकरन पिल्लै आनंद कुमार, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 705963 वाअ सोमवीर सिंह, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 705987 वाअ वासु सीवन, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 705989 वाअ रमेश चन्द्र चिमवाल, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 705990 वाअ संजीव कुमार सिंह, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2010
- 705992 वाअ रबीन्द्र नाथ सिंह, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 705993 वाअ बीरेन्द्र कुमार यादव, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 705998 वाअ होशियार सिंह, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 705999 वाअ मो. रफिक, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 706004 वाअ नरेश चंद्रा शक्या, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 706646 वाअ धमेश्वर कालिया, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 706717 वाअ श्रीराम पंडित, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 706737 वाअ जीतेंद्र कुमार, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 706787 वाअ सुरेश कुमार दयाल, एमएस फिटर (एल), 01 दिसम्बर 2009
- 668793 वाअ मोहन बंसीजी रेखाटे, एमटी फिटर, 22 नवम्बर 2009
- 669112 वाअ त्रिनाथ चरण प्रधान, एमटी फिटर, 22 नवम्बर 2009
- 669118 वाअ हेमन्त कुमार पाधी, एमटी फिटर, 22 नवम्बर 2009
- 669329 वाअ गोकुल चंद शर्मा, एमटी फिटर, 22 नवम्बर 2009
- 669357 वाअ रनेन बसक, एमटी फिटर, 22 नवम्बर 2009
- 676309 वाअ यादव मुरारी लाल, एमटी फिटर, 24 नवम्बर 2009
- 676454 वाअ भाबाग्रह सुतार, एमटी फिटर, 24 नवम्बर 2009
- 677583 वाअ धर्मेन्द्र सिंह चौहान, एमटी फिटर, 24 नवम्बर 2009
- 621536 वाअ श्रीकृष्ण मिश्रा, एमटीडी, 12 जून 2010
- 626506 वाअ रवीन्द्र शर्मा, एमटीडी, 10 जून 2010
- 626671 वाअ भोज राम राजपूत, एमटीडी, 12 जून 2010
- 627387 वाअ सीता राम प्रसाद, एमटीडी, 14 जून 2010
- 623710 वाअ राधेश्याम, म्यूजीशियन, 09 अक्टूबर 2009
- 626607 वाअ यादव प्रेम नारायण, म्यूजीशियन, 07 अक्टूबर 2009
- 628948 वाअ दिनेश शर्मा, म्यूजीशियन, 07 मई 2010
- 635014 वाअ कृष्ण कुमार शर्मा, फोटो फिटर, 01 नवम्बर 2008
- 636513 वाअ अख्तर अली, फोटो फिटर, 02 मार्च 2008
- 650470 वाअ मेधावी आर्या, फोटो फिटर, 02 फरवरी 2009
- 650664 वाअ मारूथाथू जोशआ थॉमस कुट्टी, फोटो फिटर, 01 जून 2009
- 650736 वाअ सुरेन्द्र नाथ ठाकुर, फोटो फिटर, 02 फरवरी 2009
- 651384 वाअ रत्ना राम चौधरी, फोटो फिटर, 01 दिसम्बर 2009
- 653271 वाअ कार्तिका चंद्र नायक, फोटो फिटर, 01 मई 2009
- 612734 वाअ भानू प्रताप सिंह, पीजेआई, 03 मार्च 2005
- 673592 वाअ तपन कुमार कर्माकर, रेडार फिटर, 17 दिसम्बर 2010



- 673764 वाअ तेज पाल, रेडार फिटर, 21 दिसम्बर 2010
- 673871 वाअ घनश्याम दास, रेडार फिटर, 25 दिसम्बर 2010
- 673887 वाअ राजपुरोहित मदन सिंह, रेडार फिटर, 17 दिसम्बर 2010
- 673888 वाअ पुण्डीर प्रवीण कुमार, रेडार फिटर, 25 दिसम्बर 2010
- 673895 वाअ चौधरी हेमा राम, रेडार फिटर, 17 दिसम्बर 2010
- 673958 वाअ नरेश कुमार वर्मा, रेडार फिटर, 25 दिसम्बर 2010
- 674067 वाअ हरी सिंह, रेडार फिटर, 19 दिसम्बर 2010
- 674099 वाअ मुरली धर देवनानी, रेडार फिटर, 27 दिसम्बर 2010
- 674208 वाअ ओम प्रकाश श्रीवास्तव, रेडार फिटर, 27 दिसम्बर 2010
- 674218 वाअ चंद्र मोहन यादव, रेडार फिटर, 31 दिसम्बर 2010
- 674222 वाअ धीरेन्द्र शर्मा, रेडार फिटर, 19 दिसम्बर 2010
- 674263 वाअ फागुनी साहनी, रेडार फिटर, 19 दिसम्बर 2010
- 674324 वाअ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, रेडार फिटर, 19 दिसम्बर 2010
- 674339 वाअ विजय कुमार उपाध्याय, रेडार फिटर, 27 दिसम्बर 2010
- 674365 वाअ हेनमन्नापा तालकटनाल, रेडार फिटर, 27 दिसम्बर 2010
- 674472 वाअ गोलक कुमार पांडा, रेडार फिटर, 19 दिसम्बर 2010
- 674582 वाअ संजीव कुमार गुप्ता, रेडार फिटर, 23 दिसम्बर 2010
- 674767 वाअ फूल सिंह, रेडार फिटर, 25 दिसम्बर 2010
- 674896 वाअ अली अकबर हवारी, रेडार फिटर, 25 दिसम्बर 2010
- 674904 वाअ प्रशांत कुमार दत्ता, रेडार फिटर, 25 दिसम्बर 2010
- 674979 वाअ जॉयदेव डे सरकार, रेडार फिटर, 27 दिसम्बर 2010
- 680101 वाअ संजय कुमार जयसवाल, रेडार फिटर, 15 दिसम्बर 2010
- 680142 वाअ प्रेम कुमार सिन्हा, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 680389 वाअ राम कुमार ताहलान, रेडार फिटर, 25 दिसम्बर 2010
- 680601 वाअ टीका राम डागर, रेडार फिटर, 25 दिसम्बर 2010
- 680609 वाअ अनिल कुमार, रेडार फिटर, 25 दिसम्बर 2010
- 680620 वाअ सुरेन्द्र कुमार नरूला, रेडार फिटर, 25 दिसम्बर 2010
- 680656 वाअ अभय सिंह यादव, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 683665 वाअ कायामुदेन अंसारी, रेडार फिटर, 15 दिसम्बर 2010
- 683857 वाअ दिव्या सृष्टा साहू, रेडार फिटर, 15 दिसम्बर 2010
- 684660 वाअ विष्णु कुमार अवस्थी, रेडार फिटर, 15 दिसम्बर 2010
- 684697 वाअ सुशील कुमार वर्मा, रेडार फिटर, 15 जुलाई 2009
- 684997 वाअ पतीता पबन साहू, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 690278 वाअ निर्मल कुमार दे, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 690670 वाअ विनोद चंद्रा, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 690881 वाअ विनोद कुमार वर्मा, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 691566 वाअ मणिक चंद्र दूबे, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 691902 वाअ अनिल कुमार शर्मा, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 691957 वाअ दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 692134 वाअ लाल बहादुर सिंह, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 692159 वाअ गौरी शंकर शाही, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 692493 वाअ मुरली पैरीन्विरा रमनकुट्टी, रेडार फिटर, 29 दिसम्बर 2010
- 621106 वाअ जितेन्द्र सिंह, रेडियो फिटर, 03 फरवरी 2010
- 621482 वाअ रमेश चंद्र खंदोदिया, रेडियो फिटर, 03 फरवरी 2010
- 622528 वाअ प्रदीप कुमार सिंघा, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2009
- 623961 वाअ सुरेन्द्र नाथ मिश्रा, रेडियो फिटर, 01 अक्टूबर 2009
- 634635 वाअ कंवर सिंह, रेडियो फिटर, 03 फरवरी 2010
- 634653 वाअ गुरुदेव प्रसाद, रेडियो फिटर, 03 फरवरी 2010
- 634670 वाअ आदर्श कुमार खुल्लर, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2010
- 634827 वाअ स्निधामे बिश्वास, रेडियो फिटर, 03 फरवरी 2010
- 634839 वाअ रामरतन गौर, रेडियो फिटर, 03 फरवरी 2010
- 634983 वाअ सोम पाल सिंह कालिअर, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2010
- 636527 वाअ विष्णु प्रताप सिंह, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2009
- 638271 वाअ महेश चंद्र, रेडियो फिटर, 01 अक्टूबर 2009
- 638437 वाअ रबिन्द्रनाथ ओझा, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2009
- 650862 वाअ बिद्याधर बेहरा, रेडियो फिटर, 03 फरवरी 2010
- 651045 वाअ सत्यबीर सिंह दूहोन, रेडियो फिटर, 03 फरवरी 2010
- 653010 वाअ रामकंवर, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2009
- 653781 वाअ रतन लाल, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2009
- 654351 वाअ चरण सिंह मोटलिया, रेडियो फिटर, 01 अक्टूबर 2009
- 672828 वाअ भगवान सिंह राठौर, रेडियो फिटर, 01 अक्टूबर 2009
- 673841 वाअ अजीत कुमार, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2009
- 680071 वाअ निलॉय कुमार भट्ट्याचार्य, रेडियो फिटर, 01 मार्च 2009
- 680233 वाअ श्रीनिवास सिंह, रेडियो फिटर, 01 मार्च 2009

680565 वाअ कृष्णन कुयनन गदन, रेडियो फिटर, 01 अक्टूबर 2009

680627 वाअ राम नरेश त्यागी, रेडियो फिटर, 01 अक्टूबर 2009

625983 वाअ रमेश राव, रेडियो टेक, 21 फरवरी 2009

638691 वाअ अग्रवाल सुनील गुलचंद, रेडियो टेक, 15 फरवरी 2009

639058 वाअ गायकवाड़ नंदकिशोर बापूराव, रेडियो टेक, 27 फरवरी 2009

639729 वाअ रवीन्द्र कुमार, रेडियो टेक, 25 फरवरी 2009

653923 वाअ अशोक कुमार, रेडियो टेक, 15 फरवरी 2009

654541 वाअ सुरेन्द्र कुमार जारवाल, रेडियो टेक, 21 फरवरी 2009

654635 वाअ शैलेन्द्र कुमार अस्थाना, रेडियो टेक, 23 फरवरी 2009

672941 वाअ विष्णुपाल सिंह, रेडियो टेक, 23 फरवरी 2009

672964 वाअ देवेन्द्र प्रताप सिंह, रेडियो टेक, 21 फरवरी 2009

673288 वाअ संजीत कुमार दे, रेडियो टेक, 23 फरवरी 2009

673427 वाअ जीतेन्द्र कुमार सिंह, रेडियो टेक, 01 मार्च 2009

673474 वाअ राजू राजगोपाल, रेडियो टेक, 25 फरवरी 2009

673521 वाअ सत्येन्द्र कुमार, रेडियो टेक, 25 फरवरी 2009

673522 वाअ राजेन्द्र प्रसाद, रेडियो टेक, 25 फरवरी 2009

673523 वाअ गिरीश देव प्रसाद, रेडियो टेक, 01 मार्च 2009

673555 वाअ विनय कुमार शर्मा, रेडियो टेक, 25 फरवरी 2009

674804 वाअ करीमीरेड्डी गोपी, रेडियो टेक, 27 फरवरी 2009

682642 वाअ राबिन चंद्र दास, रेडियो टेक, 17 फरवरी 2009

683201 वाअ राजपूत जनक सिंह, रेडियो टेक, 17 फरवरी 2009

683410 वाअ रामहरीश मनी त्रिपाठी, रेडियो टेक, 19 फरवरी 2009

683491 वाअ परदीप सिंह, रेडियो टेक, 19 फरवरी 2009

684858 वाअ विजय शंकर, रेडियो टेक, 19 फरवरी 2009

643205 वाअ राजेन्द्र सिंह, एसईडब्ल्यू, 01 अगस्त 2008

644477 वाअ अजय कुमार श्रीवास्तव, एसईडब्ल्यू, 04 जून 2009

644885 वाअ आबिद हुसैन अंसारी, एसईडब्ल्यू, 04 दिसम्बर 2008

644887 वाअ ललन जी चौधरी, एसईडब्ल्यू, 02 सितम्बर 2008

644900 वाअ सूरजमल, एसईडब्ल्यू, 02 सितम्बर 2008

657448 वाअ राम बिलास शर्मा, एसईडब्ल्यू, 02 दिसम्बर 2008

657738 वाअ बिसवल बिपराबर, एसईडब्ल्यू, 02 सितम्बर 2008

658002 वाअ अतिन्द्र नान रे, एसईडब्ल्यू, 02 दिसम्बर 2008

658248 वाअ सत्येन्द्र नारायण सिंह, एसईडब्ल्यू, 04 दिसम्बर 2008

668363 वाअ दुलाल चंद्र डे, एसईडब्ल्यू, 01 जुलाई 2008

678824 वाअ परमवीर सिंह सेंगर, एसईडब्ल्यू, 01 जुलाई 2008

678940 वाअ मांगे राम त्यागी, एसईडब्ल्यू, 01 जुलाई 2008

679101 वाअ विश्वमित्र केशरी, एसईडब्ल्यू, 03 मार्च 2009

696077 वाअ वीरेन्द्र सिंह यादव, एसईडब्ल्यू, 02 जून 2009

644562 वाअ रमाकांत प्रसाद सिंह, वेपन फिटर, 31 अक्टूबर 2008

659794 वाअ देवेन्द्र चौबे, वेपन फिटर, 02 मार्च 2009

662475 वाअ विद्याकांत मिश्रा, वेपन फिटर, 31 अक्टूबर 2008

662735 वाअ भंवर दास अरोरा, वेपन फिटर, 31 अक्टूबर 2008

669917 वाअ नवल किशोर जैन, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2008

675141 वाअ जोगराज सिंह, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2008

293980 वाअ राजेन्द्र सिंह, डब्ल्यूएस फिटर (सी), 02 जून 2009

643754 वाअ गिराज सिंह अत्री, डब्ल्यूएस फिटर (सी), 02 अगस्त 2009

657339 वाअ बीरेन्द्र सिंह तोमर, डब्ल्यूएस फिटर (सी), 02 सितम्बर 2009

657593 वाअ प्रदीप कुमार, डब्ल्यूएस फिटर (सी), 02 अक्टूबर 2009

658791 वाअ सुरेश पाल राणा, डब्ल्यूएस फिटर (सी), 02 मई 2010

660636 वाअ तपन कुमार मित्र, डब्ल्यूएस फिटर (सी), 02 फरवरी 2010

662120 वाअ अंजन कुमार दास, डब्ल्यूएस फिटर (सी), 04 अक्टूबर 2008

666027 वाअ हाकिम सिंह राजपूत, डब्ल्यूएस फिटर (सी), 01 फरवरी 2009

668030 वाअ महाराज सिंह, डब्ल्यूएस फिटर (सी), 02 मार्च 2009

657759 वाअ प्रदीप कुमार, डब्ल्यूएस फिटर (एम), 26 जून 2007

658023 वाअ उमेश चंद शर्मा, डब्ल्यूएस फिटर (एम), 02 नवम्बर 2007

658041 वाअ नरेन्द्र सिंह शॉन, डब्ल्यूएस फिटर (एम), 01 जून 2008

658532 वाअ घेवर राम, डब्ल्यूएस फिटर (एम), 02 मार्च 2009

659018 वाअ रघुवीर सिंह राजपुरोहित, डब्ल्यूएस फिटर (एम), 03 जून 2008

अंजली सिंह  
निदेशक (एयर-1)

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 435, दिनांक 01 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

श्रीमती जी श्री लक्ष्मी, को निर्माण अभियन्ता, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 6,600/- पर।

श्री ए सुब्बा रेड्डी को वरिष्ठ लेखा अधिकारी ग्रेड-II ग्रुप 'ए' के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 16 मार्च 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्रीमती मीना सक्सेना, को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 01 फरवरी 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री सी एच विजय कुमार, को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 13 मई 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री जी डी दयाकर राव, को संयुक्त निदेशक, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 01 अप्रैल 2010(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 37,400--67,000/- एवं ग्रेड पे रु. 8,700/- पर।

श्री के वी कृष्णा मूर्ति, को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 13 मई 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री एस कुमार, को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 12 जनवरी 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री वी मधुसूदन राव, को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 30 मार्च 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्रीमती एल भानुमति, को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 24 जनवरी 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री सुरेशा नंद को हिन्दी अधिकारी, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 11 मार्च 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्रीमती के राजामनी, को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 21 फरवरी 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री नंदन प्रसाद को हिन्दी अधिकारी, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 11 मार्च 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्रीमती सुदर्शन तनेजा, को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 19 मई 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री सोनम रिगदान, को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित)

के रूप में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री एन हरि किशन को असैनिक सहायक सुरक्षा अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 27 जनवरी 2011(पूर्वाह) से रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री दविन्द्र किशोर को वरिष्ठ निजी सचिव, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 मई 2009 (पूर्वाह) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्री सी एच सुब्बा राजू को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 26 अक्टूबर 2008 (पूर्वाह) से रु. 6,500--10,500/- के वेतन पर।

श्री ए के मिश्रा को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 फरवरी 2011 (पूर्वाह) से (पे बैंड-3) में रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्री पी साहू को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री एस के रे, को हिन्दी अधिकारी, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 20 दिसम्बर 2010 (पूर्वाह) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्रीमती शोभा एस जोशी, को हिन्दी अधिकारी, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 31 दिसम्बर 2010 (पूर्वाह) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्रीमती वाल्सामा वर्गीस, को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्रीमती एस आई शेख, को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 13 जनवरी 2011(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री एम बी राजू को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 30 दिसम्बर 2008 (पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

वी पी सिंह  
उपनिदेशक (कार्मिक एए-2)

सं. 436, दिनांक 02 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

एकीकृत परीक्षण परिसर (पी एक्स ई), चान्दीपुर, बालेश्वर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले पे बैंड + ग्रेड पे वेतनमान के

रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2011 पूर्वाह्न से।

नाम, पदनाम, पदोन्नति एवं पे बैंड + ग्रेड पे वेतनमान

डॉ. ए के शनीग्राही, ई, एफ, रु. 37,400--67,000/- + 8,900/-

श्री एच एस पाण्डा, डी, ई, रु. 37,400--67,000/- + 8,700/-

श्री दिलीप कुमार बेहरा, सी, डी, रु. 15,600--39,100/- + 7,600/-

श्री अरकादेब, सी, डी, रु. 15,600--39,100/- + 7,600/-

श्री कुनाल रे, सी, डी, रु. 15,600--39,100/- + 7,600/-

श्री शंकरसेन पाध्य, सी, डी, रु. 15,600--39,100/- + 7,600/-

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

ए आर डी ई, पुणे के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले पे बैंड + ग्रेड पे वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2011 पूर्वाह्न से।

नाम, पदनाम, पदोन्नति एवं पे बैंड + ग्रेड पे वेतनमान

डॉ. डी के खरात, वैज्ञानिक एफ, वैज्ञानिक जी, रु. 37,400--67,000/- + 10,000/- + विशेष वेतन रु. 4,000/-

श्री ए ए घोष, वैज्ञानिक एफ, वैज्ञानिक जी, रु. 37,400--67,000/- + 10,000/- + विशेष वेतन रु. 4,000/-

नरसिंह साहु

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 437, दिनांक 02 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को कमीशन त्यागने की अनुमति प्रदान करते हैं। :--

प्रादेशिक सेना

त्यागपत्र

ले एलन रॉय जेखा, टीए-42694 (इन्फैंट्री), 03 फरवरी 2010

ले संजीव कौरा, टीए-42689 (इन्फैंट्री), 19 अप्रैल 2010

कैप्टन वी सी गौर, टीए-42621 (इन्फैंट्री), 22 मार्च 2010

ले नितिन जैन, टीए-42662 (इन्फैंट्री), 10 जून 2010

ले मुनीर अहमद भट्ट, टीए-42765 (इन्फैंट्री), 30 जुलाई 2010

ले अजय एलेक्स, टीए-42767 (इन्फैंट्री), 10 नवम्बर 2010

ले मनीश दत्ता, टीए-42770 (इन्फैंट्री), 15 अक्टूबर 2010

वी राजा राम

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 438, दिनांक 05 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

ले कर्नल पी सम्पथ, टीए-42008 (इन्फैंट्री), 28 फरवरी 2011 (अपराह्न)

ले कर्नल मानाराम माली, टीए-41783 (इंजीनियर टीए), 31 दिसम्बर 2008 (पूर्वाह्न)

ले कर्नल एच के सयाल, टीए-41833 (इंजीनियर टीए), 31 दिसम्बर 2008 (पूर्वाह्न)

मेजर तारावती, टीए (एन)-1077 (एम एन एस टीए), 28 मई 2008 (पूर्वाह्न)

वी राजा राम

अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st October 2011

No. 420, dated 23rd August 2011—The President is pleased to appoint Air Marshal NAK Browne PVSM AVSM VM ADC (13129) F(P) to be the Chief of the Air Staff with effect from 31 Jul 2011 (Afternoon), in the substantive rank of Air Chief Marshal.

SHASHI KANT SHARMA  
Defence Secy

## FINANCE DIVISION

No. 421, dated 23rd August 2011—The President is pleased to appoint Margaret Gangte, CSS as Director in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 13.07.2011, until further orders.

T HENRY FRANKLIN  
Dy Financial Adviser (Estt./MO)

## ARMY BRANCH

No. 422, dated 24th August 2011—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Cap (On Prob)

Deepak Chauhan, (DS-12317F), 01 Jan 2009

(with seniority for pay and promotion from 01 Jul 2008 (includes 06 months ante date for paid job of Tutor in Maharana Pratap College of Dentistry & RC Gwalior for the period from 18 Jan 2007 to 31 Oct 2008 which will not count for gratuity)

Tanuj Mendiratta, (DS-12360H), 24 Aug 2009

(with seniority for pay and promotion from 24 Feb 2009 (includes 06 months ante date for paid job of Lecturer/Demonstrator in Sri Govind Tricentenary Dental College, Hospital & Research Institute, Distt Gurgaon for the period from 18 Dec 2007 to 20 Nov 2008 which will not count for gratuity)

MAHESH CHANDER  
Maj Gen  
Addl DGDS

## ARMY BRANCH

No. 423, dated 24th August 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

## TERRITORIAL ARMY

## TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

Mukesh Kumar Yadav (TA-42779), Inf, 01 Sep 2010 (AN)

Shamsher Singh (TA-42780), Inf, 03 Sep 2010 (FN)

Jai Singh (TA-42781), Inf, 10 Sep 2010 (FN)

SP Singh Shekhawat (TA-42782), Inf, 16 Sep 2010 (FN)

Abhinav Singh Rawat (TA-42783), Inf, 18 Sep 2010 (FN)

Krishan Lal R (TA-42784), Inf, 20 Sep 2010 (FN)

Gopalan Vinod (TA-42785), Inf, 04 Oct 2010 (FN)

Ashwin Pogula (TA-42786), Inf, 06 Sep 2010 (FN)

Paramvir Singh Kochar (TA-42787), Inf, 22 Oct 2010 (FN)

Mohan Parincheery (TA-42788), Inf, 23 Oct 2010 (FN)

Harpreet Singh (TA-42789), Inf, 02 Nov 2010 (FN)

Naveen Kumar Jha (TA-42791), Inf, 16 Nov 2010 (AN)

Sanjay Kumar Kalsi (TA-42795), Engr TA, 24 Feb 2010 (AN)

Kishore Kumar (TA-42796), Engr TA, 26 Nov 2010 (AN)

V RAJARAM  
Under Secy

## DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 424, dated 25th August 2011—The President is pleased to make the following appointment :—

AK Singh to be Senior Accounts Officer Grade-II, Gp 'A' on probation for two years in DRDO with effect from 04 Mar 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 5,400/-.

VP SINGH  
Dy Dir (Pers)

No. 425, dated 25th August 2011—The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted Permanent Commission (on probation) wef 02 Jul 2010. They are granted ante date wef 02 Jul 2008 :—

## INDIAN AIR FORCE

## AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

Fg Offr Ronak Sharma (30573), AE/(L)

Fg Offr A Raghu Raman (30549), AE/(M)

Fg Offr Yogesh Kumar Yadav (30575), AE/(L)

Fg Offr Tuhin Ghose (30592), AE/(L)

Fg Offr A Kiran Kumar (30689), AE/(L)  
 Fg Offr Saurabh Mittal (30606), AE/(L)  
 Fg Offr Madhusudan Kumar (30557), AE/(M)  
 Fg Offr Krupakar M (30579), AE/(L)  
 Fg Offr Manish Sharma (30601), AE/(L)  
 Fg Offr Manas M Guttal (30559), AE/(L)  
 Fg Offr Jitesh Kumar (30611), AE/(L)  
 Fg Offr Vikas Kumar (30564), AE/(L)  
 Fg Offr Aman Jain (30580), AE/(L)  
 Fg Offr Bharat Bajaj (30588), AE/(L)  
 Fg Offr Jitendra Mundiara (30610), AE/(L)  
 Fg Offr Janmeet Singh Malhi (30595), AE/(L)  
 Fg Offr Rohit Bali (30554), AE/(L)  
 Fg Offr Abhisek Pujari (30605), AE/(L)  
 Fg Offr Prateek Gangwal (30684), AE/(L)  
 Fg Offr Ravi Kumar Ahlawat (30586), AE/(L)  
 Fg Offr Prashant Garg (30594), AE/(L)  
 Fg Offr Jitender Jamwal (30585), AE/(L)  
 Fg Offr Ankit Sharma (30584), AE/(L)  
 Fg Offr Varun Pareek (30604), AE/(L)  
 Fg Offr Narinderjit Singh (30550), AE/(L)  
 Fg Offr Gaurav (30582), AE/(L)  
 Fg Offr Karan Wadhawan (30562), AE/(L)  
 Fg Offr Sanil P Thomas (30553), AE/(M)  
 Fg Offr Ravi HK (30599), AE/(L)  
 Fg Offr Abhimanyu Tyagi (30600), AE/(L)  
 Fg Offr Sharad Samrath (30593), AE/(L)  
 Fg Offr Sandeep Kumar Singh (30589), AE/(L)  
 Fg Offr Vishal Chouhan (30603), AE/(L)  
 Fg Offr Pradeep RJ (30551), AE/(M)  
 Fg Offr Rajan Kumar (30591), AE/(L)  
 Fg Offr Ashish Chandan (30607), AE/(L)  
 Fg Offr Pankaj Sharma (30581), AE/(L)  
 Fg Offr Rahul Khandelwal (30560), AE/(L)  
 Fg Offr Souvik Hui (30616), AE/(L)  
 Fg Offr Rahul Chakraborty (30596), AE/(L)  
 Fg Offr Reeju Chakraborty (30615), AE/(L)  
 Fg Offr Ankit Muley (30571), AE/(L)

Fg Offr Saurabh Tomar (30552), AE/(M)  
 Fg Offr Gautam Srivastav (30613), AE/(L)  
 Fg Offr Vishal Sharma (30574), AE/(L)  
 Fg Offr Rahul Mann (30556), AE/(M)  
 Fg Offr DK Dubey (30548), AE/(M)  
 Fg Offr Siva Krishna Dodla (30568), AE/(L)  
 Fg Offr Ravikant (30577), AE/(L)  
 Fg Offr Chetan B Achar (30563), AE/(L)  
 Fg Offr Pradeep Kumar Rathee (30609), AE/(L)  
 Fg Offr Saurabh Yadav (30598), AE/(L)  
 Fg Offr Manvendra Singh (30569), AE/(L)  
 Fg Offr Vineet Kumar Sharma (30583), AE/(L)  
 Fg Offr Sudip Kumar Dutta (30561), AE/(L)  
 Fg Offr BS Jaswal (30587), AE/(L)  
 Fg Offr Amit Kumar (30566), AE/(L)  
 Fg Offr Pankaj Singh Malik (30608), AE/(L)  
 Fg Offr Abhishek Kumar (30612), AE/(L)  
 Fg Offr Jatin Singh (30602), AE/(L)  
 Fg Offr Saurabh Kumar (30565), AE/(L)  
 Fg Offr Sibin D Philipose (30614), AE/(L)  
 Fg Offr Apnil Saxena (30634), AE/(L)  
 Fg Offr Gopalakrishnan R (30617), AE/(L)  
 Fg Offr A Padmanabhan L (30578), AE/(L)  
 Fg Offr Pranay Seth (30590), AE/(L)  
 Fg Offr B Arunachalam (30567), AE/(L)  
 Fg Offr Vineet Kumar Dixit (30558), AE/(L)  
 Fg Offr Deep Bhushan Verma (30576), AE/(L)

The President is pleased to confirmed the under-mentioned officers were granted Permanent Commission, wef the date stated against their names :-

#### INDIAN AIR FORCE

##### ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Arun Prakash Mithilesh (30465), Adm  
 Fg Offr Vijay Kumar (30466), Adm  
 Fg Offr Manish Kumar Rai (30467), Adm  
 Fg Offr Abhimanyu Chandel (30468), Adm  
 Fg Offr Anand Singh Shekhawat (30469), Adm  
 Fg Offr Sheetal Sharma (30470), Adm  
 Fg Offr S Bhattacharjee (30471), Adm—wef 27 Jun 2009

## LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Man Mohan Mahant (30472), LGS  
 Fg Offr Bivek Sharma (30473), LGS  
 Fg Offr Manish Kumar Singh (30474), LGS—wef 27 Jun 2009

## ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Piyush Agarwal (30475), Accts  
 Fg Offr Sashiranjana Singh (30476), Accts  
 Fg Offr Sanjay Prasad Jugran (30477), Accts  
 Fg Offr K Laiju Auggustine (30478), Accts  
 Fg Offr Ravi Shankar Singh (30479), Accts  
 Fg Offr Rajwinder Singh Sidhu (30480), Accts  
 Fg Offr Saiprasad Tumulu (30481), Accts  
 Fg Offr Gaurav Tyagi (30482), Accts—wef 27 Jun 2009

## EDUCATION BRANCH

Fg Offr Roshan Lal Yadav (30483), Edn  
 Fg Offr A Vaidyanathan (30484), Edn  
 Fg Offr Tampella Ramesh Kumar (30485), Edn—wef 27 Jun 2009

## METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Ashok (30134), Met—wef 27 Jun 2009

## FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Himanshu Gupta (30382)  
 Fg Offr Neraj Sharma (30383)  
 Fg Offr Omanakuttam Prakash (30384)  
 Fg Offr Krishan Kumar Sharama (30386)  
 Fg Offr AV Naveen Kumar (30387)  
 Fg Offr Prashant Sharma (30388)  
 Fg Offr V Logesh (30389)  
 Fg Offr Bharat Singh (30390)  
 Fg Offr Nikhil Pandey (30392)  
 Fg Offr Arpit Dhaka (30393)  
 Fg Offr K Praveen (30394)  
 Fg Offr Siddhartha Negi (30395)  
 Fg Offr Aalok Chaudhary (30396)  
 Fg Offr Mrityunjay Dhar (30397)  
 Fg Offr Joy Chandra (30398)  
 Fg Offr Hanumanth Rao Sarathi (30399)

Fg Offr Faiz Rafuddin Shaikh (30400)  
 Fg Offr Harshit Tyagi (30401)  
 Fg Offr Sourabh Kumar Singh (30402)  
 Fg Offr Gaurav Kumar Paliwal (30403)  
 Fg Offr Suryakant Thalyari (30404)  
 Fg Offr Vibhu Maheshwari (30405)  
 Fg Offr Gyanendra Pandey (30406)  
 Fg Offr Rajaji Singh (30407)  
 Fg Offr Deepak Sansanwal (30408)  
 Fg Offr Vivek Kumar (30409)  
 Fg Offr Mukul Mahajan (30410)  
 Fg Offr Janmeet Sharma (30411)  
 Fg Offr Amol Ashok Dixit (30412)  
 Fg Offr Tuhin Mukherjee (30413)  
 Fg Offr Ashutosh Sekhri (30414)  
 Fg Offr Rahul Tiwari (30415)  
 Fg Offr Prashant Dwivedi (30416)  
 Fg Offr Rajkumar Lalit (30417)  
 Fg Offr Nitesh Kumar Dhiman (30418)  
 Fg Offr Chakrapani Kajla (30419)  
 Fg Offr Shobhan Tyagi (30421)  
 Fg Offr Sarthak Bhudhia (30422)  
 Fg Offr Miskeen Puneet Avtar (30423)  
 Fg Offr Kinjal D Dixit (30424)  
 Fg Offr Prem Pratik (30425)  
 Fg Offr Manu Vidhyadharan (30428)  
 Fg Offr Rajendra Kumar Sahoo (30429)  
 Fg Offr Sonal Badiyaree (30430)  
 Fg Offr B Gangopadhyay (30431)  
 Fg Offr Ratnadeep Jagadale (30432)  
 Fg Offr Tanay Kumar Raj (30433)  
 Fg Offr Joseph Simon (30434)  
 Fg Offr Priyank Bhardwaj (30435)  
 Fg Offr Chaman Prakash (30436)  
 Fg Offr Maninder Singh (30437)  
 Fg Offr Karan Singh Rathore (30438)  
 Fg Offr Prateek Gupta (30439)

Fg Offr Uday Shakar Tavhare (30440)  
 Fg Offr Sushil Kumar Sirohi (30441)  
 Fg Offr Pushpahas Sinha (30442)  
 Fg Offr Niraj Yadav (30443)  
 Fg Offr Chandan Patnaik (30444)  
 Fg Offr Vikas Raj Singh (30445)  
 Fg Offr Avdesh Tripathi (30446)  
 Fg Offr Shanky Jain (30448)  
 Fg Offr Kuldeep Singh Bijarnia (30449)  
 Fg Offr Pankaj Pandey (30450)  
 Fg Offr Shreedhar V Basetti (30451)  
 Fg Offr Vikas Chauhan (30452)  
 Fg Offr Mayank Mishra (30454)  
 Fg Offr Natraj Dagur (30455)  
 Fg Offr Deepu Mahesh (30457)  
 Fg Offr Pankaj Vijay Borkar (30458)  
 Fg Offr Ajay Kumar (30459)  
 Fg Offr Naveen P Menon (30460)  
 Fg Offr Anshul Jain (30461)  
 Fg Offr Ghadge Sachin Shivaji Rao (30462)  
 Fg Offr S Gokula Krishnan (30463)  
 Fg Offr Maan Pratap S Godara (30464)—wef 27 Jun 2009

The President is pleased to confirm the under mentioned officers granted Short Service Commission (on probation), wef the date stated against their names :—

#### INDIAN AIR FORCE

#### AERONAUTICAL ENGINEERING

#### (ELECTRONICS)/(MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Sanjivani Mohite (30662), AE(L)  
 Fg Offr G Sharda (30657), AE(L)  
 Fg Offr Anubhav Sinha (30635), AE(L)  
 Fg Offr Shivangi (30668), AE(L)  
 Fg Offr Taranjot Kaur (30669), AE(L)  
 Fg Offr Nachiketa Bhoraniya (30636), AE(L)  
 Fg Offr Rahul Veeravalli (30633), AE(L)  
 Fg Offr Mohit Kumar Bahal (30631), AE(L)  
 Fg Offr Priyanka Joshi (30656), AE(L)  
 Fg Offr Aarti Singh (30654), AE(L)  
 Fg Offr Suvidha Gupta (30661), AE(L)  
 Fg Offr Sonika Tanwar (30653), AE(L)  
 Fg Offr Himashu Hemrajani (30624), AE(L)

Fg Offr Jitin Khurana (30637), AE(L)  
 Fg Offr Sumedha Chopra (30678), AE(L)  
 Fg Offr Rohit Chauhan (30638), AE(L)  
 Fg Offr Meenakshi Shrivastav (30667), AE(L)  
 Fg Offr Jyoti Chauhan (30647), AE(L)  
 Fg Offr Anil Sharma (30628), AE(L)  
 Fg Offr Aumkar Praveen Desai (30620), AE(L)  
 Fg Offr Meha Gautam (30672), AE(L)  
 Fg Offr Ankit Gupta (30627), AE(L)  
 Fg Offr Dhruvika Raj (30664), AE(L)  
 Fg Offr Tarang Arya (30643), AE(L)  
 Fg Offr Gurjeet Singh (30619), AE(L)  
 Fg Offr Neelofeer Khan (30642), AE(L)  
 Fg Offr Anuj Chopra (30618), AE(L)  
 Fg Offr P Jeswanth Kumar (30626), AE(L)  
 Fg Offr Roseline Km Joseph (30659), AE(L)  
 Fg Offr Kishor Thakral (30629), AE(L)  
 Fg Offr Meenakshi Kumari (30650), AE(L)  
 Fg Offr Gaurav Choudhary (30625), AE(L)  
 Fg Offr R K Krishnasamy (30630), AE(L)  
 Fg Offr Mamatha D (30675), AE(L)  
 Fg Offr Beena Pandey (30645), AE(L)  
 Fg Offr Tripti Verma (30670), AE(L)  
 Fg Offr Krati Dixit (30676), AE(L)  
 Fg Offr Krishah Nanboodhiri V (30570), AE(L)  
 Fg Offr Ankur Yadav (30622), AE(M)  
 Fg Offr Rajasree Abhiraman (30646), AE(L)  
 Fg Offr Dipti Kala (30660), AE(L)  
 Fg Offr Jemini Papneja (30674), AE(L)  
 Fg Offr Anupriya Nigam (30673), AE(L)  
 Fg Offr KK Hirwani (30621), AE(M)  
 Fg Offr Abhishek Kumar Singh (30623), AE(L)  
 Fg Offr Neha Gautam (30665), AE(L)  
 Fg Offr Upasana Sohlot (30652), AE(L)  
 Fg Offr Suruchi Goel (30663), AE(L)  
 Fg Offr Sonika Kumari (30640), AE(M)  
 Fg Offr Praneeta Raina (30655), AE(L)  
 Fg Offr Manisha Tyagi (30658), AE(L)  
 Fg Offr Megha Gupta (30651), AE(L)



Fg Offr SK Gupta (30686), AE(L)

Fg Offr Sangeetha Nair (30685), AE(L)

Fg Offr Priyanka Karwasra (30649), AE(L)

Fg Offr Aditi Sisodia (30666), AE(L)

Fg Offr Gayathry V (30677), AE(L)

Fg Offr S Hatwal (30639), AE(M)

Fg Offr Rainy Sharma (30679), AE(L)

Fg Offr APK Sehgal (30644), AE(L)—Confirmation wef  
02 Jul 2010

#### INDIAN AIR FORCE

##### ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Monika Rangi (30523)

Fg Offr T Bhatt (30524)

Fg Offr Priyanka Thakur (30525)

Fg Offr Rasnhmi Khatri (30526)

Fg Offr KH Priya Chanu (30527)

Fg Offr Shayana Kadyan (30528)

Fg Offr Richa Pandey (30529)

Fg Offr Kanupriya Karki (30530)

Fg Offr A Nautiyal (30531)

Fg Offr Neha Bist (30532)

Fg Offr Neha Sahu (30533)—Confirmation wef 27 Jun  
2009

##### LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Rekha Yadav (30534)

Fg Offr S Sowmyanarayani (30535)

Fg Offr Shubh Sharma (30536)

Fg Offr Aditi Gupta (30537)

Fg Offr Priyanka Hooda (30538)

Fg Offr Nupur Singh (30539)

Fg Offr Sunayna Madaan (30540)

Fg Offr M Balekundri (30441)—Confirmation wef 27 Jun  
2009

##### ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr NK Rai (30542)

Fg Offr Sapna Pandey (30543)

Fg Offr Pallavi (30544)

Fg Offr Pappy Shukla (30545)

Fg Offr Arpita Mukherjee (30546)—Confirmation wef  
27 Jun 2009

##### EDUCATION BRANCH

Fg Offr B Bhavani (30547)—Confirmation wef 27 Jun  
2009

##### METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Pooja Bajpai (30135)

Fg Offr Ritu Kundu (30136)

Fg Offr Shalini Singh (30137)

Fg Offr Priya Thakur (30138)

Fg Offr Sonali Sharma (30139)—Confirmation wef 27 Jun  
2009

##### FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Yoggesh Mehta (30489)

Fg Offr Aditya Vikram Singh (30490)

Fg Offr Rahul P Verekar (30491)

Fg Offr Sunit Sangwan (30492)

Fg Offr Ajay Chandra (30493)

Fg Offr Dushyant Singh Rahore (30494)

Fg Offr Priyabrata Singh (30495)

Fg Offr Archit Aagnihoti (30496)

Fg Offr Rishipal Rana (30497)

Fg Offr Alok Kumar Goakar (30498)

Fg Offr Pashant Kondal (30499)

Fg Offr Chandrajeet Shekhawat (30500)

Fg Offr Meet Kumar (30501)

Fg Offr Chauhan Asif Iqbal Mohamed (30502)

Fg Offr Protim Das (30503)

Fg Offr Himanshu (30504)

Fg Offr Sandeep Kumar (30505)

Fg Offr Veer Kumar (30506)

Fg Offr Rohit Tiwari (30507)

Fg Offr Abhishek Vashisht (30510)

Fg Offr Anirudh Pathania (30511)

Fg Offr Malay Kumar Singh (30513)

Fg Offr Aman Singh Chandel (30514)

Fg Offr Amit Singh (30516)—wef 27 Jun 2009

TARUN KHARE

Wg Cdr

JDPO-3(D)

## ARMY BRANCH

No. 426, dated 26th August 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Cdr to be Surg Capt by selection (& equivalent)

AA Karmarkar (MR-05736W)—04 Mar 2011 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2010

G V Venkat (MR-06173N)—04 Mar 2011 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2010

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (Hr)

(IC-57538) G Karpaga Vinayagam, Engrs, 06 Dec 2010

(IC-57539) G Arvindhan, Engrs, 06 Dec 2010

(IC-57549) Mohit Kumar Sharma, Inf, 06 Dec 2010

(IC-57574) Rakesh Kumar Bhardwaj, Inf, 06 Dec 2010

(IC-57601) Manish Gulia, EME, 06 Dec 2010

(IC-57640) Punit Kumar Bhardwaj, Engrs, 06 Dec 2010

(IC-57648) Virendra Pant, Inf, 06 Dec 2010

(IC-57685) KL Roy, Inf, 06 Dec 2010

(IC-58941) Anurag Bhardwaj, EME, 12 Jun 2010

(IC-59041) Ajay Singh Bargoti, Engrs, 12 Jun 2010

(SL-04532) Jagdish Singh, SL TOT, 26 Jan 2011

PRABHAT ROSS  
Dy Dir  
MS-8C

No. 427, dated 26th August 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
Maj to be Lt Col

IC-No., Name, Arms/Services, Sub Lt Col wef

(IC-56931) Nitin Kumar, Engrs, 07 Jun 2010

(IC-56933) Udaybir Singh Dhillon, AC, 07 Jun 2010

(IC-56937) Naveen ND, Engrs, 07 Jun 2010

(IC-56942) Paresh Chandra Gupta, Inf, 07 Jun 2010

(IC-57118) Sudhir Nohwar, AAD, 07 Jun 2010

(IC-57236) Sidharth Khattri, Engrs, 07 Jun 2010

(IC-57365) Vibhor Pant, Engrs, 06 Dec 2010

(IC-57376) Ajay Kumar Yadav, Arty, 06 Dec 2010

(IC-57385) Hitesh Kumar Dhankhar, Inf, 06 Dec 2010

(IC-57396) Anjan Kumar Sinha, EME, 06 Dec 2010

(IC-57397) Abhishek Khattri, Engrs, 06 Dec 2010

(IC-57419) S Vijay Kumar, Inf, 06 Dec 2010

(IC-57464) Rajiv Ahlawat, Engrs, 06 Dec 2010

(IC-57485) Mangal Khanna, EME, 06 Dec 2010

(IC-57502) Sharawat Deepankar Kapoor Singh, Inf, 06 Dec 2010

(IC-57520) Nise Mon Kuriakose, EME, 06 Dec 2010

## ARMY BRANCH

No. 428, dated 26th August 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

TERRITORIAL ARMY  
TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj Pankaj Kumar (TA-42313), Engr TA, 26 Jun 2011

Maj Dastagirsahab M Dafedar (TA-42263), Inf, 01 May 2010

Maj J Ramesh Prabhu (TA-42413), Inf, 01 Feb 2011

Maj A Sam George (TA-42273), Inf, 25 May 2010

To be Maj

Capt D Y Sema (TA-42416), Inf, 02 Jul 2007

Capt Rohit Kochhar (TA-42549), Inf, 10 Dec 2010

Capt Ajay Kumar Sangwan (TA-42550), Inf, 14 Dec 2010

V RAJARAM  
Under Secy

No. 429, dated 26th August 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

(IC-62874) Vikas Dhankhar, AOC, 10 Dec 2008

PRABHAT ROSS  
Dy Dir  
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 430, dated 29th August 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PIONEER CORPS

To be Subs Sub Maj (GD/RT)

Rank, Name, Personal No., Date of Promotion/substantive Rank of Sub Maj

Sub (GD) Md Aktaruddin Mazumdar (JC-829341P), 01 Apr 2011

Sub (RT) Ram Ujagir Tripathi (JC-144224P), 01 May 2011

Sub (RT) Goverdhan Prasad Chamoli (JC-144225X), 02 May 2011\*

Sub (RT) Yaduwansh Prasad (JC-146619P), 18 May 2011\*

\*(Granted seniority wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

PRADEEP KUMAR  
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 431, dated 29th August 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Sarvesh Singh (JC-419425F), 02 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of subs Sub Major wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Govind Singh (JC-420760X), 21 Apr 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of subs Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowance)

Nb Sub Awadhesh Kumar Tripathi (JC-421212M), 31 May 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of subs Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub T Guru Samy (JC-421343X), 01 May 2011

Nb Sub Mahendra Singh (JC-420884M), 18 May 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of subs Sub wef 17 May 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-420377Y), 10 Jun 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of subs Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 432, dated 30th August 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Subs Sub

Sub P Anandan (JC-826187W), 01 Jan 2011

Sub Kundan Singh (JC-826189F), 01 Feb 2011

Sub Siraj Khan (JC-826190W), 01 Feb 2011

Sub Yash Pal (JC-826191Y), 01 Apr 2011

Sub Vivekananda Rawlo (JC-826192F), 01 Apr 2011

Sub Ashok Kumar (JC-826193K), 01 Apr 2011

Sub Balwan Singh (JC-826195P), 04 Apr 2011/01 Apr 2011\*

Sub Prem Ram (JC-826196X), 01 Apr 2011

Sub Puran Singh Rawal (JC-826197A), 02 May 2011/01 May 2011\*

Sub Ashok Kumar (JC-826198H), 04 May 2011/01 May 2011\*

\*Date of Seniority

FREM PRAKASH  
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 433, dated 30th August 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
ARMY ORDNANCE CORPS

To be Nb Sub

Hav Clk(SD) M Murugavel (No. 6926049P now JC-729212A), 01 Mar 2011

Hav Clk(IM) Munu Swamy S (No. 6926072H now JC-729213H), 01 Mar 2011

Hav Clk(IM) Kesavan R (No. 6926074N now JC-729214L), 01 Mar 2011

Hav Clk(IM) GP Mohan Kumar (No. 6926078K now JC-729215N), 01 Mar 2011

Hav Clk(IM) PA Ahmed Kha (No. 6926107N now JC-729216W), 01 Mar 2011

Hav Clk(IM) Swaran Singh (No. 6926115M now JC-729217Y), 01 Mar 2011

Hav Clk(IM) NS Meel (No. 6926131K now JC-729218F), 01 Mar 2011

Hav (SKT MT) NKM Rao (No. 6926811K now JC-729219K), 01 Mar 2011

Hav (SKT MT) KPR Vyankat (No. 6926814X now JC-729220Y), 01 Mar 2011

Hav (SKT MT) SS Kondiba (No. 6926815A now JC-729221F), 05 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT SIG) Kuldeep Singh (No. 6922325P now JC-729222K), 01 Mar 2011

Hav (SKT MT) WPU Rao (No. 6926820L now JC-729223M), 01 Mar 2011

Hav (SKT MT) WA Bhiva (No. 6926862X now JC-729224P), 01 Mar 2011

Hav (SKT GS&C) HC Tripathi (No. 6926581F now JC-729225X), 01 Mar 2011

Hav (SKT WEP) BA Sonba (No. 6926894A now JC-729226A), 01 Mar 2011

Hav (SKT WEP) SS Babu (No. 6926897N now JC-729227H), 01 Mar 2011

Hav (SKT WEP) RBS Mahadev (No. 6926898W now JC-729228L), 01 Mar 2011

Hav (SKT WEP) DV Dattatray (No. 6926899Y now JC-729229N), 01 Mar 2011

Hav (SKT WEP) JP Shrimant (No. 6926902N now JC-729230H), 01 Mar 2011

Hav (SKT WEP) JJ Asharam (No. 6926903W now JC-729231L), 01 Mar 2011

Hav (SKT WEP) BRS Maruti (No. 6926907M now JC-729232N), 01 Mar 2011

Hav (SKT SIG) BB Shukla (No. 6933725F now JC-729233W), 01 Mar 2011

Hav (SKT GS&C) NB Dattatray (No. 6926934W now JC-729234Y), 01 Mar 2011

Hav (SKT GS&C) BR Vishnu (No. 6926938M now JC-729235F), 01 Mar 2011

Hav (SKT GS&C) RGSM Singh (No. 6926946L now JC-729236K), 01 Mar 2011

Hav (SKT GS&C) PPKA Khan (No. 6926948W now JC-729237M), 01 Mar 2011

Hav (SKT GS&C) JT Dnyaneshwar (No. 6926966Y now JC-729238P), 01 Mar 2011

Hav (SKT GS&C) KP Babu (No. 6926936F now JC-729239X), 01 Mar 2011

Hav (SKT GS&C) PNR Saheb (No. 6926971K now JC-729240M), 01 Mar 2011

Hav (SKT GS&C) KR Babu (No. 6926974X now JC-729241P), 01 Mar 2011

Hav (SKT GS&C) TMC Bhan (No. 6926979W now JC-729242X), 01 Mar 2011

Hav (SHT) KP Singh (No. 6922957A now JC-729243A), 01 Feb 2011

Hav (SHT) SN Gupta (No. 6923067M now JC-729244H), 11 Mar 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (SHT) Sushil Thakur (No. 6923393P now JC-729245L), 01 Mar 2011

Hav (SHT) RB Kundri (No. 6923394X now JC-729246N), 01 Mar 2011

Hav (SHGD) Param Hans (No. 6922942X now JC-729247W), 08 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (SHGD) Rintu Gogoi (No. 6924617W now JC-729248Y), 01 Dec 2010

Hav (SHGD) KK Mukati (No. 6924697Y now JC-729249F), 01 Feb 2011

Hav (AT) MA Khan (No. 6932857H now JC-729250W), 01 Apr 2011

Hav [Clk(SD)] AS Roy (No. 6926156W now JC-729251Y),  
01 Apr 2011

Hav [Clk(SD)] JD Pal (No. 6926159K now JC-729252F),  
01 Apr 2011

Hav [Clk(SD)] H Sahu (No. 6926161F now JC-729253K),  
01 Apr 2011

Hav [Clk(IM)] MKS Ray (No. 6926162K now JC-729254M),  
01 Apr 2011

Hav [Clk(IM)] MI Ahmed (No. 6926164P now JC-729255P),  
01 Apr 2011

Hav [Clk(SD)] KS Tomar (No. 6926178P now JC-729256X),  
01 Apr 2011

Hav [Clk(SD)] AD Vitthal (No. 6926237W now JC-  
729257A), 01 Apr 2011

Hav [Clk(SD)] JP Vishnu (No. 6926269Y now JC-729258H),  
01 Apr 2011

Hav (Clk (IM)) Krishan Kumar (No. 6926307K now JC-  
729259L), 01 Apr 2011

Hav (SKT WEP) Narayana Padhy (No. 6926647M now JC-  
729260A), 26 Mar 2011

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) PSS Rao (No. 6926982W now JC-  
729261H), 01 Apr 2011

Hav (SKT GS&C) HSH Raya (No. 6926985K now JC-  
729262L), 01 Apr 2011

Hav (SKT GS&C) JDT Rao (No. 6927001N now JC-  
729263N), 01 Apr 2011

Hav (SKT GS&C) SCM Rao (No. 6927004F now JC-  
729264W), 01 Apr 2011

Hav (SKT GS&C) PA Pandurang (No. 6927010P now JC-  
729265Y), 01 Apr 2011

Hav (SKT GS&C) Juk Parshotam (No. 6927018F now JC-  
729266F), 01 Apr 2011

Hav (SKT GS&C) Daulat Ram (No. 6927022K now JC-  
729267K), 05 Apr 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) Mam Raj (No. 6927024P now JC-  
729268M), 01 Apr 2011

Hav (SKT Sig) Harkash Singh (No. 6927025X now JC-  
729269P), 01 Apr 2011

Hav (SKT Engr) Gian Chand (No. 6927029N now JC-  
729270K), 01 Apr 2011

Hav (SKT Engr) Karan Singh (No. 6927031L now JC-  
729271M), 01 Apr 2011

Hav (SKT Engr) Suresh Kumar (No. 6927034Y now JC-  
729272P), 01 Apr 2011

Hav (SKT MT) DB Singh (No. 6927037M now JC-729273K),  
01 Apr 2011

Hav (SKT Engr) Kamal Singh (No. 6927038P now JC-  
729274A), 01 Apr 2011

Hav (SKT Engr) Surender Singh (No. 6927039X now JC-  
729275H), 01 Apr 2011

Hav (SKT Sig) Basava Raj (No. 6927046N now JC-729276L),  
01 Apr 2011

Hav (SKT Engr) Devender Kumar (No. 6927049F now JC-  
729277N), 01 Apr 2011

Hav (DVR MT) Ramanand Singh (No. 6924816K now JC-  
729278W), 01 Apr 2011

Hav (DVR MT) Sukh Ram (No. 6925107F now JC-729279Y),  
01 Apr 2011

Hav (SHGD) GG Viswanath (No. 6924137M now JC-  
729280N), 01 Apr 2011

Hav (SHGD) Ramesh (No. 6924653F now JC-729281W),  
01 Apr 2011

Hav (SHGD) Haripal Singh (No. 6924986N now JC-729282Y),  
01 Apr 2011

Hav (Clk (IM)) PC Sahu (No. 6926168L now JC-729283F),  
01 Apr 2011

Hav (Clk (IM)) BN Jagannath (No. 6926279H now JC-  
729284K), 01 Apr 2011

Hav (SKT GS&C) S S Kurbhari (No. 6926996W now JC-  
729285M), 01 Apr 2011

Hav (SKT GS&C) GA Appa (No. 6926997Y now JC-  
729286P), 01 Apr 2011

Hav (AT) Hari Kumar G (No. 6932404X now JC-729287X),  
01 Apr 2011

Hav (SHT) Devinder Kumar (No. 6923704X now JC-  
729288A), 01 May 2011

Hav (SHT) Balram Singh (No. 6923725N now JC-729289H),  
01 May 2011

Hav (SKT Sig) Mohan Shyam (No. 6924089X now JC-  
729290X), 01 May 2011

Hav (SHGD) Bharat Singh (No. 6924993K now JC-729291A),  
01 May 2011

Hav (DVR MT) Ratan Singh (No. 6925111K now JC-729292H), 03 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (DVR MT) SS Prasad (No. 6925545K now JC-729293L), 01 May 2011

Hav (DVR MT) PK Sahu (No. 6925628P now JC-729294M), 01 May 2011

Hav Clk(IM) S Chakraborty (No. 6926053X now JC-729295W), 01 May 2011

Hav Clk(IM) Vijay Kumar (No. 6926325M now JC-729296Y), 01 May 2011

Hav Clk(IM) Jasvir Singh (No. 6926326P now JC-729297F), 01 May 2011

Hav Clk(IM) Baldev Singh (No. 6926328A now JC-729298K), 01 May 2011

Hav Clk(IM) Rakesh Chandra (No. 6926337F now JC-729299M), 01 May 2011

Hav Clk(IM) Mahipal Singh (No. 6926343P now JC-729300P), 01 May 2011

Hav Clk(SD) NR Chauhan (No. 6926351N now JC-729301Y), 01 May 2011

Hav Clk(IM) Ram Nivas (No. 6926367Y now JC-729302F), 01 May 2011

Hav Clk(SD) Harish Singh (No. 6926368F now JC-729303K), 01 May 2011

Hav Clk(SD) C Kumar (No. 6926369K now JC-729304M), 01 May 2011

Hav Clk(SD) Hori Lal (No. 6926381L now JC-729305P), 01 May 2011

Hav Clk(SD) GD Mahto (No. 6926394H now JC-729306X), 01 May 2011

Hav Clk(IM) Hari Kishan (No. 6926397W now JC-729307A), 01 May 2011

Hav Clk(IM) Manoj Kumar PK (No. 6926481W now JC-729308H), 04 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Clk(IM) A Edward Raj (No. 6926485M now JC-729309L), 01 May 2011

Hav Clk(IM) PK Dwivedi (No. 6926552M now JC-729310A), 09 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Clk(IM) Pramod Kumar (No. 6926555A now JC-729311H), 01 May 2011

Hav Clk(IM) JS Upadhyay (No. 6926559W now JC-729312L), 01 May 2011

Hav (SKT GS&C) R Mourya (No. 6926561N now JC-729313N), 01 May 2011

Hav Clk(IM) Guru Prasad (No. 6926575N now JC-729314W), 01 May 2011

Hav Clk(IM) SKS Rathor (No. 6926580Y now JC-729315Y), 01 May 2011

Hav (SKT GS&C) HK Majhi (No. 6926636A now JC-729316F), 01 May 2011

Hav Clk(SD) SC Baidya (No. 6926671H now JC-729317K), 01 May 2011

Hav (Clk(SD)) Dinesh Kumar (No. 6926788F now JC-729318M), 01 May 2011

Hav Clk(IM) NG Hari Ram (No. 6926852N now JC-729319P), 01 May 2011

Hav Clk(IM) NS Namdeo (No. 6926900H now JC-729320K), 01 May 2011

Hav Clk(IM) Dharamvir (No. 6927032N now JC-729321M), 01 May 2011

Hav Clk(IM) Parsh Ram (No. 6927036K now JC-729322P), 01 May 2011

Hav (SKT Engr) Kuldip (No. 6927052F now JC-729323X), 01 May 2011

Hav (SKT Engr) Deep Chand (No. 6927057A now JC-729324A), 01 May 2011

Hav (SKT Engr) MJ Baba Saheb (No. 6927070K now JC-729325H), 01 May 2011

Hav (SKT WEP) JS Sadashiv (No. 6927087X now JC-729326F), 01 May 2011

Hav (SKT Sig) Jas Ram (No. 6927133F now JC-729327N), 01 May 2011

Hav (SKT GS&C) KS Ramdas (No. 6927174L now JC-729328W), 01 May 2011

Hav (AT) Jaya Kumar K (No. 6931246F now JC-729329Y), 01 May 2011

Hav (AT) JJ Madhukar (No. 6932092M now JC-729330N), 01 May 2011

Hav (AT) SB Narke (No. 6932339H now JC-729331W), 01 May 2011

Hav (AT) Jagdish Chander (No. 6932351K now JC-729332Y), 01 May 2011

Hav (AT) Daljit Singh (No. 6932752Y now JC-729333F), 01 May 2011

Hav (AT) Jaswinder Chand (No. 6932755M now JC-729334K), 01 May 2011

Hav (AT) Rakesh Singh (No. 6932757X now JC-729335M), 01 May 2011

Hav (AT) KB Sahoo (No. 6932866K now JC-729336P), 01 May 2011

Hav (AT) KS Govind (No. 6933081M now JC-729337X), 01 May 2011

Hav (AT) KH Vithoba (No. 6933098A now JC-729338A), 01 May 2011

Hav (AT) G Saravanan (No. 6933111Y now JC-729339H), 01 May 2011

Hav (AT) KA Dinkar (No. 6933113K now JC-729340X), 01 May 2011

Hav (AT) Darwan Singh (No. 6933249N now JC-729341A), 01 May 2011

Hav (AT) R Prasad Joshi (No. 6933267W now JC-729342H), 01 May 2011

Hav (AT) Shaji JM (No. 6933332L now JC-729343L), 01 May 2011\*

Hav (AT) R Yadav (No. 6933475L now JC-729344N), 09 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) R Kumar (No. 6933492L now JC-729345W), 01 May 2011

Hav (AT) BR Barman (No. 6932860H now JC-729347F), 19 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) KS Sidu (No. 6933114M now JC-729348K), 01 May 2011

Hav (AT) Manoj Kumar (No. 6933165A now JC-729349M), 16 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) S Singh (No. 6933272F now JC-729350F), 01 May 2011

Hav (AT) NK Rawat (No. 6933284W now JC-729351K), 01 May 2011

Hav (AT) RNSP Sinh (No. 6933085H now JC-729352M), 21 May 2011

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) V Kumaresan (No. 6933103A now JC-729353P), 01 May 2011

Hav (AT) GN Lingo (No. 6932334K now JC-729354X), 23 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) PR Kasam (No. 6932356H now JC-729355A), 01 May 2011

Hav (AT) BS Pandurang (No. 6933086L now JC-729356H), 01 May 2011

Hav (AT) J Kishore (No. 6933234L now JC-729357L), 19 May 2011

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) DC Singha (No. 6932845N now JC-729358N), 27 May 2011

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) DS Baliram (No. 6933255F now JC-729359W), 29 May 2011

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) Anil Kumar (No. 6933483K now JC-729360L), 01 May 2011

Hav (AT) RK Jha (No. 6933486X now JC-729361N), 01 May 2011

Hav Clk (IM) Narain Datt (No. 6926047K now JC-729362W), 18 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Clk (IM) N Subramani (No. 6925077P now JC-729363Y), 28 Apr 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Clk (IM) Vijaya Kumaran T (No. 6926482Y now JC-729364F), 01 May 2011

Hav Clk (IM) SC Sekar (No. 6926489H now JC-729365K), 09 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Clk (IM) PK Singh (No. 6926572A now JC-729366M), 01 May 2011

Hav Clk (IM) RRB Singh (No. 6926849N now JC-729367P), 01 May 2011

Hav Clk (IM) SV Dharma (No. 6926858P now JC-729368X),  
29 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav Clk (IM) BK Rao (No. 6926165X now JC-729369A),  
01 May 2011

Hav Clk (IM) MS Yadav (No. 6926308M now JC-729370P),  
01 May 2011

Hav Clk (SD) GT Selvan (No. 6926460A now JC-729371X),  
12 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav Clk (SD) TH Mani Babu Singha (No. 6926713K now  
JC-729372A), 01 May 2011

Hav Clk (IM) BL Luhar (No. 6926955M now JC-729373H),  
01 May 2011

Hav Clk (IM) JB Sharma (No. 6927050W now JC-729374L),  
01 Jun 2011

Hav Clk (IM) K Srinivasulu (No. 6927199X now JC-  
729375N), 01 Jun 2011

Hav Clk (IM) Susainathan A (No. 6927203P now JC-  
729376W), 01 Jun 2011

Hav Clk (IM) Ramachandran P (No. 6927205A now JC-  
729377Y), 01 Jun 2011

Hav (SKT Amn) V Satyanarayana (No. 6925104N now JC-  
729378F), 01 Jun 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Amn) Ranjan Kumar (No. 6924389Y now JC-  
729379K), 01 May 2011

Hav (SKT GS&C) CS Singh (No. 6922655N now JC-  
729380Y), 01 May 2011

Hav (SKT Sig) SM Rao (No. 6924940L now JC-729381F),  
01 May 2011

Hav (SKT Wep) YB Jayasing (No. 6927081W now JC-  
729382K), 01 May 2011

Hav (SKT Wep) WR Vasant (No. 6927088A now JC-  
729383M), 17 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Wep) PHR Pandurang (No. 6927098K now JC-  
729384P), 15 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Sig) MAR Rao (No. 6927100W now JC-729385X),  
19 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Engr) SR Sugandha (No. 6927101Y now JC-  
729386A), 18 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Sig) DS Hariba (No. 6927104M now JC-729387H),  
01 May 2011

Hav (SKT Sig) NT Bhiku (No. 6927112L now JC-729388L),  
01 May 2011

Hav (SKT Engr) LN Vasudeo (No. 6927179K now JC-  
729389N), 18 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Engr) GH Naganath (No. 6927180K now JC-  
729390H), 10 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) BD Yashwant (No. 6927116F now JC-  
729391L), 01 May 2011

Hav (SKT GS&C) Vinod Kumar (No. 6927134K now JC-  
729392N), 01 May 2011

Hav (SKT Sig) Tasm Singh (No. 6927137X now JC-  
729393W), 01 May 2011

Hav (SKT GS&C) Shiv Pal (No. 6927145W now JC-  
729394Y), 01 May 2011

Hav (SKT GS&C) L Saharan (No. 6927147F now JC-  
729395F), 01 May 2011

Hav (SKT MT) MS Gurjar (No. 6927150F now JC-729396K),  
01 Jun 2011

Hav (DVR MT) Raghv Thakur (No. 6925510N now JC-  
729397M), 13 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr Spl Veh) DK Pandey (No. 6925767Y now JC-  
729398P), 01 Jun 2011

Hav (Dvr MT) Puran Singh (No. 6924851M now JC-  
729399X), 01 Jun 2011

Hav (SHT) MK Khan (No. 6923705A now JC-729400F),  
16 May 2011\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)



Hav (SHGD) RB Singh Chauhan (No. 6924997A now JC-729401K), 01 Jun 2011

Hav (SHGD) B Pullaiah (No. 6925012F now JC-729402M), 01 Jun 2011

Hav (SHGD) B Das (No. 6925066H now JC-729403P), 01 Jun 2011

Hav (SHGD) Mauji Ram (No. 6925149N now JC-729404X), 01 Jun 2011

The President is pleased to make the following Appointments/Promotions:-

Corps of Electronics and Mechanical Engr Branch

To be Sub Master Tech Gun

Awadesh Dubey (JC-759623N), 01 Jan.2011

To be Sub Tech Comn

Roshan Lal (JC-763879N), 01 Dec 2010

Rameshwar Chaurasia (JC-763900N), 14 Jun 2011/01 Jan 2011\*

To be Sub Auto Tech B Veh

Ranendra Basumatary (JC-762593M), 07 Feb 2011/01 Feb 2011\*

T M Manindra Singha (JC-763451F), 01 Mar 2011/07 Dec 2010\*

To be Sub Master Tech Rdr

Shivji Yadav (JC-759648A), 02 Feb 2011/01 Feb 2011\*

To be Sub Master Tech Comn

Arun Vithal Gore (JC-759602X), 01 Dec 2010/01 Nov 2010\*

To be Sub Master Tech Opto Ele

Narayan Singh Dham (JC-759970M), 01 Apr 2011

To be Sub Auto Tech Engr Eqpt

Shri Ram Gurjar (JC-762824X), 12 Feb 2011/07 Dec 2010\*

To be Sub Ptr & Dectr

Lal Bahadur Patel (JC-763178X), 01 Jul 2011

To be Sub Welder

Birender Singh (JC-763261P), 01 Jul 2011

Dharam Deo Ray (JC-763325P), 01 Jul 2011

To be Sub Master Tech Elect

Balaji V K (JC-759968P), 01 May 2011

To be Sub Master Tech B Veh

Shyam Singh (JC-758361W), 14 Jun 2011/01 May 2011\*

Anna Durai S S (JC-759939A), 01 Jul 2011

Hayat Singh (JC-759953M), 01 Jul 2011

Narendr Singh (JC-759947Y), 29 Jun 2011/01 Jun 2011\*

Ranjan T C (JC-759955K), 01 Jul 2011

Shiv Darshan Tripathi (JC-759966A), 01 Jul 2011

Md Rafikul Islam (JC-759969N), 01 Jul 2011

Jai Narayan Mishra (JC-759946W), 01 Jun 2011

To be Sub Auto Tech Elect B Veh

Lallan Prasad (JC-763864L), 01 Jun 2011/01 Sep 2010\*

To be Sub Artzn Wood Work

Namo Kumar Choudhary (JC-762808A), 20 Jun 2011/01 Jun 2011\*

To be Sub Armt Tech AFV AD

Nanku Prasad (JC-763735L), 01 Jun 2011/01 Sep 2010\*

HMT to be Nb Sub Tech (SA)

John Mathew (No. 14604217P now JC-766102H), 14 May 2011/01 Apr 2011\*

Ram Sakha Patel (No. 14604294K now JC-766103L), 03 Jun 2011/01 Apr 2011\*

Mahesh Pal (No. 14603503K now JC-766097H), 18 May 2011/01 Apr 2011\*

Boota Singh (No. 14602625F now JC-766129A), 13 May 2011/01 Apr 2011\*

HMT To be Nb Sub Clk (SD)

Pratap Singh (No. 14596842Y now JC-766182L), 01 Jun 2011

Mahesh Kumar Gaur (No. 14596855W now JC-766183N), 01 Jun 2011

Ajay Kumar (No. 14597120Y now JC-766186F), 01 Jun 2011

Ranjit Singh (No. 14596907F now JC-766185Y), 01 Jun 2011

Yogendra Pal (No. 14596862M now JC-766184W), 01 Jun 2011

Hav to be Nb Sub SKT

Dalip Kumar Singh (No. 14614039L now JC-766124F), 08 Jun 2011/01 Apr 2011\*

M Vijayan (No. 14614213M now JC-766125K), 01 Jun 2011

Prabir Kumar Mandal (No. 14613921M now JC-766126M), 01 Jun 2011

## Hav to be Nb Sub DW

Ram Pravesh Sharma (No. 14591413A now JC-765976K),  
01 Jun 2011

Gordhan Ram Dudee (No. 14591747H now JC-765974Y),  
01 Jun 2011

## Hav to be Nb Sub Opr &amp; Dvr (REC)

Yogender Nath (No. 14589625A now JC-766203W),  
01 Jul 2011

Paras Nath Prasad (No. 14587772K now JC-766120L),  
17 Jun 2011/01 Jun 2011\*

Binod Kumar Rout (No. 14587950F now JC-766201L),  
01 Jul 2011

Bhikhari Mahto (No. 14587955A now JC-766200H),  
13 Jun 2011/01 Jun 2011\*

Anil Kumar Keshri (No. 14587781L now JC-766191H),  
11 Jun 2011/01 Jun 2011\*

Shri Prabesh (No. 14589804A now JC-766199Y), 08 Jun  
2011/01 Jun 2011\*

Sangram Lal (No. 14588034M now JC-766118N), 01 Jun  
2011

Suresh Chandra (No. 14588625N now JC-766192P),  
27 Jun 2011/01 Jun 2011\*

## To be Sub Maj Support Staff (ER)

Sub Yakoob Akli Khan (JC-756217H), 28 Jun 2011/  
01 May 2011\*

## To be Sub Maj Artzn Metallurgy

Sub Gobinda Prasad Ghosh (JC-756952Y), 07 Jul 2011/  
01 Jul 2011\*

## To be Sub RT (Pandit)

Nb Sub Nitya Nand Mishra (JC-754517L), 01 Jul 2011

\*Gtd ante dated seniority

N K KASHMIRA  
Under Secy

## AIR BRANCH

No. 434, dated 1st September 2011—The President is  
pleased to make the following promotions :—

## JWOs to Sub WOs

613923 WO Ram Kumar, Ach GD, 01 May 2009

614355 WO Rajendra Pradsad Singh, Ach GD, 15 Aug  
2009

614404 WO Daniel Rajan, Ach GD, 01 May 2009

614438 WO Daroga Sahu, Ach GD, 31 Aug 2009

614809 WO Ramesh Prasad, Ach GD, 15 Aug 2009

618042 WO Shankar Chowdhury, Ach GD, 01 May 2009

619429 WO Kummar Kapil Deo Narayan Singh, Ach GD,  
19 Aug 2009

620496 WO Nand Kishor Prasad, Ach GD, 09 Dec 2007

620829 WO Vijay Kishanrao Jadhav, Ach GD, 02 Sep 2009

622100 WO Babu Vallaparampil Joseph, Ach GD, 31 Aug  
2009

622933 WO Purusottam Rai, Ach GD, 21 Dec 2008

627367 WO Manoj Kumar Srivastava, Ach GD, 23 Dec  
2008

628428 WO Awadesh Kumar Pandey, Ach GD, 23 Dec  
2008

632791 WO Binod Prasad, Ach GD, 19 Aug 2009

642115 WO Indra Deo Prasad Yadav, Ach GD, 21 Aug  
2009

644661 WO Laxman Bhagat, Ach GD, 19 Aug 2009

645077 WO Suresh Chand, Ach GD, 01 May 2009

645241 WO Bhim Sen Singh, Ach GD, 15 Aug 2009

645325 WO Shive Narayan, Ach GD, 15 Aug 2009

645889 WO Kunja Bihari Sahu, Ach GD, 21 Dec 2008

646919 WO Shri Narain Singh, Ach GD, 19 Aug 2009

646947 WO Ram Janam Singh, Ach GD, 02 Sep 2009

646968 WO Sachida Nand Singh, Ach GD, 31 Aug 2009

647596 WO Amresh Pradhan, Ach GD, 07 Dec 2007

647725 WO Mritunjay Tiwari, Ach GD, 07 Dec 2007

647837 WO Ram Shiromani Singh Bhadoria, Ach GD,  
07 Dec 2007

647841 WO Mahendra Swaroop Dixit, Ach GD, 31 Aug  
2009

648722 WO Pradeep Kumar Puri, Ach GD, 02 Sep 2009

648794 WO Waykule Babasaheb Vithoba, Ach GD, 15 Dec  
2008

649268 WO Pane Lal, Ach GD, 15 Dec 2008

649367 WO S G Khaja, Ach GD, 15 Dec 2008

649531 WO Sunil Kumar Dutt, Ach GD, 15 Dec 2008

649751 WO Surinder Kumar, Ach GD, 15 Dec 2008

649754 WO Vikas Chandra Tripathi, Ach GD, 06 Sep 2009

659678 WO V Kuttan Nair, Ach GD, 07 Dec 2007

- 670172 WO Nirmal Chandra Das, Ach GD, 15 Dec 2008
- 670197 WO Debendra Kumar Maharana, Ach GD, 06 Sep 2009
- 672110 WO Maya Shankar Singh, Ach GD, 23 Dec 2008
- 672119 WO Vinod Kumar Singh, Ach GD, 19 Dec 2008
- 672274 WO Nilamani Puhan, Ach GD, 17 Dec 2008
- 676103 WO Kawaljit Singh Bhasin, Ach GD, 19 Dec 2008
- 683206 WO Bir Singh Jhajria, Ach GD, 23 Dec 2008
- 659797 WO Pabitra Sarkar, AF Fit, 24 Jan 2009
- 659855 WO Vijay Kumar Gupta, AF Fit, 22 Jan 2009
- 659963 WO Rattan Singh, AF Fit, 24 Jan 2009
- 659987 WO Gadadhar Pradhan, AF Fit, 20 Jan 2009
- 660722 WO Shree Niwas, AF Fit, 18 Jan 2009
- 661240 WO Deo Niranjan, AF Fit, 18 Jan 2009
- 661452 WO Parshuram Prasad Yadawa, AF Fit, 07 Feb 2009
- 661464 WO Suresh Prasad, AF Fit, 07 Feb 2009
- 661476 WO Shiv Chandra Pd Singh, AF Fit, 07 Feb 2009
- 661561 WO Udai Narayan Tiwari, AF Fit, 07 Feb 2009
- 661708 WO Ramanand Saini, AF Fit, 11 Feb 2009
- 662028 WO Arvind Kumar, AF Fit, 16 Jan 2009
- 662115 WO Arun Kumar Mukhopadhyay, AF Fit, 09 Feb 2009
- 665107 WO Shivje Gupta, AF Fit, 11 Feb 2009
- 665221 WO Pratap Singh, AF Fit, 03 Feb 2009
- 666174 WO Babu Lal Soodan, AF Fit, 03 Feb 2009
- 666662 WO Mohar Singh Karwasra, AF Fit, 24 Jan 2009
- 666706 WO Dhruva Kumar Singh, AF Fit, 02 Nov 2006
- 667010 WO Singh Himmat, AF Fit, 02 Nov 2006
- 667424 WO Ashok Kumar Sharma, AF Fit, 02 Nov 2006
- 667427 WO Kallu Ram Verma, AF Fit, 02 Nov 2006
- 667473 WO Manmohan Mahanta, AF Fit, 02 Dec 2006
- 668022 WO Pirthvi Pal Singh Sabharwal, AF Fit, 05 Feb 2009
- 668024 WO Narendra Kumar Goswami, AF Fit, 02 Dec 2006
- 668311 WO Ajay Kumar, AF Fit, 02 Dec 2006
- 668725 WO Sanjay Kumar Singh, AF Fit, 02 Dec 2006
- 668955 WO Suresh Kumar, AF Fit, 26 Jan 2009
- 668969 WO Rajendra Singh Malik, AF Fit, 02 Dec 2006
- 668988 WO Atul Kumar, AF Fit, 02 Dec 2006
- 669208 WO Raj Pal Singh, AF Fit, 22 Sep 2007
- 669257 WO Bhosale Suresh Vinayakrao, AF Fit, 02 Jan 2007
- 669269 WO Mulla Shikandar Babalal, AF Fit, 02 Jan 2007
- 669387 WO Rajive Kumar Saxena, AF Fit, 22 Sep 2007
- 669686 WO Baij Nath Sharma, AF Fit, 26 Jan 2009
- 675214 WO Chaudhury Rama Kanta, AF Fit, 28 Jan 2009
- 676243 WO Ganesh Chhetry, AF Fit, 22 Sep 2007
- 676500 WO Man Singh, AF Fit, 14 Jan 2009
- 676819 WO Ashok Kumar Singh, AF Fit, 30 Jan 2009
- 676985 WO Naresh Kumar, AF Fit, 22 Sep 2007
- 677265 WO Neer Singh Ahrodia, AF Fit, 24 Sep 2007
- 677293 WO Brijesh Vikram Singh, AF Fit, 14 Jan 2009
- 677420 WO Uday Narayan Sharma, AF Fit, 14 Jan 2009
- 677544 WO Ashok Kumar, AF Fit, 30 Jan 2009
- 677623 WO Anil Kumar Sharma, AF Fit, 05 Feb 2009
- 678168 WO Mohinder Singh, AF Fit, 01 Feb 2009
- 621208 WO Amarjit Singh Ghotra, AF SO, 03 Aug 2008
- 621590 WO Raghupatruni Rama Rao, AF SO, 07 Mar 2009
- 633540 WO Suresh Prasad, AF SO, 01 Aug 2009
- 633660 WO Lal Singh panwar, AF SO, 01 Nov 2007
- 633694 WO Ram Pravesh Trivedi, AF SO, 01 Nov 2007
- 633802 WO Karam Jit Kumar, AF SO, 01 Aug 2009
- 633823 WO Nitya Nand Pandey, AF SO, 03 May 2007
- 633832 WO Saranjit Singh, AF SO, 03 May 2007
- 633979 WO Shree Kant Sah, AF SO, 01 Aug 2008
- 633980 WO Prahlad Pandey, AF SO, 01 Aug 2008
- 634152 WO Prabhjat Kumar Sharma, AF SO, 05 May 2007
- 634375 WO Dipak Paul, AF SO, 01 Aug 2009
- 634421 WO Vidya Shankar Tiwary, AF SO, 01 Aug 2009
- 634676 WO Ram Janam Singh, AF SO, 01 Feb 2009
- 634785 WO Kamta Prasad, AF SO, 01 Aug 2009
- 635442 WO Prabin Kumar Saikia, AF SO, 05 Mar 2009
- 635506 WO Ravendra Singh, AF SO, 01 Mar 2009

- 635591 WO Krishna Chandra Senapati, AFSO, 03 Mar 2009
- 636371 WO Jitendra Singh, AFSO, 01 Aug 2009
- 636662 WO Chandra Shekhar Dubey, AFSO, 01 Nov 2009
- 637295 WO Arun Das, AFSO, 03 Nov 2007
- 637935 WO Surender Singh, AFSO, 01 Nov 2009
- 667112 WO Shankar Sharan, AFSO, 05 Nov 2007
- 667910 WO Sajjan Singh Yadav, AFSO, 01 Jun 2008
- 668967 WO Krishan Chand Rana, AFSO, 01 Jan 2010
- 669480 WO Srinibas Das, AFSO, 01 Feb 2009
- 669997 WO Onkar Singh, AFSO, 05 Mar 2009
- 675004 WO Surinder Mohan Mehta, AFSO, 01 Jan 2010
- 614328 WO Sudip Ranjan Debroy, Cat Asst, 14 Oct 2007
- 614598 WO Mohammad Kamaluddin Khan, Cat Asst, 16 Oct 2007
- 623715 WO Panki Pillai Sukumaran, Cat Asst, 08 Oct 2007
- 634024 WO Ajaypal Singh, Cat Asst, 01 Nov 2008
- 645718 WO Venugopalan Munu Swamy, Cat Asst, 10 Oct 2007
- 646546 WO Ganesh Biswas, Cat Asst, 01 Nov 2008
- 647089 WO Ram Asheray, Cat Asst, 01 Nov 2008
- 647216 WO Mohan Lal Ranwan, Cat Asst, 12 Oct 2007
- 647546 WO Kumer Dan Charan, Cat Asst, 01 Nov 2008
- 647839 WO Ghura Chauhan, Cat Asst, 03 Jun 2007
- 648359 WO Satayabir Singh Yadav, Cat Asst, 02 Dec 2008
- 670210 WO Kapil Deo Prasad, Cat Asst, 13 Oct 2009
- 670786 WO Sriman Narain Rai, Cat Asst, 13 Oct 2009
- 671792 WO Shivshankar Prasad Sudhanshu, Cat Asst, 13 Oct 2009
- 612841 WO Tale Ram, Clk Accts, 12 Jun 2009
- 614645 WO Surender Kumar, Clk Accts, 12 Jun 2009
- 614937 WO Bharat Singh Yadav, Clk Accts, 12 Jun 2009
- 645761 WO C K Keshava Das, Clk Accts, 12 Jun 2009
- 645769 WO Ram Prakash, Clk Accts, 12 Jun 2009
- 646235 WO Hrushu Kesh Behera, Clk Accts, 12 Jun 2009
- 646922 WO Hirday Ram Yadav, Clk Accts, 12 Jun 2009
- 647565 WO Vyas Mishra, Clk Accts, 14 Jun 2009
- 647792 WO Umakanta Pati, Clk Accts, 14 Jun 2009
- 648089 WO Anjani Kumar Singh, Clk Accts, 14 Jun 2009
- 648491 WO Govind Ram Choudhary, Clk Accts, 14 Jun 2009
- 648647 WO Barun Bikash Dhar, Clk Accts, 16 Jun 2009
- 648747 WO Kanwar Singh, Clk Accts, 16 Jun 2009
- 648991 WO Dinesh Kumar, Clk Accts, 16 Jun 2009
- 649017 WO Mangey Ram Verma, Clk Accts, 16 Jun 2009
- 672001 WO Anil Kumar Sharma, Clk Accts, 16 Jun 2009
- 672149 WO Patil Suresh Mansaram, Clk Accts, 16 Jun 2009
- 672331 WO Ashok Nath Jha, Clk Accts, 01 Jul 2009
- 672520 WO Ram Prasad Mourya, Clk Accts, 01 Jul 2009
- 672815 WO Suresh Pal, Clk Accts, 01 Oct 2009
- 672938 WO Chandra Shekhar Lohani, Clk Accts, 01 Oct 2009
- 673934 WO Harish Chandra Rikhari, Clk Accts, 01 Oct 2009
- 674378 WO Jagat Narayan, Clk Accts, 01 Oct 2009
- 674510 WO Bishamber Dass, Clk Accts, 01 Oct 2009
- 612428 WO Satpal Singh Shrawat, Clk GD, 01 Jan 2009
- 612933 WO Sardar Mall, Clk GD, 05 May 2009
- 613941 WO Prakash Chandra, Clk GD, 13 Apr 2009
- 613947 WO Jai Narain Singh Bhadauria, Clk GD, 13 Apr 2009
- 614186 WO Jai Singh, Clk GD, 13 Apr 2009
- 614326 WO Prafulla Das, Clk GD, 13 Apr 2009
- 614511 WO Ramesh Chandra Misra, Clk GD, 01 Jan 2009
- 614710 WO Krishnaprabha Padmanabhan, Clk GD, 13 Apr 2009
- 628443 WO Markandey Singh, Clk GD, 01 Dec 2008
- 642767 WO Shree Ram Singh, Clk GD, 13 Apr 2009
- 645216 WO Siya Ram Sharma, Clk GD, 13 Apr 2009
- 645488 WO Potshang Bam Binod Singh, Clk GD, 01 Jan 2009
- 645711 WO Bhagirath Mal, Clk GD, 13 Apr 2009
- 646363 WO Dinesh Kumar Dixit, Clk GD, 13 Apr 2009
- 646418 WO Sohanaram, Clk GD, 13 Apr 2009
- 646525 WO Sheo Sharan Prasad, Clk GD, 13 Apr 2009
- 646963 WO Achuta Nand Malakar, Clk GD, 29 Apr 2009
- 647281 WO Md Alauddin Ansari, Clk GD, 01 Jan 2009
- 647467 WO Abdhesh Prasad, Clk GD, 29 Apr 2009

- 647470 WO Rama Kant Singh, Clk GD, 29 Apr 2009
- 647945 WO Deben Deka, Clk GD, 29 Apr 2009
- 648093 WO Tarkeshwar Prasad Singh, Clk GD, 04 Apr 2008
- 648098 WO Rama Shanker Mishra, Clk GD, 03 May 2009
- 648127 WO Angad Tiwari, Clk GD, 29 Apr 2009
- 648216 WO Rakesh Babu Chaturvedi, Clk GD, 03 May 2009
- 648223 WO Jaiendra Kumar Verma, Clk GD, 29 Apr 2009
- 648252 WO Santosh Kumar Sharma, Clk GD, 29 Apr 2009
- 648278 WO Nandan Chakraborty, Clk GD, 04 Apr 2008
- 648315 WO Mahendra Prasad, Clk GD, 29 Apr 2009
- 648317 WO Ajay Kumar, Clk GD, 29 Apr 2009
- 648355 WO Rakesh Babu Pandey, Clk GD, 29 Apr 2009
- 648375 WO Potnuru Annaji Rao, Clk GD, 29 Apr 2009
- 648428 WO Inamul Haque, Clk GD, 03 May 2009
- 648495 WO Chandra Shekher Dwivedi Munna, Clk GD, 03 May 2009
- 648526 WO Baldev Raj Sharma, Clk GD, 01 Mar 2009
- 648527 WO Jaiprakash Katira, Clk GD, 05 May 2009
- 648607 WO Bishvajit Singh, Clk GD, 04 Apr 2008
- 648612 WO Pranay Kumar Das, Clk GD, 05 May 2009
- 648613 WO Shambhu Bhushan Upadhyay, Clk GD, 05 May 2009
- 648765 WO Subhash Chakraborty, Clk GD, 11 May 2009
- 648771 WO Uttam Kumar Gupta, Clk GD, 11 May 2009
- 648779 WO Puranik Shashikant Sadashiv, Clk GD, 11 May 2009
- 648842 WO Arun Kumar, Clk GD, 11 May 2009
- 649015 WO Arvind Kumar Prasad, Clk GD, 11 May 2009
- 649100 WO Raj Kishore Thakur, Clk GD, 04 Apr 2008
- 649349 WO Sudhangsu Rudra Pal, Clk GD, 13 May 2009
- 649366 WO NH Chandran, Clk GD, 13 May 2009
- 649555 WO Kamlesh Kumar Roy, Clk GD, , Clk GD, 04 Apr 2008
- 649722 WO Surya Narayan Pandey, Clk GD, 13 May 2009
- 649753 WO Sheo Shanker Verma, Clk GD, 13 May 2009
- 649924 WO Mohar Singh, Clk GD, 04 Apr 2008
- 649935 WO Sudipta Sengupta, Clk GD, 13 May 2009
- 670035 WO Rajendra Prosad Tiwari, Clk GD, 04 Apr 2008
- 670372 WO Murlidhar Suthar, Clk GD, 13 May 2009
- 670451 WO Thingom Nabakumar Singh, Clk GD, 13 May 2009
- 670453 WO Taibuddin Ahmed, Clk GD, 13 May 2009
- 670462 WO Puran Singh Rawat, Clk GD, 04 Apr 2008
- 670472 WO Ram Murti Prasad, Clk GD, 15 May 2009
- 670547 WO Joshi Mahesh Purushottam, Clk GD, 04 Apr 2008
- 670567 WO Satendra Narayan Tripathi, Clk GD, 15 May 2009
- 670665 WO Harbans Singh Chauhan, Clk GD, 04 Apr 2008
- 670680 WO Taranisen Sahu, Clk GD, 15 May 2009
- 670893 WO Hans Raj, Clk GD, 15 May 2009
- 670907 WO Raj Kumar, Clk GD, 15 May 2009
- 670945 WO Birendra Pandey, Clk GD, 04 Apr 2008
- 671148 WO Ram Narain Singh, Clk GD, 01 Jun 2009
- 671269 WO Hiralal, Clk GD, 04 Apr 2008
- 671270 WO Raghu Raj Singh Yadav, Clk GD, 01 Jun 2009
- 671299 WO Rambir Singh, Clk GD, 04 Apr 2008
- 671406 WO Lambodar Medhi, Clk GD, 01 Jun 2009
- 671407 WO Niranjana Adhikary, Clk GD, 01 Jun 2009
- 671464 WO Jagdip Singh Rana, Clk GD, 04 Apr 2008
- 671773 WO Braj Lal, Clk GD, 04 Apr 2008
- 671892 WO Arvind Kumar Mishra, Clk GD, 04 Apr 2008
- 671895 WO Ashok Kumar Srivastav, Clk GD, 01 Jun 2009
- 671897 WO Ram Swarup, Clk GD, 04 Apr 2008
- 671949 WO Ram Krishna Sharma, Clk GD, 01 Jun 2009
- 671957 WO Kedar Nath, Clk GD, 01 Jun 2009
- 671967 WO Ashok Kumar, Clk GD, 06 Apr 2008
- 671977 WO Balkrishan, Clk GD, 06 Apr 2008
- 672028 WO Udho Narayan Shukla, Clk GD, 06 Apr 2008
- 672047 WO Chandra Prakash Sharma, Clk GD, 06 Apr 2008
- 672187 WO Brajesh Kumar, Clk GD, 01 Dec 2008
- 672188 WO Vishram Bali, Clk GD, 06 Apr 2008

- 672189 WO Ashok Kumar Singh, Clk GD, 06 Apr 2008
- 672212 WO Viswakumaran K V, Clk GD, 06 Apr 2008
- 672693 WO Chandra Shekar, Clk GD, 01 Dec 2008
- 672694 WO Sujender Singh Hooda, Clk GD, 01 Dec 2008
- 672704 WO Hamendra Kumar Gupta, Clk GD, 01 Dec 2008
- 672759 WO Anirudhan S M, Clk GD, 01 Dec 2008
- 676195 WO Venkata Subba Rao Chirakala, Clk GD, 01 Dec 2008
- 639803 WO Yash Paul, Crypto, 01 Jun 2009
- 639804 WO Sukhwinder Singh, Crypto, 01 Jun 2009
- 639807 WO Shyama Prasanna Mishra, Crypto, 01 Jun 2009
- 639829 WO Joginder Singh Dahiya, Crypto, 01 Jun 2009
- 639848 WO Singh Sharwan, Crypto, 01 Jun 2009
- 674678 WO Bir Singh, Crypto, 03 Sep 2008
- 675972 WO Dileep Kumar Thakur, Crypto, 01 Jun 2009
- 737993 WO Virendra Bhusal, Edn Instr, 04 Jul 2009
- 770141 WO Johnson Kuzhikandathil Joseph, Edn Instr, 04 Jul 2009
- 771084 WO Biresh Chaubey, Edn Instr, 04 Jul 2009
- 771091 WO Wagh Kishor Bajirao, Edn Instr, 04 Jul 2009
- 772319 WO Mukti Kanta Das, Edn Instr, 04 Jul 2009
- 772326 WO Manoj Kumar Barik, Edn Instr, 04 Jul 2009
- 773607 WO Yagiyadeep Sharma, Edn Instr, 04 Jul 2009
- 774884 WO R Prasanth, Edn Instr, 04 Jul 2009
- 796424 WO Chintamani Palai, Edn Instr, 04 Jul 2009
- 796902 WO Ashwani Kumar Singh Rajput, Edn Instr, 04 Jul 2009
- 797409 WO Shri Krishan Birhman, Edn Instr, 04 Jul 2009
- 680336 WO Gyan Singh Yadav, Elect Fit, 01 Oct 2008
- 680452 WO Kardam Jaswant Singh, Elect Fit, 02 Sep 2007
- 681797 WO Prasadhan Narayan Rai, Elect Fit, 24 Dec 2008
- 682595 WO Jiban Chandra Sarkar, Elect Fit, 26 Dec 2008
- 682775 WO Kamal Lochan Nayak, Elect Fit, 26 Dec 2008
- 682833 WO Shubhrendu Shekhar Das, Elect Fit, 26 Dec 2008
- 660002 WO Nand Kishore Chaturbedi, Eng Fit, 02 Jul 2007
- 660020 WO Ravindra Kumar Sharma, Eng Fit, 02 Jul 2007
- 660191 WO Om Prakash Prasad, Eng Fit, 02 Jul 2007
- 660338 WO Paras Nath Pandey, Eng Fit, 02 Jul 2007
- 660384 WO Krishan Chander, Eng Fit, 02 Aug 2007
- 660536 WO Ravindra Pratap Singh, Eng Fit, 02 Aug 2007
- 661820 WO Rajbir Singh Bansal, Eng Fit, 02 Jun 2007
- 662711 WO Lal Chand, Eng Fit, 02 Jun 2007
- 665163 WO Rajesh Pal, Eng Fit, 02 Jan 2007
- 667922 WO Ravi Kant Gupta, Eng Fit, 02 Jan 2007
- 668534 WO Bibhu Datta Mishra, Eng Fit, 02 Jan 2007
- 668770 WO M Rahim, Eng Fit, 02 Feb 2007
- 668886 WO Manmohan Choudhury, Eng Fit, 02 Jan 2007
- 669098 WO Upendra Narayan Singh, Eng Fit, 02 Apr 2007
- 669108 WO Ashok Kumar Behera, Eng Fit, 02 Feb 2007
- 669372 WO Kamal Kishore Agnihotri, Eng Fit, 02 Jun 2007
- 676355 WO Babu C P N, Eng Fit, 02 May 2007
- 676723 WO Natarajan R, Eng Fit, 02 Jun 2007
- 677657 WO Hare Kishan, Eng Fit, 02 May 2007
- 611359 WO Badar Singh Malik, Eqpt Asst, 19 Sep 2005
- 612474 WO Ranjan Lal Chaki, Eqpt Asstt, 25 Jun 2008
- 613115 WO Sudama Prasad, Eqpt Asstt, 25 Jun 2008
- 613614 WO Kirpal Singh Rapial, Eqpt Asstt, 05 Jul 2008
- 613835 WO Ganpat Singh, Eqpt Asstt, 25 Jun 2008
- 613879 WO Jugraj Singh Sidhu, Eqpt Asstt, 01 Jul 2008
- 613964 WO Ishtiaq Rasool, Eqpt Asstt, 25 Jun 2008
- 614138 WO Prakash Singh, Eqpt Asstt, 05 Jul 2008
- 614356 WO Sanjaya Kumar Ray, Eqpt Asstt, 25 Jun 2008
- 614381 WO Ganga Ram Sharma, Eqpt Asstt, 25 Jun 2008
- 614526 WO Pratosh Bhattacharjee, Eqpt Asstt, 27 Jun 2008
- 614576 WO Bijayakumar Samantaray, Eqpt Asstt, 25 Jun 2008
- 614796 WO Suresh Chandra Srichana, Eqpt Asstt, 25 Jun 2008
- 636372 WO Ram Narayan Prasad, Eqpt Asstt, 11 Jul 2008
- 644938 WO Jitendra Kumar Sharma, Eqpt Asstt, 05 Jul 2008

- 645276 WO Kunwar Pal, Eqpt Asstt, 25 Jun 2008
- 645907 WO Iqbal Singh, Eqpt Asstt, 01 Jul 2008
- 645951 WO Rabindranath Mallick, Eqpt Asstt, 01 Jul 2008
- 645976 WO Om Prakash Verma, Eqpt Asstt, 01 Jul 2008
- 646284 WO Dasarath Prasad Singh, Eqpt Asstt, 01 Jul 2008
- 646376 WO Ramprakash Tripathi, Eqpt Asstt, 01 Jul 2008
- 646456 WO Suresh Chander Atri, Eqpt Asstt, 01 Jul 2008
- 646885 WO Tung Nath Tiwari, Eqpt Asstt, 01 Jul 2008
- 646936 WO Lalita Prasad Yadav, Eqpt Asstt, 01 Jul 2008
- 646972 WO Bhola Singh Priadarshi, Eqpt Asstt, 03 Jul 2008
- 647024 WO Chandra Kant Pandey, Eqpt Asstt, 03 Jul 2008
- 647173 WO Ramphal Saroha, Eqpt Asstt, 03 Jul 2008
- 647341 WO Raj Mohan, Eqpt Asstt, 03 Jul 2008
- 647480 WO Vidya Nand Singh, Eqpt Asstt, 03 Jul 2008
- 647507 WO K Kalimuthu, Eqpt Asstt, 23 Jun 2008
- 647543 WO Hema Ram Choudhary, Eqpt Asstt, 03 Jul 2008
- 647701 WO Mannava Vijay Sarathi, Eqpt Asstt, 09 Jul 2008
- 647742 WO Ambika Prasad, Eqpt Asstt, 03 Jul 2008
- 647826 WO Prabhash Narain Upadhyay, Eqpt Asstt, 05 Jul 2008
- 647827 WO Ganga Ram, Eqpt Asstt, 05 Jul 2008
- 648108 WO Bisheshwar Prasad Singh, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007
- 648139 WO Ramesh Chand Sharma, Eqpt Asstt, 05 Jul 2008
- 648221 WO Lalit Kumar Kulve, Eqpt Asstt, 09 Jul 2008
- 648240 WO Gurcharan Singh, Eqpt Asstt, 09 Jul 2008
- 648256 WO Swapan Kumar Chakraborty, Eqpt Asstt, 05 Jul 2008
- 648325 WO Sashi Bhushan, Eqpt Asstt, 05 Jul 2008
- 648326 WO Mukhdeo Singh, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007
- 648327 WO Shambhu Nath Dubey, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007
- 648368 WO Gopi Krishnan, Eqpt Asstt, 05 Jul 2008
- 648382 WO Santosh Kumar Sahoo, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007
- 648405 WO Vipin Kumar Bhanot, Eqpt Asstt, 07 Jul 2008
- 648408 WO Hari Kesh, Eqpt Asstt, 05 Jul 2008
- 648503 WO Bijoy Kumar Dalai, Eqpt Asstt, 05 Jul 2008
- 648614 WO Ram Kumar Yadav, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007
- 648910 WO Mander Singh Sidhu, Eqpt Asstt, 07 Jul 2008
- 648911 WO Balwinder Singh Bagel, Eqpt Asstt, 07 Jul 2008
- 648916 WO Jaswinder Singh Chalotra, Eqpt Asstt, 15 Jun 2008
- 648985 WO Binod Kumar, Eqpt Asstt, 07 Jul 2008
- 649033 WO Roopa Ram Choudhary, Eqpt Asstt, 09 Jul 2008
- 649046 WO Anadi Charan Sahu, Eqpt Asstt, 09 Jul 2008
- 649302 WO Siyaram Shukla, Eqpt Asstt, 09 Jul 2008
- 649303 WO Sanjeet Dubey, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007
- 649307 WO Lal Ji Yadav, Eqpt Asstt, 09 Jul 2008
- 649368 WO Ram Prasad, Eqpt Asstt, 09 Jul 2008
- 649369 WO Chandra Pal Sabita, Eqpt Asstt, 09 Jul 2008
- 649371 WO Mahesh Kumar Gupta, Eqpt Asstt, 09 Jul 2008
- 649402 WO Ravindra Kumar Teotia, Eqpt Asstt, 11 Jul 2008
- 649575 WO Sukesha Barik, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007
- 649580 WO Santosh Kumar Mishra, Eqpt Asstt, 11 Jul 2008
- 649585 WO Gopal Krishna Jaiswal, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007
- 649740 WO Sakti Pada Karmakar, Eqpt Asstt, 13 Jul 2008
- 649774 WO Sharma Ved Prakash, Eqpt Asstt, 23 Jun 2008
- 649789 WO Surendra Kumar Gupta, Eqpt Asstt, 11 Jul 2008
- 649865 WO Bal Bachan Prasad, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007
- 649867 WO Nagendra Pandey, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007
- 649916 WO Mool Singh, Eqpt Asstt, 11 Jul 2008
- 660892 WO Umesh Chandra Sahoo, Eqpt Asstt, 07 Jul 2008
- 670050 WO Kapil Deo Shukla, Eqpt Asstt, 11 Jul 2008
- 670057 WO Prithvi Raj, Eqpt Asstt, 11 Jul 2008
- 670111 WO Birendra Nath Pathak, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007

670131 WO Yogendra Nath Mishra, Eqpt Asstt, 11 Jul 2008  
 670135 WO Sheonath Singh, Eqpt Asstt, 18 Apr 2007  
 670141 WO Raj Nath Misra, Eqpt Asstt, 16 Apr 2007  
 670302 WO Sheikh Ismail, Eqpt Asstt, 13 Jul 2008  
 670353 WO Ram Kishan, Eqpt Asstt, 15 Jun 2008  
 670360 WO Lokesh Chand Goel, Eqpt Asstt, 18 Apr 2007  
 670440 WO Prem Singh, Eqpt Asstt, 18 Apr 2007  
 670493 WO Arvind Kumar Singh, Eqpt Asstt, 15 Jun 2008  
 670832 WO Smruti Ranjan Upadhyay, Eqpt Asstt, 13 Jul 2008  
 670948 WO Chitranjan Kumar, Eqpt Asstt, 18 Apr 2007  
 670981 WO Ram Narayan, Eqpt Asstt, 13 Jul 2008  
 670982 WO Vishwa Nath, Eqpt Asstt, 13 Jul 2008  
 670987 WO Brij Bhushan Singh, Eqpt Asstt, 13 Jul 2008  
 671014 WO Vilas Rao Saheb Jagadale, Eqpt Asstt, 13 Jul 2008  
 671069 WO Phool Singh, Eqpt Asstt, 15 Jul 2008  
 671368 WO Chandra Pal Singh, Eqpt Asstt, 15 Jul 2008  
 671458 WO Nagar Mal Katotra, Eqpt Asstt, 15 Jul 2008  
 671667 WO Duryodhana Dash, Eqpt Asstt, 15 Jul 2008  
 671871 WO Pradip Roy, Eqpt Asstt, 23 Jun 2008  
 671904 WO Ramesh Chandra Arora, Eqpt Asstt, 15 Jun 2008  
 671908 WO Rajiw Lochan Tiwari, Eqpt Asstt, 15 Jul 2008  
 672018 WO Rajendra Singh Rawat, Eqpt Asstt, 15 Jul 2008  
 672019 WO Ravinder Singh Yadav, Eqpt Asstt, 15 Jun 2008  
 672296 WO Ajay Kumar Prasad, Eqpt Asstt, 23 Jun 2008  
 672318 WO Shiv Prasad, Eqpt Asstt, 15 Jun 2008  
 672327 WO Charan Jit Lal, Eqpt Asstt, 15 Jun 2008  
 672500 WO Rakesh Kumar Dwivedi, Eqpt Asstt, 15 Jul 2008  
 672659 WO Kamlesh Kumar Jangira, Eqpt Asstt, 15 Jun 2008  
 676727 WO Kapil Deo Singh, Eqpt Asstt, 23 Jun 2008  
 692425 WO Siby Joseph Anpathinchira, Eqpt Asstt, 31 Oct 2008  
 692609 WO Sushil Kumar Shukla, Eqpt Asstt, 31 Oct 2008

692616 WO Zia Uddin, Eqpt Asstt, 31 Oct 2008  
 692760 WO Suresh Chandra, Eqpt Asstt, 31 Oct 2008  
 693053 WO Rabindra Kumar Mohanty, Eqpt Asstt, 31 Oct 2008  
 676937 WO Manoj Kumar Sinha, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 677442 WO Utlia Padmanabha Rao, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 677564 WO Madho Singh Rawat, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 677841 WO Gopal Singh Rawat, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 678241 WO Rajan Chintaman Potwar, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 678616 WO Amit Singh Yadav, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 696834 WO Akhilesh Kumar Jha, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 696891 WO Chonate House Sasikumar, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 696905 WO Davis Mathew T, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 697479 WO Uttam Kumar Mondal, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 698500 WO Madan Kumar Pandey, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 698568 WO Anil Kumar Parampukattil, Flt Eng, 14 Sep 2008  
 707356 WO Paras Kumar Jha, Flt Sig, 02 Jul 2008  
 707682 WO Sanjay Kumar Gupta, Flt Sig, 02 Jul 2008  
 648618 WO Bijoy Kumar Pandey, GTI, 25 Aug 2009  
 648648 WO Subhrajyoti Kayal, GTI, 25 Oct 2009  
 770022 WO Sree Kumar Sree Kandan, GTI (S), 01 Aug 2009  
 287955 WO Kamala Shankar Upadhyay, IAF (P), 23 Sep 2008  
 617290 WO Dinesh Kumar Dwivedi, IAF (P), 25 Sep 2008  
 617292 WO Chhotey Lal Yadav, IAF (P), 25 Sep 2008  
 618643 WO Lalit Kumar Verma, IAF (P), 25 Sep 2008  
 618678 WO Kuncham Venkata Rama Rao, IAF (P), 25 Sep 2008  
 618744 WO Rakesh Kumar Gupta, IAF (P), 25 Sep 2008  
 618943 WO Udaya Kumar, IAF (P), 25 Sep 2008  
 619134 WO Shaik Khajamiyan, IAF (P), 27 Sep 2008  
 620978 WO Virendra Kumar Sharma, IAF (P), 03 Nov 2010  
 621666 WO Mahendra Pal Singh, IAF (P), 27 Sep 2008  
 621717 WO Santosh Kumar Bajpai, IAF (P), 13 Sep 2008



- 621941 WO Amar Nath Pandey, IAF (P), 03 Oct 2008
- 621942 WO Indal Singh, IAF (P), 29 Sep 2008
- 622201 WO Rabika Ran Singh, IAF (P), 03 Oct 2008
- 622306 WO Ajay Vir Singh, IAF (P), 03 Nov 2010
- 622387 WO Vijay Shekhar, IAF (P), 01 Oct 2008
- 622479 WO Mangal Singh Saini, IAF (P), 01 Oct 2008
- 622486 WO Sekhar Banerjee, IAF (P), 19 Sep 2008
- 623336 WO Bhanwar Lal Choudhary, IAF (P), 13 Sep 2008
- 623711 WO Darbari Lal Kushwaha, IAF (P), 13 Sep 2008
- 624343 WO Jerod Lohora, IAF (P), 13 Sep 2008
- 624723 WO Shah Alom Sarker, IAF (P), 13 Sep 2008
- 624726 WO Ajay Kumar Tripathi, IAF (P), 13 Sep 2008
- 624791 WO Dibakara Beja, IAF (P), 03 Nov 2010
- 625140 WO Arvind Kumar Mishra, IAF (P), 15 Sep 2008
- 625311 WO Rajesh Kumar Bali, IAF (P), 17 Sep 2008
- 625441 WO Satish Chand Tyagi, IAF (P), 03 Nov 2010
- 625684 WO Anant Kumar Mudgal, IAF (P), 05 Nov 2010
- 625830 WO Bhosale Suresh Kuber, IAF (P), 13 Sep 2008
- 626797 WO Jainarain, IAF (P), 19 Sep 2008
- 626906 WO Thakur Tejsingh Ramdas Singh, IAF (P), 05 Nov 2010
- 627169 WO Sarpan Handa, IAF (P), 21 Sep 2008
- 627695 WO Jagdish Singh Chauhan, IAF (P), 21 Sep 2008
- 627869 WO Aditya Prakash Dwivedi, IAF (P), 21 Sep 2008
- 621954 WO Ram Prakash Sharma, Inst Fit, 25 Oct 2009
- 622297 WO Bhanwar Singh Shekhawat, Inst Fit, 29 Oct 2009
- 622559 WO Ram Kamal Prasad, Inst Fit, 29 Oct 2009
- 623164 WO Shashi Bhushan Sinha, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 623928 WO Lal Mohar Prasad, Inst Fit, 02 Nov 2009
- 624651 WO K Santosh Kumar, Inst Fit, 04 Nov 2009
- 625248 WO Umesh Prasad, Inst Fit, 04 Nov 2009
- 625765 WO Triveni Sahai, Inst Fit, 01 Feb 2010
- 626294 WO Rajeshwar Prasad Dwivedi, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 626311 WO Sachidanand Sharma, Inst Fit, 01 Dec 2009
- 626479 WO Birham Parkash, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 626781 WO Ramher, Inst Fit, 01 Dec 2009
- 635322 WO Prem Kumar Dahiya, Inst Fit, 31 Oct 2009
- 635417 WO Sukhwant Singh Randhrwa, Inst Fit, 23 Oct 2009
- 635428 WO Nitya Ran Jan Kumar, Inst Fit, 29 Oct 2009
- 635436 WO Ashok Kumar Singh, Inst Fit, 27 Oct 2009
- 635482 WO Sampat Raj Sharma, Inst Fit, 27 Oct 2009
- 635568 WO Satish Chandra, Inst Fit, 23 Oct 2009
- 635627 WO Ram Lakhan Yadav, Inst Fit, 31 Oct 2009
- 635678 WO Hari Dayal Singh, Inst Fit, 27 Oct 2009
- 635679 WO Om Prakash, Inst Fit, 29 Oct 2009
- 635686 WO Jaishankar Prasad Singh, Inst Fit, 31 Oct 2009
- 635842 WO Bhagwan Mandal, Inst Fit, 29 Oct 2009
- 635845 WO Nitya Nand Jha, Inst Fit, 27 Oct 2009
- 635928 WO Tarun Kumar Kakaty, Inst Fit, 31 Oct 2009
- 637064 WO Sushil Kumar, Inst Fit, 31 Oct 2009
- 638040 WO Rajendra Prasad Srivastava, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 639024 WO Santosh Kumar Srivastava, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 639086 WO Mane Shashikant Jayasingrao, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 639571 WO Satyawan Bhardwaj, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 639588 WO Ishwar Singh Masand, Inst Fit, 01 Dec 2009
- 651228 WO Shenbagam Manickavasagam, Inst Fit, 23 Oct 2009
- 651382 WO Teja Ram Saran, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 651433 WO Nanganure Anand Shankar, Inst Fit, 31 Oct 2009
- 651495 WO Hari Kishore Jha, Inst Fit, 27 Oct 2009
- 651595 WO Surendra Kumar Sah, Inst Fit, 27 Oct 2009
- 653901 WO Krishna Kumar Singh, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 654106 WO Sisir Kumar Nayak, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 654132 WO Ekanath Bhika Bhole, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 680378 WO Satvir Singh Rathaur, Inst Fit, 01 Feb 2010
- 680382 WO Sohanbir Singh Balyan, Inst Fit, 01 Feb 2010
- 680629 WO Rajbir Singh Dalal, Inst Fit, 04 Nov 2009
- 681469 WO Jaydeb Bhowmik, Inst Fit, 01 Feb 2010
- 682015 WO K S Ayyappan, Inst Fit, 21 Oct 2009

- 683351 WO Harmit Singh, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 683595 WO Jai Pal Singh, Inst Fit, 21 Oct 2009
- 621240 WO Virendra Singh, Med Asstt, 15 Jul 2010
- 654562 WO Kuldeep Singh Tanwar, Med Asstt, 02 Apr 2007
- 655294 WO Jagdish Chandra Soni, Med Asstt, 13 Jul 2010
- 655486 WO Harbhajan Gulshan, Med Asstt, 15 Jul 2010
- 655510 WO Ram Akbal Pandey, Med Asstt, 17 Jul 2010
- 655538 WO Babu Lal Darji, Med Asstt, 17 Jul 2010
- 655572 WO Ranendra Nath Sen, Med Asstt, 17 Jul 2010
- 655575 WO Prabhakaran Madhavan, Med Asstt, 19 Jul 2010
- 655596 WO R Ramnath Arunothayan, Med Asstt, 21 Jul 2010
- 655598 WO Suryanarayan Mahto, Med Asstt, 19 Jul 2010
- 655836 WO Manoharan Tharamel Raman, Med Asstt, 23 Jul 2010
- 656077 WO Rajkumar Shah, Med Asstt, 07 Jul 2010
- 656100 WO Nagendra Kumar Srivastav, Med Asstt, 11 Jul 2010
- 656144 WO Jodha Jabbar Singh, Med Asstt, 23 Jul 2010
- 656215 WO Mohan Mishra, Med Asstt, 25 Jul 2010
- 656252 WO Shimpi Madhusudan Kashinath, Med Asstt, 27 Jul 2010
- 656463 WO Anandkrishnan Mele Chirakkil, Med Asstt, 11 Jul 2010
- 656480 WO Shyam Sunder Sharma, Med Asstt, 11 Jul 2010
- 623189 WO Jairam, Met Asstt, 01 Jun 2009
- 623191 WO Ashok Kumar Mishra, Met Asstt, 01 Jun 2009
- 627261 WO Asis Kumar Saha, Met Asstt, 02 Nov 2008
- 627414 WO Haridas T K, Met Asstt, 02 Nov 2008
- 628238 WO Ajay Kumar Verma, Met Asstt, 04 Nov 2008
- 635412 WO Ompal Singh, Met Asstt, 04 Apr 2008
- 635880 WO Rajiv Kumar Shukla, Met Asstt, 04 Apr 2008
- 636661 WO Shyamal Kanti De, Met Asstt, 01 Dec 2008
- 636844 WO Dharani Dhar Talukdar, Met Asstt, 01 Jun 2009
- 637422 WO Rajendra Prasad Pandey, Met Asstt, 02 Sep 2008
- 637423 WO Mukat Singh, Met Asstt, 02 Jun 2008
- 637623 WO Subhash Chander Raina, Met Asstt, 01 Jun 2009
- 666909 WO Jakate Chand Abdul, Met Asstt, 01 Jun 2009
- 669078 WO Anil Kumar Sharma, Met Asstt, 03 Jun 2009
- 669147 WO Akash Dip Prasad, Met Asstt, 04 Sep 2008
- 705835 WO Mam Raj Jangir, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 705885 WO Sudha Kar Rauto, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 705934 WO Vishnu Dayal Mall, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 705940 WO Karunakaran Pillai Anand Kumar, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 705963 WO Som Veer Singh, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 705987 WO Vasu Sivan, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 705989 WO Ramesh Chandar Chhimwal, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 705990 WO Sanjeeva Kumar Singh, MS Fit (L), 01 Apr 2010
- 705992 WO Rabindra Nath Singh, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 705993 WO Birendra Kumar Yadav, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 705998 WO Hoshiar Singh, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 705999 WO Mohmmd Rafik, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 706004 WO Naresh Chandra Shakya, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 706646 WO Ghameswar Kalita, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 706717 WO Shriram Pandit, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 706737 WO Jitendra Kumar, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 706787 WO Suresh Kumar Dayal, MS Fit (L), 01 Dec 2009
- 668793 WO Mohan Bansiji Rekhate, MT Fit, 22 Nov 2009
- 669112 WO Trinatha Charan Pradhan, MT Fit, 22 Nov 2009
- 669118 WO Hemanta Kumar Padhi, MT Fit, 22 Nov 2009
- 669329 WO Gokul Chand Sharma, MT Fit, 22 Nov 2009
- 669357 WO Ranen Basak, MT Fit, 22 Nov 2009
- 676309 WO Yadav Murari Lal, MT Fit, 24 Nov 2009
- 676454 WO Bhabagrah Sutar, MT Fit, 24 Nov 2009
- 677583 WO Dharmendra Singh Chauhan, MT Fit, 24 Nov 2009

- 621536 WO Shri Krishan Mishra, MTD, 12 Jun 2010
- 626506 WO Ravinder Sharma, MTD, 10 Jun 2010
- 626671 WO Bhoj Ram Rajput, MTD, 12 Jun 2010
- 627387 WO Sita Ram Prasad, MTD, 14 Jun 2010
- 623710 WO Radhey Shyam, Musn, 09 Oct 2009
- 626607 WO Yadav Prem Narayan, Musn, 07 Oct 2009
- 628948 WO Dinesh Sharma, Musn, 07 May 2010
- 635014 WO Krishan Kumar Sharma, Photo Fit, 01 Nov 2008
- 636513 WO Akhtar Ali, Photo Fit, 02 Mar 2008
- 650470 WO Medhavi Arya, Photo Fit, 02 Feb 2009
- 650664 WO Maruthathu Joshua Thomas Kutty, Photo Fit, 01 Jun 2009
- 650736 WO Surendra Nath Thakur, Photo Fit, 02 Feb 2009
- 651384 WO Ratna Ram Choudhary, Photo Fit, 01 Dec 2009
- 653271 WO Kartika Chandra Nayak, Photo Fit, 01 May 2009
- 612734 WO Bhanu Pratap Singh, PJI, 03 Mar 2005
- 673592 WO Tapan Kumar Karmakar, Rad Fit, 17 Dec 2010
- 673764 WO Tej Pal, Rad Fit, 21 Dec 2010
- 673871 WO Ghana Shyam Das, Rad Fit, 25 Dec 2010
- 673887 WO Rajpurohit Madan Singh, Rad Fit, 17 Dec 2010
- 673888 WO Pundir Praveen Kumar, Rad Fit, 25 Dec 2010
- 673895 WO Chaudhary Hema Ram, Rad Fit, 17 Dec 2010
- 673958 WO Naresh Kumar Verma, Rad Fit, 25 Dec 2010
- 674067 WO Hari Singh, Rad Fit, 19 Dec 2010
- 674099 WO Murli Dhar Devnani, Rad Fit, 27 Dec 2010
- 674208 WO Om Prakash Srivastva, Rad Fit, 27 Dec 2010
- 674218 WO Chandra Mohan Yadav, Rad Fit, 31 Dec 2010
- 674222 WO Dharendra Sharma, Rad Fit, 19 Dec 2010
- 674263 WO Faguni Sahani, Rad Fit, 19 Dec 2010
- 674324 WO Dharendra Kumar Mishra, Rad Fit, 19 Dec 2010
- 674339 WO Vijay Kumar Upadhyay, Rad Fit, 27 Dec 2010
- 674365 WO Hanamantappa Talakatnal, Rad Fit, 27 Dec 2010
- 674472 WO Golak Kumar Panda, Rad Fit, 19 Dec 2010
- 674582 WO Sanjeev Kumar Gupta, Rad Fit, 23 Dec 2010
- 674767 WO Phool Singh, Rad Fit, 25 Dec 2010
- 674896 WO Ali Akbar Hawari, Rad Fit, 25 Dec 2010
- 674904 WO Prasant Kumar Dutta, Rad Fit, 25 Dec 2010
- 674979 WO Joydev De Sarkar, Rad Fit, 27 Dec 2010
- 680101 WO Sanjay Kumar Jaiswal, Rad Fit, 15 Dec 2010
- 680142 WO Prem Kumar Sinha, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 680389 WO Ramkumar Tahlan, Rad Fit, 25 Dec 2010
- 680601 WO Tika Ram Dagar, Rad Fit, 25 Dec 2010
- 680609 WO Anil Kumar, Rad Fit, 25 Dec 2010
- 680620 WO Surendera Kumar Narula, Rad Fit, 25 Dec 2010
- 680656 WO Abhay Singh Yadav, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 683665 WO Kayamudden Ansari, Rad Fit, 15 Dec 2010
- 683857 WO Dibya Srasta Sahu, Rad Fit, 15 Dec 2010
- 684660 WO Vishnu Kumar Awasthi, Rad Fit, 15 Dec 2010
- 684697 WO Sushil Kumar Verma, Rad Fit, 15 Jul 2009
- 684997 WO Patita Paban Sahoo, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 690278 WO Nirmal Kumar Dey, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 690670 WO Vinod Chandra, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 690881 WO Vinod Kumar Verma, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 691566 WO Manik Chandra Dubey, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 691902 WO Anil Kumar Sharma, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 691957 WO Durga Prasad Tripathi, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 692134 WO Lal Bahadur Singh, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 692159 WO Gauri Shanker Shahi, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 692493 WO Murali Perinchira Ramankutty, Rad Fit, 29 Dec 2010
- 621106 WO Jitender Singh, Rdo Fit, 03 Feb 2010
- 621482 WO Ramesh Chander Khandodiya, Rdo Fit, 03 Feb 2010
- 622528 WO Prodip Kumar Singha, Rdo Fit, 01 Dec 2009
- 623961 WO Surendra Nath Mishra, Rdo Fit, 01 Oct 2009
- 634635 WO Kanwar Singh, Rdo Fit, 03 Feb 2010
- 634653 WO Gurudeo Prasad, Rdo Fit, 03 Feb 2010
- 634670 WO Adarsh Kumar Khullar, Rdo Fit, 05 Feb 2010
- 634827 WO Snigdhamay Biswas, Rdo Fit, 03 Feb 2010
- 634839 WO Ramratten Gaur, Rdo Fit, 03 Feb 2010
- 634983 WO Som Pal Singh Kalier, Rdo Fit, 05 Feb 2010

- 636527 WO Vishnu Pratap Singh, Rdo Fit, 01 Dec 2009
- 638271 WO Mahesh Chandra, Rdo Fit, 01 Oct 2009
- 638437 WO Rabindranath Ojha, Rdo Fit, 01 Dec 2009
- 650862 WO Bidyadhar Behera, Rdo Fit, 03 Feb 2010
- 651045 WO Satyabir Singh Duhoon, Rdo Fit, 03 Feb 2010
- 653010 WO Ramkanwar, Rdo Fit, 01 Dec 2009
- 653781 WO Ratan Lal, Rdo Fit, 01 Dec 2009
- 654351 WO Charan Singh Motlia, Rdo Fit, 01 Oct 2009
- 672828 WO Bhagwan Singh Rathour, Rdo Fit, 01 Oct 2009
- 673841 WO Ajit Kumar, Rdo Fit, 01 Dec 2009
- 680071 WO Niloy Kumar Bhattacharya, Rdo Fit, 01 Mar 2009
- 680233 WO Sri Niwas Singh, Rdo Fit, 01 Mar 2009
- 680565 WO Krishnan Kuyyanan Gadan, Rdo Fit, 01 Oct 2009
- 680627 WO Ram Naresh Tyagi, Rdo Fit, 01 Oct 2009
- 625983 WO Ramesh Rao, Rdo Tech, 21 Feb 2009
- 638691 WO Agrawal Sunil Gulachand, Rdo Tech, 15 Feb 2009
- 639058 WO Gaikwad Nandakishor Bapurao, Rdo Tech, 27 Feb 2009
- 639729 WO Ravinder Kumar, Rdo Tech, 25 Feb 2009
- 653923 WO Ashok Kumar, Rdo Tech, 15 Feb 2009
- 654541 WO Surender Kumar Jarwal, Rdo Tech, 21 Feb 2009
- 654635 WO Shailendra Kumar Asthana, Rdo Tech, 23 Feb 2009
- 672941 WO Vishunpal Singh, Rdo Tech, 23 Feb 2009
- 672964 WO Devendra Pratap Singh, Rdo Tech, 21 Feb 2009
- 673288 WO Sanjit Kumar Dey, Rdo Tech, 23 Feb 2009
- 673427 WO Jitendra Kumar Singh, Rdo Tech, 01 Mar 2009
- 673474 WO Raju Rajagopal, Rdo Tech, 25 Feb 2009
- 673521 WO Satyendra Kumar, Rdo Tech, 25 Feb 2009
- 673522 WO Rajendra Prasad, Rdo Tech, 25 Feb 2009
- 673523 WO Girish Deo Prasad, Rdo Tech, 01 Mar 2009
- 673555 WO Vinay Kumar Sharma, Rdo Tech, 25 Feb 2009
- 674804 WO Karimireddy Gopi, Rdo Tech, 27 Feb 2009
- 682642 WO Rabin Chandra Das, Rdo Tech, 17 Feb 2009
- 683201 WO Rajput Janak Singh, Rdo Tech, 17 Feb 2009
- 683410 WO Ramharesh Mani Tripathi, Rdo Tech, 19 Feb 2009
- 683491 WO Pradeep Singh, Rdo Tech, 19 Feb 2009
- 684858 WO Vijay Shankar, Rdo Tech, 19 Feb 2009
- 643205 WO Rajender Singh, SEW, 01 Aug 2008
- 644477 WO Ajai Kumar Srivastava, SEW, 04 Jun 2009
- 644885 WO Abid Hussain Ansari, SEW, 04 Dec 2008
- 644887 WO Lalan Ji Choudhary, SEW, 02 Sep 2008
- 644900 WO Surajmal, SEW, 02 Sep 2008
- 657448 WO Ram Bilas Sharma, SEW, 02 Dec 2008
- 657738 WO Biswal Biprabar, SEW, 02 Sep 2008
- 658002 WO Atindra Nath Ray, SEW, 02 Dec 2008
- 658248 WO Satyendra Narayan Singh, SEW, 04 Dec 2008
- 668363 WO Dulal Chandra De, SEW, 01 Jul 2008
- 678824 WO Param Vir Singh Sengar, SEW, 01 Jul 2008
- 678940 WO Mange Ram Tyagi, SEW, 01 Jul 2008
- 679101 WO Vishwamitra Keshri, SEW, 03 Mar 2009
- 696077 WO Birender Singh Yadav, SEW, 02 Jun 2009
- 644562 WO Ramakant Prasad Singh, Wpn Fit, 31 Oct 2008
- 659794 WO Dewendra Chaubey, Wpn Fit, 02 Mar 2009
- 662475 WO Vidya Kant Mishra, Wpn Fit, 31 Oct 2008
- 662735 WO Bhanwar Dass Arora, Wpn Fit, 31 Oct 2008
- 669917 WO Nawal Kishor Jain, Wpn Fit, 02 Nov 2008
- 675141 WO Jograj Singh, Wpn Fit, 02 Nov 2008
- 293980 WO Rajendra Singh, WS Fit (C), 02 Jun 2009
- 643754 WO Girraj Singh Attri, WS Fit (C), 02 Aug 2009
- 657339 WO Birender Singh Tomar, WS Fit (C), 02 Sep 2009
- 657593 WO Pardeep Kumar, WS Fit (C), 02 Oct 2009
- 658791 WO Sureshpal Rana, WS Fit (C), 02 May 2010
- 660636 WO Tapan Kumar Mitra, WS Fit (C), 02 Feb 2010
- 662120 WO Anjan Kumar Das, WS Fit (C), 04 Oct 2008
- 666027 WO Hakim Singh Rajput, WS Fit (C), 01 Feb 2009
- 668030 WO Maharaj Singh, WS Fit (C), 02 Mar 2009
- 657759 WO Pradeep Kumar, WS Fit (M), 26 Jun 2007

658023 WO Umesh Chand Sharma, WS Fit (M), 02 Nov 2007

658041 WO Narendra Singh Saun, WS Fit (M), 01 Jun 2008

658532 WO Ghewar Ram, WS Fit (M), 02 Mar 2009

659018 WO Raghuvveer Singh Rajpurohit, WS Fit (M), 03 Jun 2008

ANJALI SINGH  
Dir (Air-I)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 435, dated 1st September 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

G Sree Lakshmi to be Construction Engineer, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 6,600/-

A Subba Reddy to be Senior Accounts Officer Grade-II, Gp 'A' on probation for two years in DRDO with effect from 16 Mar 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 5,400/-

Meena Saxena to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Feb 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

CH Vijaya Kumar, to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 13 May 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

GD Dayakar Rao to be JD (Admin), Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Apr 2010 (F/N) Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay of Rs. 8,700/-

K V Krishna Murthy, to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 13 May 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

S Kumar, to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 12 Jan 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

V Madhusudhan Rao, to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 30 Mar 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay Rs. 4,600/-

L Bhanumathi, to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 24 Jan 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

Suresha Nand to be Hindi Officer, Gp 'A' (Gazetted) with effect from 11 Mar 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 5,400/-

K Rajamani, to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 21 Feb 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

Nandan Prasad to be Hindi Officer, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 11 Mar 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs. 5,400/-

Sudershan Taneja, to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 19 May 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay Rs. 4,600/-

Sonam Rigdan, to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay Rs. 4,600/-

N Hari Kishan, to be Civilian Assistant Security Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 27 Jan 2011 (F/N) in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

Davinder Kishor to be Sr Pvt Secy, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 May 2009 (F/N) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 5,400/-

C H Subba Raju to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 26 Aug 2008 (F/N) in the Pay Scale of Rs. 6,500—10,500/-

A K Mishra to be Sr Stores Officer Grade-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Feb 2011 (F/N) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 5,400/-

P Sahu, to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-

S K Ray, to be Hindi Officer, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 20 Dec 2010 (F/N) Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 5,400/-

Shobha S Joshi, to be Hindi Officer, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 31 Dec 2010 (F/N) Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 5,400/-

Valsamma Varghese, to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-

S I Shaikh, to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 13 Jan 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-

M B Raju, to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 30 Dec 2008 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-

V P SINGH  
Dy Dir (Pers)

No. 436, dated 2nd September 2011—The President is pleased to promote the following Scientists of PXE,

Chandipur, Balasore from their existing grade to the next higher grade in the same establishment with effect from 01 Jul 2011 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Band + Grade Pay

A K Sannigrahi, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000 + 8,900/-

H S Panda, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 37,400—67,000 + 8,700/-

Dillip Kumar Behera, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100 + 7,600/-

Arkadeb Banerjee, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100 + 7,600/-

Kunal Ray, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100 + 7,600/-

Sankarsan Padhy, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100 + 7,600/-

The President is pleased to promote the following Scientists of ARDE, Pune from their existing grade to the next higher grade in the same establishment with effect from 01 Jul 2011 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Band + Grade Pay

D K Kharat, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 37,400—67,000 + 10,000/- + Special pay 4,000/-

A A Ghosh, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 37,400—67,000 + 10,000/- + Special pay 4,000/-

NARSINGH SAHU  
Jt Dir (Pers)

#### ARMY BRANCH

No. 437, dated 2nd September 2011—The President is pleased to permit the undermentioned officers to resign their commission :—

#### TERRITORIAL ARMY

#### RESIGNATION

Lt Alan Roy Jyrwa (TA-42694), Infantry, 03 Feb 2010

Lt Sanjiv Kaura (TA-42689), Infantry, 19 Apr 2010

Capt V C Gaur (TA-42621), Infantry, 22 Mar 2010

Lt Nitin Jain (TA-42662), Infantry, 10 Jun 2010

Lt Muneer Ahmed Bhat (TA-42765), Infantry, 30 Jul 2010

Lt Ajay Alex (TA-42767), Infantry, 10 Nov 2010

Lt Manish Dutta (TA-42770), Infantry, 15 Oct 2010

V RAJARAM  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 438, dated 5th September 2011—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :—

#### TERRITORIAL ARMY

#### RETIREMENT

Lt Col Palavivel Sampath (TA-42008), Infantry, 28 Feb 2011 (AN)

Lt Col Manaram Mali (TA-41783), Engr (TA), 31 Dec 2008 (AN)

Lt Col H K Sayal (TA-41833), Engr (TA), 31 Dec 2008 (AN)

Maj Tarawati [TA(N)-1077], MNS (TA), 28 May 2008 (AN)

V RAJARAM  
Under Secy